



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 16—दिसम्बर 22, 2006 (अग्रहायण 25, 1928)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 16—DECEMBER 22, 2006 (AGRAHAYANA 25, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2006

सं. 615, दिनांक 15 नवम्बर 2006—राष्ट्रपति, श्री शूरवीर सिंह पायल को 25 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-10,500/- रुपए के वेतनमान में अनंतिम आधार पर रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. शेषय्या

निदेशक (स्थापना)

धल सेना विभाग

सं. 616, दिनांक 16 नवम्बर 2006—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-840022एच), 01 जुलाई 2006

सूबेदार मदन लाल (जेसी-840019एच), 01 जुलाई 2006

सूबेदार गैन्डा सिंह चौहान (जेसी-149070एक्स), 01 जुलाई 2006

सूबेदार जय भगवान सिंह (जेसी-184070डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

सूबेदार मंगल सिंह (जेसी-205478एल), 01 अगस्त 2006

सूबेदार भाग सिंह (जेसी-176411एफ), 01 अगस्त 2006

सूबेदार पेमा राम (जेसी-197632एफ), 01 अगस्त 2006

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार रसत अली (जेसी-840866वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-181901वाई), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार श्री रामचन्द्रा चन्द (जेसी-199143पी), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार सुरेश कुमार सिन्हा (जेसी-660146पी), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार जोगिन्दर चन्द शर्मा (जेसी-588009एक्स), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार गोपाल लाल गुर्जर (जेसी-478102डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जेसी-518723ए), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार झिलमल सिंह (जेसी-428225एम), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार कुँवर सिंह (जेसी-528130एफ), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार मेहर सिंह (जेसी-578272पी), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-578151एन), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार पूरनमल (जेसी-258825ए), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार नत्थूराम राहुल (जेसी-568102एक्स), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार नारायण दत्त (जेसी-590033एम), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार दिवान राज (जेसी-448850पी), 01 अगस्त 2006

स्थाई सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार/लिपिक रंजित कुमार मंडल (जेसी-172466एन), 01 जुलाई 2006

स्थाई सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार/लिपिक रंगील सिंह (जेसी-841070पी), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार/लिपिक मनबीर सिंह (जेसी-841072ए), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 14316029एफ अब जेसी-841913एक्स), 27 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार राकेश कुमार (सं. 10361846एन अब जेसी-842000एच), 09 मई 2006**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006)

हवलदार मोहम्मद उनुसुदीन लसकर (सं. 14516977पी अब जेसी-842012एक्स), 28 जून 2006***

हवलदार अभिमन्यु स्वेन (सं. 1452764एक्स अब जेसी-842015एल), 24 अगस्त 2006***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006)

हवलदार लाल सिंह बिष्ट (सं. 1455001एम अब जेसी-842037के), 15 जून 2006****

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006)

हवलदार गणेश दत्त (सं. 10360667एफ अब जेसी-842049वाई), 11 जुलाई 2006*****

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 4448922एम अब जेसी-842051डब्ल्यू), 03 मई 2006*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006)

हवलदार पृथ्वी सिंह (सं. 2864730ए अब जेसी-842054के), 05 सितम्बर 2006*****

हवलदार आनन्द सिंह गुसाई (सं. 14516535डब्ल्यू अब जेसी-842065डब्ल्यू), 23 अगस्त 2006*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006)

हवलदार चन्दर सिंह (सं. 4166062एन अब जेसी-842070एफ), 07 सितम्बर 2006

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3168533वाई अब जेसी-842073पी), 06 सितम्बर 2006*****

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1046093पी अब जेसी-842074एक्स), 02 सितम्बर 2006*****

हवलदार गोविन्द गुरूंग (सं. 9413772एक्स अब जेसी-842075ए), 28 अगस्त 2006*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006)

हवलदार राकेश चन्द्र शर्मा (सं. 14518641एन अब जेसी-842086एम), 26 अगस्त 2006*****

हवलदार अवतार सिंह (सं. 2458728वाई अब जेसी-842089ए), 28 अगस्त 2006*****

हवलदार जीत सिंह (सं. 1047217एल अब जेसी-842091एक्स), 28 अगस्त 2006*****

हवलदार लज्जा राम (सं. 9213440के अब जेसी-842092ए), 22 अगस्त 2006*****

हवलदार वासुदेव (सं. 7108874वाई अब जेसी-842094एल), 23 अगस्त 2006*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006)

हवलदार पूरन सिंह दिओरी (सं. 4166521एफ अब जेसी-842107एक्स), 13 सितम्बर 2006*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006)

टी. के. एम. पिल्लै
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एमजीओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 617, दिनांक 17 नवम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सूबेदार दयाल सिंह (जेसी-748074वाई), 01 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

सूबेदार कल्याण दत्ता (जेसी-748742के), 01 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

सूबेदार ईश्वर दयाल सिंह (जेसी-748437एक्स), 01 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

सूबेदार गोपाल प्रसाद देव (जेसी-748409एल), 01 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

सूबेदार मुरारी लाल चौधरी (जेसी-748961एल), 01 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

सूबेदार सुसीलन नायर आर (जेसी-749379एल), 01 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-749375पी), 01 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

सूबेदार सुरेन्द्र प्रताप सिंह (जेसी-747938एल), 01 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

सूबेदार एन गोपाल कृष्णन नायर (जेसी-748734एल), 02 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

सूबेदार फुलेन्द्र चौधरी (जेसी-748262ए), 01 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

सूबेदार महेन्द्र राय (जेसी-748291पी), 01 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

सूबेदार हरेन्द्र कुमार (जेसी-748310पी), 02 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

सूबेदार आनंद चन्द्र नायक (जेसी-748175एम), 03 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005*

सूबेदार तेज पाल सिंह (जेसी-748290एम), 01 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

सूबेदार दयानंद उप्रेति (जेसी-748397एफ), 02 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

सूबेदार पवार अशोक भिमा राव (जेसी-748904के), 01 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

सूबेदार माधवन कुट्टी एन (जेसी-749390के), 01 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

सूबेदार सुरेन्द्र कुमार मौर (जेसी-749421वाई), 01 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

सूबेदार ओम प्रकाश शर्मा (जेसी-748789पी), 01 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

सूबेदार के सुन्दरस्वरन नायर (जेसी-748867एफ), 01 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

सूबेदार जगदीश प्रसाद शर्मा (जेसी-749044एन), 01 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

सूबेदार हरि कुमार घोष (जेसी-748406एक्स), 01 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

सूबेदार नीलकान्त मट्टिकोष्प (जेसी-748398के), 02 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

सूबेदार जगतार सिंह स्नान (जेसी-749715एम), 08 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

सूबेदार मेजर डी डब्ल्यू के रैंक में

सूबेदार सुरिन्द्र सिंह (जेसी-754967एच), 17 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

सूबेदार हरिष कुमार पनवर (जेसी-752796एच), 01 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

सूबेदार मेजर एस के टी के रैंक में

सूबेदार ईश्वर चन्द्र समन्त्रै (जेसी-748825पी), 01 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

सूबेदार सिलवेस्टर सोरेना (जेसी-748822एफ), 01 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

सूबेदार मेजर टेक्नीकल ए वी एन के रैंक में

सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-751068डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

सूबेदार राधे श्याम दिक्षित (जेसी-753721एक्स), 01 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

सूबेदार मेजर आरटीजन (ए वी एन) के रैंक में

सूबेदार हरि क्रिष्णा मुर्थी ए (जेसी-750866एक्स), 01 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

सूबेदार मेजर क्लर्क (जीडी) के रैंक में

सूबेदार अर्जुन सिंह लिनावाल (जेसी-747050एच), 01 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

सूबेदार सर्फराज अहमद खान (जेसी-747045एक्स), 01 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005*

सूबेदार मोहन लाल (जेसी-747049एन), 01 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

सूबेदार रत्न चन्द शर्मा (जेसी-747097एन), 01 अप्रैल 2006/
01 अप्रैल 2006 *

सूबेदार रमेश चन्द्र यादव (जेसी-747069एफ), 01 अप्रैल 2006/
01 अप्रैल 2006 *

सूबेदार मेजर आरटीजन (एन ई) के रैंक में

सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-749563डब्ल्यू), 01 मार्च 2006/01 मार्च
2006 *

सूबेदार भुवन गोगड़ (जेसी-751595एक्स), 01 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

सूबेदार मेजर आरमोर के रैंक में

सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-753266ए), 01 फरवरी 2006/
01 फरवरी 2006 *

सूबेदार राम बहादुर थापा (जेसी-753260वाई), 01 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

सूबेदार मेजर आरटीजन (एन ई) के रैंक में

सूबेदार धरुम्बिर (जेसी-750819ए), 01 नवम्बर 2005/01 नवम्बर
2005 *

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार गौलिशिलेकर जे वाई (जेसी-755488एन), 28 दिसम्बर
2005/01 जनवरी 2005 *

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-755766डब्ल्यू), 17 जनवरी
2006/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-755775एक्स), 27 दिसम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-756005एक्स), 23 जनवरी 2006/
01 नवम्बर 2005 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-755880एन), 27 दिसम्बर 2005/
01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार दुर्योधन सिंह (जेसी-756034एम), 13 जनवरी 2006/01
दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार राज कुमार शर्मा (जेसी-755973एच), 26 दिसम्बर
2005/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार मोहम्मद इलियास (जेसी-755885एम), 16 जनवरी
2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार मुष्ताक अहमद (जेसी-755976डब्ल्यू), 03 जनवरी
2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-755901वाई), 27 जनवरी 2006/
01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार करम द्यानेश्वर सी (जेसी-755977वाई), 12 जनवरी
2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार मान सिंह गुर्जर (जेसी-755993डब्ल्यू), 13 जनवरी
2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार मोहम्मद अक्रम (जेसी-756035पी), 27 दिसम्बर
2005/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-756009एन), 25 जनवरी 2006/01
दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार केशर देव बिर्दा (जेसी-756013डब्ल्यू), 24 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार क्रिशन कुमार (जेसी-756512एल), 25 जनवरी 2006/01
जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार प्रसन्न पी (जेसी-755944एन), 24 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार राम्निष कुमार (जेसी-756060एन), 25 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार मनोरंजन बेहुरा (जेसी-756390एम), 25 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार राम सिंह गुर्जर (जेसी-756391पी), 25 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार राय (जेसी-756016के), 21 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार विल्सन ए (जेसी-756513एन), 21 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार राधे लाल (जेसी-756017एम), 24 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-755949एम), 25 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार एस के स्वैन (जेसी-755955ए), 25 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार उन्निक्रिष्ण एन (जेसी-755947एफ), 27 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार हन्स राज (जेसी-755956एच), 27 जनवरी 2006/01
जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार बीर सिंह (जेसी-755948के), 21 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार नरेश चन्द्र पाल (जेसी-756061डब्ल्यू), 23 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार ई लोकनादन (जेसी-756392एक्स), 25 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार सन्जय कुमार गुप्ता (जेसी-755951के), 24 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र सिंह (जेसी-756674डब्ल्यू), 31 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार मोची साहू (जेसी-755954एक्स), 31 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

सूबेदार आरटीजन (ईसी) के रैंक में

नायब सूबेदार प्रोह्लाद चन्द्र डे (जेसी-756425एक्स), 16 नवम्बर
2005/28 जून 2005 *

नायब सूबेदार श्यामा नन्द मुखर्जी (जेसी-757310डब्ल्यू), 12 जनवरी
2006/01 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार प्रसान्ता कुमार अचार्या (जेसी-757774एन), 30 दिसम्बर
2005/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार मधु सूदनन नायर पी आर (जेसी-758046ए),
25 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार सारदा नन्द सिंह (जेसी-757952एल), 30 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार पी मनार स्वामी (जेसी-758055एफ), 30 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार ए लोगनाथन (जेसी-757954डब्ल्यू), 24 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार विनय कुमार कटियार (जेसी-758087के), 25 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार राज कुमार पटेल (जेसी-756270एन), 19 जनवरी
2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार याकूब अलि खान (जेसी-756217एच), 25 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार निर्मल कुमार मोन्डल (जेसी-756212के), 27 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार बालेश्वर प्रसाद वर्मा (जेसी-756312पी), 25 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार कनक चन्द्र दास (जेसी-754201वाई), 21 जनवरी
2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार नरिन्द्र सिंह (जेसी-754202एफ), 24 दिसम्बर 2005/
01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार डी एस यादव (जेसी-754205पी), 16 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

सूबेदार एस के टी के रैंक में

नायब सूबेदार पी राजमनि (जेसी-754216एफ), 18 जनवरी 2006/
01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार सुलाखान सिंह (जेसी-754307एल), 26 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार राम कुमार दिक्षित (जेसी-754308एन), 02 फरवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

सूबेदार आरमोरर के रैंक में

नायब सूबेदार मंगल सिंह (जेसी-756074एन), 17 दिसम्बर 2005/
01 सितम्बर 2005 *

नायब सूबेदार एस सी पाल (जेसी-757096वाई), 31 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-757522एफ), 02 जनवरी 2006/
01 नवम्बर 2005 *

नायब सूबेदार सुदर्शन साह (जेसी-757998एन), 21 जनवरी 2006/
01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जेसी-757925एफ), 14 जनवरी 2006/
01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार राज बहादुर (जेसी-757980एक्स), 13 जनवरी 2006/
01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-758171के), 21 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार सुमेर सिंह भुकर (जेसी-758156पी), 28 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-758157एक्स), 26 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार जवाहर ओझा (जेसी-758172एम), 29 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार रान सिंह (जेसी-758160एक्स), 25 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार पाटिल हन्मन्ता नायक (जेसी-758161ए), 27 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार एन पाटिल (जेसी-758162एच), 30 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार हरेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-758163एल), 27 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार राम नरेश तिवारी (जेसी-758164एन), 25 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार पुरन साहू (जेसी-758165डब्ल्यू), 03 फरवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

सूबेदार टेक्नीकल ए वि एन के रैंक में

नायब सूबेदार जी दास (जेसी-756499एम), 19 अगस्त 2005/
01 जून 2005 *

सूबेदार आरटीजन (एवीएन) के रैंक में

नायब सूबेदार लैक अहेम्मद (जेसी-756895एच), 08 जनवरी 2006/
01 नवम्बर 2005 *

सूबेदार आर टी के रैंक में

नायब सूबेदार विनय कुमार (जेसी-750709एल), 04 जनवरी 2006/
01 दिसम्बर 2005 *

सूबेदार आर्टीजन (ईसी) के रैंक में

नायब सूबेदार बुदान मरान्डी (जेसी-756429एन), 17 मार्च 2006/
01 जनवरी 2004 *

नायब सूबेदार दलाल उत्तम कुमार (जेसी-757209डब्ल्यू), 19 जनवरी
2006/28 जून 2005 *

नायब सूबेदार सूबे सिंह (जेसी-757941वाई), 26 दिसम्बर 2005/
01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश वर्मा (जेसी-758240पी), 04 अप्रैल
2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार रमेश सिंह नेगी (जेसी-758129एल), 27 मार्च 2006/
01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार प्रशान्त कुमार दास (जेसी-758239ए), 28 मार्च
2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार बलराम सिंह (जेसी-757356वाई), 24 अप्रैल 2006/
06 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार देशपान्डे शिवाजी जी राव (जेसी-758130ए),
24 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सोनप्पा दादु देशमुख (जेसी-758134डब्ल्यू), 19 अप्रैल
2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार अतर लाल (जेसी-758135वाई), 20 अप्रैल 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार विमल चन्द्र मैटी (जेसी-758248एफ), 24 अप्रैल
2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार निर्मल कुमार मोहन्ती (जेसी-757246के), 24 अप्रैल
2006/06 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार लोकिन्दर सिंह (जेसी-758131एच), 26 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार श्रीकान्त तिवारी (जेसी-758290ए), 25 अप्रैल 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार मोहर सिंह (जेसी-757249एक्स), 01 मई 2006/
06 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार रतन सिंह बुबनिवाल (जेसी-756710डब्ल्यू), 23 अप्रैल

सूबेदार आर्टीजन(एनई) के रैंक में

नायब सूबेदार सुबीर सिंह (जेसी-756218एल), 09 मार्च 2006/
01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार गनपत राम (जेसी-756219एन), 09 मार्च 2006/
01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार राज नारायण गिरी (जेसी-756539एच), 20 मार्च
2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-756432एन), 21 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार प्रेमा नन्दा पात्रा (जेसी-756415एन), 17 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार मिथलेश कुमार (जेसी-756433डब्ल्यू), 21 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-756542एच), 26 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-756541ए), 17 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार साहब सिंह (जेसी-754211एच), 24 मार्च 2006/
01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार सत्य प्रकाश कौशिक (जेसी-754282के), 01 मार्च
2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार उदयवीर सिंह परिहार (जेसी-754290एच), 21 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार बसन्त कुमार पान्डे (जेसी-754297एम), 17 अप्रैल
2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार नन्द किशोर चौधरी (जेसी-754292एन), 26 अप्रैल
2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार धरूवा नारायण द्विवेदी (जेसी-754299एक्स), 01 मई
2006/01 मई 2006 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र पाल सिंह (जेसी-754283एम), 08 मार्च
2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-754293डब्ल्यू), 21 अप्रैल 2006/
01 अप्रैल 2006 *

सूबेदार एस के टी के रैंक में

नायब सूबेदार महिपाल (जेसी-754309डब्ल्यू), 30 मार्च 2006/
01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार रेमेशन यू (जेसी-754310एल), 08 मार्च 2006/
01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार अशोक पाण्डे (जेसी-754311एन), 24 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

सूबेदार आरमोरर के रैंक में

नायब सूबेदार यादव उत्तम तुका राम (जेसी-756261एम), 08 नवम्बर
2005/01 सितम्बर 2006 *

नायब सूबेदार कर्मेंश्वर बोरो (जेसी-756720ए), 05 फरवरी 2006/
01 सितम्बर 2005 *

नायब सूबेदार रूकमनि नायक (जेसी-756818एन), 30 जनवरी
2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार विक्रम सुन्दी (जेसी-757311वाई), 18 अप्रैल 2006/
01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार सुन्दर प्रकाश (जेसी-757314एम), 23 मार्च 2006/
01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार राजखोवा (जेसी-757317ए), 20 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार पाण्डे (जेसी-757320ए), 27 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार गोपाल चन्द्र साहा (जेसी-757559एच), 02 मई 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार मनोरन्जन अदक (जेसी-757319एल), 09 मई 2006/
01 मार्च 2006 *

सूबेदार रिक्वरी मैक के रैंक में

नायब सूबेदार राम पाल शर्मा (जेसी-752613एफ), 28 जनवरी
2006/01 दिसम्बर 2005 *

सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

नायब सूबेदार नारायण दास (जेसी-757569एम), 04 मार्च 2006/
19 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार सुभाष पाण्डे (जेसी-757825डब्ल्यू), 13 मार्च 2006/
01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार प्रह्लाद (जेसी-757949एल), 26 दिसम्बर 2005/
01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार दयानन्द (जेसी-758155एम), 14 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार दीनबन्धु कुन्वर (जेसी-758372एच), 08 मार्च 2006/
01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह (जेसी-758752एफ), 09 मार्च 2006/
01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार शक्ति चन्द (जेसी-758373एल), 25 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार थन्कप्पन के (जेसी-758428के), 17 अप्रैल 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार विपिन बिहारी सिंह (जेसी-757605एम), 20 अप्रैल
2006/06 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार हेमन्त कुमार सामल (जेसी-758374एन), 21 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार वाई देवेन्द्रा सिंघा (जेसी-758842एच), 26 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार एम डी हूमयुन कबीर (जेसी-758375डब्ल्यू), 22 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-758376वाई), 01 मई 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार चन्दर वीर सिंह (जेसी-758425डब्ल्यू), 22 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सम्बी रेड्डी मनिक्कोन्डा (जेसी-758755पी), 18 अप्रैल
2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार नाथु सिंह (जेसी-758426वाई), 03 मई 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार सुग्रीव सिंह गुर्जर (जेसी-758756एक्स), 20 अप्रैल
2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार केश राम गुर्जर (जेसी-758427एफ), 24 अप्रैल
2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार बल राम (जेसी-757810एन), 06 मई 2006/06 दिसम्बर
2005 *

सूबेदार आर टी के रैंक में

नायब सूबेदार अवधेश कुमार पाण्डे (जेसी-751245एल), 21 फरवरी
2006/13 जनवरी 2006 *

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार महेश चन्द्र शर्मा (जेसी-756098एक्स), 01 मार्च
2006/01 फरवरी 2006 *

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।)

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

पक्के सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनिशियन के रैंक में

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनिशियन राम मिलन (जेसी-
722771एफ), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनिशियन प्रदीप चंद्र बरुवा (जेसी-
722770वाई), 01 मार्च 2006

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनिशियन कोले लक्ष्मन यालाप्या (जेसी-
722783डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

पक्के सूबेदार मेजर लिपिक (ए ओ सी) के रैंक में

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल प्रेम पाल (जेसी-723053एक्स),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल बदरी नारायण हाजरा (जेसी-
723093वाई), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल बाबू लाल यादव (जेसी-
723095के), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार मेजर लिपिक जीडी राजेन्द्र सिंह (जेसी-723130एफ),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर लिपिक जीडी रंजीत सिंह (जेसी-723200पी),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस प्रोविजन राजन के के (जेसी-723280वाई),
01 जनवरी 2006

सूबेदार मेजर लिपिक एस प्रोविजन राजेन्द्र सिंह (जेसी-723127एफ),
01 जनवरी 2006

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल राजेन्द्र सिंह यादव (जेसी-
723245पी), 01 फरवरी 2006

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल रामेश्वर सिंह (जेसी-
723246एक्स), 01 फरवरी 2006

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल राजेन्द्र प्रसाद सिंह यादव (जेसी-
723186एन), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल राम पाल शर्मा (जेसी-
723248एच), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल पितम्बर दत्त गोरोला (जेसी-
723285डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार मेजर लिपिक एस प्रोविजन भुपीन्द्रजीत सिंह बाजवा (जेसी-
723251एच), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल चन्द्र प्रकाश तिवारी (जेसी-
723215एक्स), 01 अप्रैल 2006

पक्के सूबेदार मेजर एस के टी के रैंक में

सूबेदार मेजर एस के टी सिग्नल बलदेव सिंह (जेसी-722959डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी मनोहरन पी (जेसी-722960एल),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी शशी कान्त पाठक (जेसी-723073एल),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार मेजर एस के टी अम्युनिशन एन एस बाडीवेल (जेसी-
723028वाई), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी सुभाष चन्द्र दास (जेसी-
723075डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर एस के टी त्रेपन वाबर भीमराव मारुती (जेसी-
722998पी), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी उथ्थमन ए (जेसी-723101एम),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर एस के टी सिग्नल शंकरा नारायणन ए (जेसी-
723110एन), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी प्रभात कुमार (जेसी-723189एफ),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी शर्मा वीरेन्द्र ओम प्रकाश (जेसी-
723133पी), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी कुन्दन लाल शर्मा (जेसी-
722996के), 01 फरवरी 2006

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी गौर नारायणन शीट (जेसी-
723030डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

सूबेदार मेजर एस के टी अम्युनिशन चंद्र भूषण सिंह (जेसी-
723081के), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी दूध नाथ पाल (जेसी-723157वाई),
01 अप्रैल 2006

पक्के सूबेदार मेजर एस एच जी डी के रैंक में

सूबेदार मेजर एस एच जी डी पूर्ण सिंह (जेसी-724160एल),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार मेजर एस एच जी डी शंकर लाल (जेसी-724806एच),
01 दिसम्बर 2005

पक्के सूबेदार मेजर कारपेन्टर (यूनिट) के रैंक में

सूबेदार मेजर कारपेन्टर (यूनिट) हंस राज (जेसी-724462एक्स),
01 सितम्बर 2005

पक्के सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन के रैंक में

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन रतन साहा (जेसी-724434एल),
01 अगस्त 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन भक्ता बालसन पी एस (जेसी-
724435एन), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन गुरपाल सिंह (जेसी-724436डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन सुरेन्द्र कुमार (जेसी-724437वाई),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन साजन सिंह (जेसी-724435एफ),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन सूरज सिंह (जेसी-724421एन),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन साधन पाल (जेसी-724466एन),
01 दिसम्बर 2005

पक्के सूबेदार लिपिक (ए ओ सी) के रैंक में

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन जगदेव सिंह (जेसी-724586एम),
01 जून 2005

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल हरी चंद (जेसी-725104वाई), 01 जून
2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन सलभम एम (जेसी-725105एफ),
01 जून 2005

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अब्दुल हाफिज (जेसी-725083एन),
01 जून 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन टी अशोकन (जेसी-725084डब्ल्यू),
01 जून 2005

सूबेदार लिपिक जी डी ओपेन्दा नारायण पान्डे (जेसी-725085वाई),
01 जून 2005

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रामा नन्द मोरिया (जेसी-725107एम),
01 जुलाई 2005

सूबेदार लिपिक जी डी अनसर अली मालीक (जेसी-725087के),
01 जुलाई 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन मधुसूदन आचार (जेसी-725713एच),
01 जुलाई 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन अर्जुन महतो (जेसी-725085एम),
01 जुलाई 2005

सूबेदार लिपिक जी डी मोहनन मुथाईयान भीटिल (जेसी-725123के),
01 जुलाई 2005

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सरब देब पाठक (जेसी-725188एक्स),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल केवल सिंह मुयाल (जेसी-725137के),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन शमीउद्दीन (जेसी-725109एक्स),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल बिन्दीलेश शर्मा (जेसी-725110एम),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल प्रदीप दत्ता (जेसी-725124एम),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल के मथुरमन (जेसी-725125पी),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन भगवान दास (जेसी-725111पी),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन राज कुमार शुक्ला (जेसी-725112एक्स),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल हंसराज गुजार (जेसी-725126एक्स),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन सत्यपाल मालीक (जेसी-725127ए),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल दशरथ सिंह (जेसी-725143एक्स),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रवीन्द्र पाल सिंह (जेसी-725144ए),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक जी डी हरि नारायण चौबे (जेसी-725138एम),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक जी डी गणेश प्रसाद जैशवारा (जेसी-725139पी),
01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक जी डी सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-725162एच),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन गौरी शंकर तिवारी (जेसी-725145एच),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन ब्रौज पाल (जेसी-725140के),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी जय वीरेन्द्र सिंह (जेसी-725141एम),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी सुरेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-725142पी),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी शिवा गुन्डाप्पा एस उल्लागाडी
(जेसी-725163एल), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन अशोक कुमार (जेसी-725164एन),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन राकेश कुमार (जेसी-725165डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी सीता राम त्रिपाठी (जेसी-725191एक्स),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी राजेन्द्र सिंह सिंधु (जेसी-725167एफ),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी एम मानी (जेसी-725168के),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी अजय कुमार सिंह (जेसी-725197वाई),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन लाला राम (जेसी-725169एम),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन श्रीनिवाशन बी (जेसी-725170एफ),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी अनूप सिंह (जेसी-725255एक्स),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी भाष्कर दत्त जोशी (जेसी-725198एफ),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी हरी चंद्रन नायर वी जी (जेसी-725199के),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी बीश्वजीत मजुमदार (जेसी-725200एन),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन राधे श्याम (जेसी-725201डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी उन्वै एम ए (जेसी-725202वाई),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी देबेन चंद्र नाथ (जेसी-725217एफ),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन ईश्वर सिंह (जेसी-725203एफ),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी वीष्णु प्रसाद सैन (जेसी-725205एम),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल कल्यान सिंह (जेसी-725206पी),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी पद्यानाभन पी वी (जेसी-725232डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन बीरेन्द्र सिंह (जेसी-725272एक्स),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन सूरजभान सिंह (जेसी-725257एच),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन चरण सिंह (जेसी-725233वाई),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी असीम कुमार घोष (जेसी-725234एफ),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी जे जयशेखर (जेसी-725268पी),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी पीटार (जेसी-725235के), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी इन्दर पाल (जेसी-725236एम),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन बाबू के (जेसी-725241एक्स),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी वेंकटेश्वरलु कोथा (जेसी-725237पी),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी हरी हर सरदार (जेसी-725242ए),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी जगवीर सिंह (जेसी-725238एक्स), 01 दिसम्बर
2005

सूबेदार लिपिक जी डी बिपलब रंजन नाथ (जेसी-725239ए),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी पी सुधाकर रेडी (जेसी-725240पी),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी संतोष सिंह (जेसी-725291एच), 01 दिसम्बर
2005

सूबेदार लिपिक जी डी धन सिंह दिसोदिया (जेसी-725273ए),
01 दिसम्बर 2005

पक्के सूबेदार एस के टी के रैंक में

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी अजय कुमार बाग (जेसी-
726299एफ), 01 जून 2005

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी पाठन अर्जीज खान याकूब खान
(जेसी-724728वाई), 01 जून 2005

सूबेदार एस के टी एम टी सत्येन्द्र पाल चौहान (जेसी-724754ए),
01 जून 2005

सूबेदार एस के टी एम टी वीर सिंह (जेसी-724748एम), 01 जून
2005

सूबेदार एस के टी एम टी कनवार सिंह (जेसी-724734एम), 01 जून
2005

सूबेदार एस के टी एम टी शंकर सिंह (जेसी-724140एम), 01 जुलाई
2005

सूबेदार एस के टी एम टी पबीत्र कुमार नायक (जेसी-724786ए),
01 जुलाई 2005

सूबेदार एस के टी एम टी अंजनी कुमार त्रिपाठी (जेसी-724801एम),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस के टी इंजीनियर गिरधारी राम चौधरी (जेसी-724802पी),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस के टी एम टी राजिन्दर सिंह (जेसी-724819एच),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन भट्ट दयानन्द हरी दत्त (जेसी-
724820एक्स), 01 अगस्त 2005

सूबेदार एस के टी एम टी सीया राम (जेसी-724761डब्ल्यू),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस के टी जी एस एंड सी रामशंकर सिंह (जेसी-724852ए),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस के टी सिग्नल सुन्दर पाल सिंह तलपान (जेसी- 724803एक्स),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन बिष्णु मोहन सोम (जेसी-724823एल),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस के टी जीएस एंड सी मनोज कुमार सिंह (जेसी-724824एन),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस के टी जीएस एंड सी रबीन्द्र सिंह (जेसी-724787एल),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस के टी एम टी रवीन्द्र कुमार गौडा (जेसी-724821ए),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस के टी एम टी ब्रीज नन्दन सिंह (जेसी-724889एफ),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी अरबिन्द कुमार (जेसी-724874वाई),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी अधीर कुमार जाना (जेसी-724890डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी बीभूति भूषण पालाई (जेसी-724875एफ),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी चरण सिंह सैनी (जेसी-724958एम),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी लक्ष्मीपति जी (जेसी-725048एल),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी प्रभाकरण पी के (जेसी-724853एच),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी महा सुख (जेसी-724876के), 01 अक्टूबर
2005

सूबेदार एस के टी एम टी प्रदीप कुमार (जेसी-724909के),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी चंदर पाल सिंह (जेसी-724891वाई),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी विजय पाल (जेसी-724893के), 01 अक्टूबर
2005

सूबेदार एस के टी एम टी आजाद सिंह (जेसी-724892एफ),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी हरी पाल सिंह (जेसी-724877एम),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी राम क्रिशन (जेसी-724854एल),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी ओम प्रकाश (जेसी-724878पी),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी एन कृष्णराव पटनायक (जेसी-724855एन),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी शेष मनी यादव (जेसी-724894एम),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन जगदीश सिंह (जेसी-724959पी),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी कलधरण पिल्ललाई बी (जेसी-724970एन),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी एम राज कुमार (जेसी-724895पी),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी अमृत सिंह (जेसी-724896एक्स),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार एस के टी एम टी सुरेन्द्रन एन आर (जेसी-724928पी),
01 दिसम्बर 2005

पक्के सूबेदार ड्राईवर के रैंक में

सूबेदार ड्राईवर एम टी चंदगी राम (जेसी-726022एच), 01 जून 2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी मंगल प्रसाद सिंह (जेसी-725972एल), 01 जून
2005

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल लक्ष्मन सिंह (जेसी-725974डब्ल्यू), 01 जून
2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी रमेश सिंह (जेसी-725925एन), 01 जून 2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी कामतनु गब्रीयाल (जेसी-725975वाई),
01 जून 2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी रणबीर चांद (जेसी-726024एन), 01 जुलाई
2005

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल सुबास चांद (जेसी-726099एल), 01 अगस्त
2005

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल रमेश चांद (जेसी-726124वाई), 01 अगस्त
2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी अचार सिंह (जेसी-726139एफ), 01 अगस्त
2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी हुकम सिंह (जेसी-726125एफ), 01 अक्टूबर
2005

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल जय सिंह (जेसी-726126के), 01 अक्टूबर
2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी रमाकान्त सिंह चौहान (जेसी-726212वाई),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल समसुल अरफीन (जेसी-726180एक्स),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल प्रदीप कुमार रे (जेसी-726181ए), 01 दिसम्बर
2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी सरदार प्रताप सिंह (जेसी-726223एफ),
01 दिसम्बर 2005

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल देश राम (जेसी-726269के), 01 दिसम्बर
2005

पक्के सूबेदार एस एच तकनिशियन के रैंक में

सूबेदार एस एच तकनिशियन सुबास चन्दर (जेसी-726053ए),
01 जून 2005

सूबेदार एस एच तकनिशियन रलदु राम (जेसी-726097ए), 01 अगस्त
2005

सूबेदार एस एच तकनिशियन रामबीर सिंह (जेसी-726096एक्स),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस एच तकनिशियन एम वी एस राव (जेसी-726182एच),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार एस एच तकनिशियन अजय कुमार यादव (जेसी-726183एल),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार एस एच तकनिशियन फलगुनन के के (जेसी-726273एम),
01 नवम्बर 2005

पक्के सूबेदार एस एच जी डी के रैंक में

सूबेदार एस एच जी डी कुलकरणी शचीन कमदाकर
(जेसी-726108एफ), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार एस एच जी डी एस कंगाराज (जेसी-725738पी), 01 जून
2005

सूबेदार एस एच जी डी खुशहाल प्रसाद घासिया (जेसी-725805पी),
01 जून 2005

सूबेदार एस एच जी डी राम शंकर सिंह (जेसी-725763एन), 01 जून
2005

सूबेदार एस एच जी डी गबरू मांगो यादव (जेसी-725777एन),
01 जून 2005

सूबेदार एस एच जी डी अनील कुमार के (जेसी-725940एच),
01 जुलाई 2005

सूबेदार एस एच जी डी परम हंस राम (जेसी-725941एल), 01 जुलाई
2005

सूबेदार एस एच जी डी राम कृपाल चौधरी (जेसी-725978एम),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस एच जी डी हनरी कन्दूलना (जेसी-725922ए), 01 अगस्त
2005

सूबेदार एस एच जी डी लखन सिंह (जेसी-726041एन), 01 अगस्त
2005

सूबेदार एस एच जी डी अदापा वेंकटा शोशा गीरी राव
(जेसी-725942एन), 01 अगस्त 2005

सूबेदार एस एच जी डी राजेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-725923एच),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस एच जी डी कन्हाइ कुमार (जेसी-726042डब्ल्यू),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस एच जी डी सुरेन्द्र सिंह (जेसी-725980के),
01 अगस्त 2005

सूबेदार एस एच जी डी प्रेम पाल सिंह (जेसी-725981एम), 01 सितम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी कुल बहादुर छेत्री (जेसी-725943डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार एस एच जी डी प्रताप सिंह (जेसी-725924एल), 01 सितम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी मोहम्मदीन अंसारी (जेसी-726033पी),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार एस एच जी डी बीबेकानन्द चंद्र (जेसी-725982पी),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार एस एच जी डी संत राम (जेसी-725944वाई), 01 सितम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी अबधेश द्विवेदी (जेसी-726027एफ),
01 सितम्बर 2005

सूबेदार एस एच जी डी सेख काशीम पीरा (जेसी-725945वाई),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार एस एच जी डी जय करण पाल (जेसी-725983एक्स),
01 नवम्बर 2005

सूबेदार एस एच जी डी भोला साहू (जेसी-726043वाई), 01 नवम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी शशीधरन पी (जेसी-726034एक्स), 01 नवम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी लब प्रसाद पाल (जेसी-725984ए), 01 नवम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी राम रूप राम (जेसी-725985एच), 01 नवम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी चरण दास (जेसी-726028के), 01 नवम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी गोबिंद राम (जेसी-725986एल), 01 दिसम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी जनक सिंह (जेसी-725977के), 01 दिसम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी बलभदर सिंह (जेसी-725946के), 01 दिसम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी प्रकाश सिंह (जेसी-725987एन), 01 दिसम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी नेत्र प्रकाश (जेसी-725988डब्ल्यू), 01 दिसम्बर
2005

सूबेदार एस एच जी डी मदन पाल (जेसी-726112के), 01 दिसम्बर
2005

पक्के सूबेदार कारपेंटर (यूनिट) के रैंक में

सूबेदार कारपेंटर (यूनिट) मुन्नालाल शाह (जेसी-725403एक्स),
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन शुशान्ता कुमार शान्ति
(सं. 6924788एच अब जेसी-726840के), 03 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार एस के टी अम्युनिशन शरवन कुमार श्रीवास्तव
(सं. 6920777वाई अब जेसी-726841एम), 22 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन नरेश कुमार (सं. 6927493एक्स
अब जेसी-726842पी), 05 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी अजय कुमार एम जी (सं. 6928776एल अब जेसी-726843एक्स), 02 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी निधुभूषण दास (सं. 6920504डब्ल्यू अब जेसी-726844ए), 14 जुलाई 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राईवर एम टी गणेश प्रसाद मिश्रा (सं. 6916774एन अब जेसी-726845एच), 01 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन एम अगष्टिन (सं. 6918494वाई अब जेसी-726846एल), 01 जुलाई 2005 *

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन डी रामुले (सं. 6927537के अब जेसी-726847एन), 01 जुलाई 2005 *

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल गिरिश कुमार (सं. 6918517पी अब जेसी-726848डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005 *

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल डी नबि रसूल (सं. 6918518एक्स अब जेसी-726849वाई), 01 जुलाई 2005 *

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल चमन लाल (सं. 6918524एल अब जेसी-726850एन), 01 अगस्त 2005 *

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल महेन्द्र सिंह (सं. 6918528एफ अब जेसी-726851डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005 *

हवलदार क्लर्क जी डी रविन्द्र कुमार (सं. 6929477वाई अब जेसी-726852वाई), 01 अगस्त 2005 *

हवलदार क्लर्क जी डी विशवा कुमार के (सं. 6929492एन अब जेसी-726853एफ), 22 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राबिन हानडिक्यु (सं. 6918505ए अब जेसी-726854के), 01 अगस्त 2005 *

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन बस्ति राम (सं. 6916947ए अब जेसी-726855एम), 01 अगस्त 2005 *

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी हरदान चक्रवर्ती (सं. 6920868एच अब जेसी-726856पी), 01 अगस्त 2005 *

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी पंचू गोपाल बाग (सं. 6920871एच अब जेसी-726857एक्स), 08 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी दिपक कुमार बिस्वास (सं. 6920873एन अब जेसी-726858ए), 01 अगस्त 2005 *

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी सहदेव सिंह (सं. 6920877के अब जेसी-726859एच), 01 अगस्त 2005 *

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी हरी शंकर दुबे (सं. 6920878एम अब जेसी-726860एक्स), 12 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी प्रवन्जन हलदर (सं. 6920880के अब जेसी-726861ए), 01 अगस्त 2005

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी बीरबल प्रसाद (सं. 6920885एच अब जेसी-726862एच), 01 अगस्त 2005

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी पवित्र कुमार मैती (सं. 6920886एल अब जेसी-726863एल), 01 अगस्त 2005

हवलदार ड्राईवर एम टी पदमनाभन मौधेदाथ (सं. 13886645एल अब जेसी-726864एन), 01 अगस्त 2005

हवलदार एस एच जी डी उग्र सेन (सं. 6917892एन अब जेसी-726865डब्ल्यू), 19 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार एस एच जी डी बी आर पटनायक (सं. 6917900एफ अब जेसी-726866वाई), 01 अगस्त 2005

हवलदार एस एच जी डी विजय सिंह (सं. 6917954एच अब जेसी-726867एफ), 01 अगस्त 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल नसीब सिंह (सं. 6918510एल अब जेसी-726868के), 01 जुलाई 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल आर पी दुबे (सं. 6918527वाई अब जेसी-726869एम), 01 जुलाई 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल पी के दास (सं. 6918038एन अब जेसी-726870एफ), 01 अगस्त 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल शमशेर सिंह (सं. 6917085वाई अब जेसी-726871के), 20 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी एम डी एच एन प्रधान (सं. 6929497एम अब जेसी-726872एम), 01 अगस्त 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल भूरे सिंह (सं. 6916318एच अब जेसी-726873पी), 21 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल धूर्ब कुमार राय (सं. 6918017एक्स अब जेसी-726874एक्स), 01 सितम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बिनदेश्वरी सिंह (सं. 6916195एफ अब जेसी-726875ए), 01 सितम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सतवीर सिंह (सं. 6918539एन अब जेसी-726876एच), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी एम रहमान भोला (सं. 6920876एफ अब जेसी-726877एल), 01 अगस्त 2005

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी शैलेन्द्र प्रसाद सिंह (सं. 6920881एम अब जेसी-726878एन), 01 अगस्त 2005

हवलदार एस के टी एम टी जय राम (सं. 6920691ए अब जेसी-726879डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी निहार कुमार परमानिक (सं. 6920889वाई अब जेसी-726880एल), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी रघुनाथ घोष (सं. 6920890एन अब जेसी-726881एन), 01 सितम्बर 2005

हवलदार ड्राईवर एम टी मनि लाल राय (सं. 6918960वाई अब जेसी-726882डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एस एच जी डी राम तपेश (सं. 6917829वाई अब जेसी-726883वाई), 21 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी सावल सिंह (सं. 6917895एफ अब जेसी-726884एफ), 01 अगस्त 2005

हवलदार एस एच जी डी राज कुमार प्रसाद (सं. 6917946के अब जेसी-726885के), 01 अगस्त 2005

हवलदार एस एच जी डी विद्या प्रसाद (सं. 6917960डब्ल्यू अब जेसी-726886एम), 22 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन बलदेव सिंह (सं. 6928178एन अब जेसी-726887पी), 25 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राईवर एम टी आर परूमल स्वामी (सं. 13886630एच अब जेसी-726888एक्स), 14 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी हरी स्वरूप (सं. 6918210के अब जेसी-726889ए), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एस के टी एम टी सुकूरु खेरवार (सं. 6916912के अब जेसी-726890पी), 01 मई 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल तेरसी यादव (सं. 6918372पी अब जेसी-726891एक्स), 02 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी मदन सिंह बिजरानिया (सं. 6929479के अब जेसी-726892ए), 01 अगस्त 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल आई के सिंह (सं. 6917486एन अब जेसी-726893एच), 01 सितम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल नारायण कुमार सिंह (सं. 6918592के अब जेसी-726894एल), 01 सितम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन बीर सिंह (सं. 14483579एल अब जेसी-726895एन), 01 सितम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जम्भन सिंह यादव (सं. 6918536ए अब जेसी-726896डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल समशेर सिंह (सं. 6918537एच अब जेसी-726897वाई), 01 सितम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल एम आर यादव (सं. 6918538एल अब जेसी-726898एफ), 09 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल नरेन्द्र प्रताप सिंह (सं. 6918543डब्ल्यू अब जेसी-726899के), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी गनपती बिस्वास (सं. 6920900एम अब जेसी-726900एन), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी लक्ष्मी नारायण मजुमदार (सं. 6920901पी अब जेसी-726901डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एस एच जी डी राधे श्याम सिंह (सं. 6917902एम अब जेसी-726902वाई), 22 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी शिवालक सिंह (सं. 6918033पी अब जेसी-726903एफ), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एस एच जी डी राम विलास दुबे (सं. 6918073डब्ल्यू अब जेसी-726904के), 02 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी दुली चन्द (सं. 6918046एम अब जेसी-726905एम), 14 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी राजेन्द्र कुमार (सं. 6918168डब्ल्यू अब जेसी-726906पी), 01 सितम्बर 2005

हवलदार ड्राईवर स्पेशल तेज बहादुर सिंह (सं. 6916877एम अब जेसी-726907एक्स), 12 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी कमलेश कुमार अकुर (सं. 6918213एक्स अब जेसी-726908ए), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एस एच टी बैकुन्ठ नाथ साहू (सं. 6918195ए अब जेसी-726909एच), 22 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राईवर स्पेशल रमेश मिश्रा (सं. 6918924एक्स अब जेसी-726910एक्स), 01 अगस्त 2005

हवलदार एस एच जी डी सदानन्द (सं. 6917011के अब जेसी-726911ए), 29 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल समिर कुमार मंडल (सं. 6924640के अब जेसी-726912एच), 22 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी चन्ना राम (सं. 6916471वाई अब जेसी-726913एल), 01 अगस्त 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बदन पाल सिंह (सं. 6918347डब्ल्यू अब जेसी-726914एन), 01 सितम्बर 2005

हवलदार कारपेन्टर और जे एन आर हरनाम सिंह (सं. 6918375एच अब जेसी-726915डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एस एच टी पारस नाथ सिंह यादव (सं. 6917951पी अब जेसी-726916वाई), 26 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राजेन्द्रन सी वी (सं. 6918535एक्स अब जेसी-726917एफ), 26 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सत्य पाल सिंह (सं. 6918000के अब जेसी-726918के), 09 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल मोहम्मद असफाक (सं. 6918111एफ अब जेसी-726919एम), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल प्रकाश चन्द (सं. 6918354एम अब जेसी-726920एफ), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल अशिश मजुमदार (सं. 6918545एफ अब जेसी-726921के), 28 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राजा मणि टी (सं. 6918554एच अब जेसी-726922एम), 01 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल विरेन्द्र सिंह (सं. 6918555एल अब जेसी-726923पी), 01 नवम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल मदन किशोर सिंह (सं. 6918557डब्ल्यू अब जेसी-726924एक्स), 01 नवम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल अनिल कुमार जैशवाल (सं. 6918563के अब जेसी-726925ए), 01 नवम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल रमेश कुमार (सं. 6918564एम अब जेसी-726926एच), 01 नवम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल तपश कुमार दत्ता (सं. 6918565पी अब जेसी-726927एल), 14 दिसम्बर 2005

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल हजारी प्रसाद यादव (सं. 6918568एच अब जेसी-726928एन), 05 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी शशिधर याकर (सं. 6917837एक्स अब जेसी-726929डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन मनोज कुमार तिवारी (सं. 6929742के अब जेसी-726930एल), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी रावल (सं. 6927661एल अब जेसी-726931एन), 07 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी डी शेकर (सं. 6920906एन अब जेसी-726932डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी गिरधारी सिंह एन (सं. 6920907डब्ल्यू अब जेसी-726933वाई), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन गजाधर (सं. 6928176एच अब जेसी-726934एफ), 03 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी/एम टी तेजवीर सिंह (सं. 6920909एफ अब जेसी-726935के), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार एस के टी/एम टी अयपूनि-ई सी (सं. 6920913के अब जेसी-726936एम), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार एस के टी/एम टी शेकर सिंह (सं. 6920929पी अब जेसी-726937पी), 01 नवम्बर 2005

हवलदार एस के टी/एम टी चन्द्रभान सिंह (सं. 6920914एम अब जेसी-726938एक्स), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार एस के टी/एम टी बाबू एस (सं. 6920920ए अब जेसी-726939ए), 14 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी/एम टी रामजी सिंह (सं. 6920938डब्ल्यू अब जेसी-726940पी), 06 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी/एम टी ओम प्रकाश (सं. 6920947एक्स अब जेसी-726941एक्स), 01 नवम्बर 2005

हवलदार एस के टी/एम टी गिरयालकर वसवा (सं. 6920905एल अब जेसी-726942ए), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार एस के टी/इन्जीनियर ईश्वर दास (सं. 6919679एम अब जेसी-726943एच), 19 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच टी आसिम कुमार घोष (सं. 6916231एफ अब जेसी-726944एल), 01 नवम्बर 2005

हवलदार एस एच टी जी एन पिल्ललाई (सं. 6918232एच अब जेसी-726945एन), 01 नवम्बर 2005

हवलदार एस एच टी हुरदा नन्द मलिक (सं. 6918273एम अब जेसी-726946डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005@

@जेसी-726947 धर्म गुरू (पंडित) के लिये प्रदान किया गया

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन विरेन्द्र सिंह (सं. 6929678एक्स अब जेसी-726948एफ), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन पंकज कुमार मिश्रा (सं. 6929801एल अब जेसी-726949के), 12 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल छेदी सिंह (सं. 6916431एक्स अब जेसी-726950वाई), 08 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल शमशेर सिंह (सं. 6918547एम अब जेसी-726951एफ), 23 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल आतिश दिपनकर एस (सं. 6918551पी अब जेसी-726952के), 01 नवम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल अब्राहम जोर्ज (सं. 6918553ए अब जेसी-726953एम), 04 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल धर्मवीर सिंह (सं. 6918656एन अब जेसी-726954पी), 01 नवम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल अनिल कुमार ए (सं. 6918559एफ अब जेसी-726955एक्स), 04 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल मोहन लाल (सं. 6918576एफ अब जेसी-726956ए), 07 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी पुस्कर चंद स्वैन (सं. 6918663पी अब जेसी-726957एच), 01 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल उदय सिंह (सं. 6927222ए अब जेसी-726958एल), 21 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी गिरीश चंद (सं. 6919216एक्स अब जेसी-726959एन), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार एस के टी एम टी कृष्ण पाल सिंह (सं. 6920930के अब जेसी-726960एच), 14 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी दया शंकर (सं. 6920841डब्ल्यू अब जेसी-726961एल), 01 नवम्बर 2005

हवलदार ड्राईवर एम टी वी ए तिलन्जी (सं. 6916321एच अब जेसी-726962एन), 14 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राईवर एम टी राम निवास (सं. 6919049एम अब जेसी-726963डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार एस एच टी विनोद कुमार यादव (सं. 6917947एम अब जेसी-726964वाई), 01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी भीकि राम (सं. 6916039एक्स अब जेसी-726965एफ), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार एस एच जी डी ज्ञान चंद (सं. 6917749एफ अब जेसी-726966के), 03 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी बलवन्त सिंह (सं. 6917770के अब जेसी-726967एम), 04 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी करन सिंह (सं. 6917967ए अब जेसी-726968पी), 01 सितम्बर 2005

हवलदार एस एच जी डी सुरेन्द्र कुमार तिवारी (सं. 6918034एक्स अब जेसी-726969एक्स), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार एस एच जी डी के देवरजु रेड्डी (सं. 6918048एक्स अब जेसी-726970एम), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार एस एच जी डी माधव बी टी (सं. 6918139एफ अब जेसी-726971पी), 01 नवम्बर 2005

हवलदार एस एच जी डी हरी राम अहिरवार (सं. 6918183एल अब जेसी-726972एक्स), 01 नवम्बर 2005

हवलदार एस एच जी डी मनोरंजन धाल (सं. 6918198एन अब जेसी-726973ए), 01 नवम्बर 2005

हवलदार एस एच जी डी रवीन्द्र कुमार (सं. 6918257पी अब जेसी-726974एच), 04 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी दामु राम सी बी (सं. 6918260पी अब जेसी-726975एल), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार एस एच जी डी देवा कुमार पी (सं. 6937390एम अब जेसी-726976एन), 01 जनवरी 2006@

@जेसी-726977डब्ल्यू धर्म गुरु (पंडित) के लिए प्रदान किया गया

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन महेन्द्र सिंह (सं. 6928155एम अब जेसी-726978वाई), 15 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन जोगिन्द्र सिंह (सं. 6928242ए अब जेसी-726979एफ), 07 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन एम के मलिक (सं. 6929695एक्स अब जेसी-726980डब्ल्यू), 13 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन वी पी सिंह (सं. 6929788एम अब जेसी-726981एल), 16 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बिनय कुमार (सं. 6918552एक्स अब जेसी-726982एफ), 01 नवम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल मोती राम (सं. 6918572एल अब जेसी-726983के), 08 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सी पी पाल (सं. 6918584ए अब जेसी-726984एम), 11 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल पी जी मंडल (सं. 6918588डब्ल्यू अब जेसी-726985पी), 13 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल एस ए खान (सं. 6918590एन अब जेसी-726986एक्स), 19 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल वी सजवाल (सं. 6918591डब्ल्यू अब जेसी-726987ए), 24 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल दयानन्द (सं. 6918592वाई अब जेसी-726988एच), 24 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल एम के श्रीवास्तव (सं. 6918602वाई अब जेसी-726989एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राम चन्द्र (सं. 6918512एफ अब जेसी-726990ए), 01 जनवरी 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल अजाद सिंह (सं. 6918613के अब जेसी-726991एच), 01 जनवरी 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन रघुमानि नायक (सं. 6918621एच अब जेसी-726992एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल विजय कुमार स्वैन (सं. 6918622एल अब जेसी-726993एन), 24 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल पी पी पुहन (सं. 6918624डब्ल्यू अब जेसी-726994डब्ल्यू), 14 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल एस के रूट (सं. 6918623एन अब जेसी-726995वाई), 01 जनवरी 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल विजयी राम (सं. 6918634ए अब जेसी-726996एफ), 01 जनवरी 2006

हवलदार क्लर्क जी डी ए गोविदा सामि (सं. 6918643एफ अब जेसी-726997के), 11 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल ए के यादव (सं. 6918648ए अब जेसी-726998एम), 04 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बी के तिवारी (सं. 6918635एच अब जेसी-726999पी), 01 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल आर ठाकुर (सं. 1075668एफ अब जेसी-727000डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क जी डी ए के जेना (सं. 6918671एन अब जेसी-727001वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन सुरेन्द्र सिंह (सं. 6918671एन अब जेसी-727002एफ), 20 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन श्री कृष्ण (सं. 6918681एक्स अब जेसी-727003के), 01 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क जी डी पितम सिंह (सं. 6918687वाई अब जेसी-727004एम), 15 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी जी एस कुरूप (सं. 6918725के अब जेसी-727005पी), 01 मार्च 2006

हवलदार क्लर्क जी डी एम के जोशी (सं. 6927437वाई अब जेसी-727006एक्स), 01 अगस्त 2005

हवलदार एस के टी एम टी बी के परीदा (सं. 6919644डब्ल्यू अब जेसी-727007ए), 28 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी इंजीनियर आर सी एस वर्मा (सं. 6919791वाई अब जेसी-727008एच), 01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी सिग्नल सी बी टी राव (सं. 6920382एक्स अब जेसी-727009एल), 08 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी पी पाटिल (सं. 6920925वाई अब जेसी-727010ए), 25 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी वी डी ब्रिजवासी (सं. 6920935एच अब जेसी-727011एच), 15 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी अशोक कुमार (सं. 6920948ए अब जेसी-727012एल), 08 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी जी शाही (सं. 6920962एम अब जेसी-727013एन), 01 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी आर के सिंह (सं. 6920965ए अब जेसी-727014डब्ल्यू), 20 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी आर के कुशवाहा (सं. 6920949एच अब जेसी-727015वाई), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी सुप्रिंव सिंह (सं. 6920997एच अब जेसी-727016एफ), 20 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी पी साहू (सं. 6921009के अब जेसी-727017के), 16 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राईवर स्पेशल पी के डोलई (सं. 6917227एल अब जेसी-727018एम), 11 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राईवर एम टी एच आर मोहन्ता (सं. 6919030एन अब जेसी-727019पी), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार ड्राईवर एम टी एस एस के हटेकर (सं. 6919037एक्स अब जेसी-727020के), 28 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राईवर एम टी प्रबासगी सामल (सं. 6919091एल अब जेसी-727021एम), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार ड्राईवर एम टी एस डी प्रसाद (सं. 6919101के अब जेसी-727022पी), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार ड्राईवर एम टी आर टी हलिमा (सं. 13886620वाई अब जेसी-727023एक्स), 01 नवम्बर 2005

हवलदार एस एच जी डी डू लू बोरा (सं. 6917980के अब जेसी-727024ए), 17 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी एम लोगन (सं. 6918030एफ अब जेसी-727025एच), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार एस एच जी डी राजेन्द्र मंडल (सं. 6918166एल अब जेसी-727026एल), 17 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी बक्सा राम (सं. 6918272के अब जेसी-727027एन), 01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार एस एच जी डी टी बी छत्रि (सं. 6918342एक्स अब जेसी-727028डब्ल्यू), 20 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी जोसफ देवसिया (सं. 6918417के अब जेसी-727029वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार ई आर (यूनिट) करूनाकरन पी वी (सं. 6920390डब्ल्यू अब जेसी-727030एन), 06 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल टी एच एस अजय पाल सिंह (सं. 6918579पी अब जेसी-727031डब्ल्यू), 01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल मोहन नायर (सं. 6918582पी अब जेसी-727032वाई), 27 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी अम्युनिशन बी एम स्वैन (सं. 6920952एच अब जेसी-727033एफ), 21 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन महादेव पान (सं. 6928164एन अब जेसी-727034के), 06 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन अल्लगोवन के (सं. 6928284एम अब जेसी-727035एम), 01 मार्च 2006

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन पी सी मोहन्ती (सं. 6929696ए अब जेसी-727036पी), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन ब्रज पाल (सं. 6928187पी अब जेसी-727037एक्स), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार एस एच टी रघुबीर सिंह (सं. 6917952एक्स अब जेसी-727038ए), 01 जनवरी 2006

हवलदार एस के टी अम्युनिशन एल पी पन्त (सं. 6921071डब्ल्यू अब जेसी-727039एच), 01 अप्रैल 2006

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन आर पी सिंह (सं. 6929622एल अब जेसी-727040एक्स), 01 अप्रैल 2006

हवलदार एस के टी एम टी कृष्ण लाल (सं. 6920961के अब जेसी-727041ए), 28 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी ललता प्रसाद (सं. 6920991एफ अब जेसी-727042एच), 01 जनवरी 2006

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी ए के सिंह (सं. 6921021एल अब जेसी-727043एल), 01 फरवरी 2006

हवलदार एस के टी एम टी के डी आर स्वामी (सं. 6921024वाई अब जेसी-727044एन), 14 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी अम्युनिशन शिव कुमार (सं. 6921054डब्ल्यू अब जेसी-727045डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार एस के टी अम्युनिशन हरेन्द्र बाबू (सं. 6921057के अब जेसी-727046वाई), 18 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी अम्युनिशन एस पान्डे (सं. 6921059पी अब जेसी-727047एफ), 01 अप्रैल 2006

हवलदार एस के टी जी एस एन्ड सी बी के सेनापती (सं. 6921007वाई अब जेसी-727048के), 21 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी अम्युनिशन पी ऊपाध्याय (सं. 6921079एच अब जेसी-727049एम), 01 अप्रैल 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन वी एस तालन (सं. 14483622एफ अब जेसी-727050एफ), 15 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन एस एस चौहान (सं. 6918580के अब जेसी-727051के), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जे एन यादव (सं. 6918583एक्स अब जेसी-727052एम), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार क्लर्क जी डी एम डी अकबर (सं. 6918645एम अब जेसी-727053पी), 01 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बिक्रम सिंह (सं. 6918586एल अब जेसी-727054एक्स), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन राजबीर सिंह (सं. 6918604एच अब जेसी-727055ए), 01 जनवरी 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल आर ए शर्मा (सं. 6918609एफ अब जेसी-727056एच), 01 जनवरी 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन आर आर पी यादव (सं. 6918706वाई अब जेसी-727057एल), 01 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क जी डी के एस कश्यप (सं. 6918716एच अब जेसी-727058एन), 01 मार्च 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन राम जी राम गोरे (सं. 6918720एल अब जेसी-727059डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी वी शिवप्रकाशम (सं. 6918723वाई अब जेसी-727060एल), 01 मार्च 2006

हवलदार क्लर्क जी डी बी विशवनाथान (सं. 6918732ए अब जेसी-727061एन), 01 मार्च 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन ईश्वर सिंह (सं. 6918752एन अब जेसी-727062डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन सुरेश कुमार (सं. 6918754वाई अब जेसी-727063वाई), 12 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी),

हवलदार क्लर्क जी डी वी के द्विवेदी (सं. 6918759एक्स अब जेसी-727064एफ), 01 मार्च 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन आर एस सिंह (सं. 6918760एम अब जेसी-727065के), 18 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन गोविन्द चन्द (सं. 6918763ए अब जेसी-727066एम), 20 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन जे पी यादव (सं. 6918765एल अब जेसी-727067पी), 27 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन लखबीर सिंह (सं. 6918769एफ अब जेसी-727068एक्स), 01 मार्च 2006

हवलदार क्लर्क जी डी राजेन्द्र कुमार (सं. 6918734एल अब जेसी-727069ए), 01 मार्च 2006

हवलदार क्लर्क जी डी पी के नाथ (सं. 6918751एल अब जेसी-727070पी), 20 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन आर बी पन्डित (सं. 6918761पी अब जेसी-727071एक्स), 25 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी आर एन यादव (सं. 6918822एफ अब जेसी-727072ए), 01 अप्रैल 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन मदन लाल (सं. 6918770डब्ल्यू अब जेसी-727073एच), 01 अप्रैल 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन देश राज (सं. 6918779एल अब जेसी-727074एल), 01 अप्रैल 2006

हवलदार क्लर्क जी डी प्रकाश चन्द (सं. 6918810एम अब जेसी-727075एन), 01 अप्रैल 2006

हवलदार क्लर्क जी डी पी के स्वैन (सं. 6918814एच अब जेसी-727076डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी आर के सिंह (सं. 6918830एच अब जेसी-727077एफ), 10 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी ओम प्रकाश शेवडा (सं. 6918857एक्स अब जेसी-727078एफ), 19 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी रनधीर सिंह (सं. 6918860एक्स अब जेसी-727079के), 01 अप्रैल 2006

हवलदार एस एच टी शिरीपाल सिंह (सं. 6918387एक्स अब जेसी-727080वाई), 13 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी एस निथयानन्द (सं. 6915922एफ अब जेसी-727081एफ), 10 अप्रैल 2006

हवलदार एस एच जी डी मोहन सिंह (सं. 6918387एक्स अब जेसी-727082के), 27 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी उमेश (सं. 6918422पी अब जेसी-727083एम), 01 फरवरी 2006

हवलदार टेलर (यूनिट) लायक सिन्धा (सं. 6918484पी अब जेसी-727084पी), 01 मार्च 2006

हवलदार टेलर (यूनिट) एच आर मिश्रा (सं. 6919382एल अब जेसी-727085एक्स), 01 अप्रैल 2006

हवलदार ई आर (यूनिट) भानू प्रताप (सं. 6920357वाई अब जेसी-727086ए), 06 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी अबदुल हनन (सं. 1567680डब्ल्यू अब जेसी-727087एच), 01 मई 2006

@जेसी-727088 एन्ड जेसी 727089 डब्ल्यू धर्म गुरूओ (पंडित) के लिये प्रदान किया गया

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन एस एस राठोड़ (सं. 6926264ए अब जेसी-727090एच), 01 जून 2006

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन राम फाल (सं. 6929645एम अब जेसी-727091एल), 10 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार अम्युनिशन तकनिशियन रामनिवास (सं. 6929660एफ अब जेसी-727092एन), 01 जून 2006

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल बिजू थोमस (सं. 6918562एफ अब जेसी-727093डब्ल्यू), 13 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल टी के घोष (सं. 6918570ए अब जेसी-727094वाई), 26 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन सहन्द्र कुमार (सं. 6918809एक्स अब जेसी-727095एफ), 16 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन ए. के. मोहन्ती (सं. 6918861ए अब जेसी-727096के), 01 अप्रैल 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन सरवेष्वर रूट (सं. 6918862एच अब जेसी-727097एम), 17 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन एम के महापात्रा (सं. 6918863एल अब जेसी-727098पी), 01 अप्रैल 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन जे पी पान्डे (सं. 6918864एन अब जेसी-727099एक्स), 01 अप्रैल 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन मोहन मरान्डी (सं. 6918866वाई अब जेसी-727100एफ), 01 जुलाई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी अमर सिंह (सं. 6918867एफ अब जेसी-727101के), 26 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी एम एस राठौर (सं. 6918869एम अब जेसी-727102एम), 01 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन पुस्पेन्द्र कुमार (सं. 6918870एफ अब जेसी-727103पी), 15 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जीडी सन्तोष कुमार सिंह (सं. 6918995एन अब जेसी-727104एक्स), 01 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन जयपाल (सं. 6918899के अब जेसी-727105ए), 01 मई 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन जी वी नारायण (सं. 6918902वाई अब जेसी-727106एच), 01 मई 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन शंकर पाटिल (सं. 6918903एफ अब जेसी-727107एल), 01 मई 2006

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन एन एस नदाफ (सं. 6918907एक्स अब जेसी-727108एन), 23 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन वीर पाल सिंह (सं. 6918909एच अब जेसी-727109डब्ल्यू), 01 मई 2006

हवलदार क्लर्क जी डी एस के राय (सं. 6918911ए अब जेसी-727110एल), 01 जून 2006

हवलदार क्लर्क जी डी एस पी सिंह (सं. 6918912एच अब जेसी-727111एन), 29 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी शिशूपाल सिंह (सं. 6918914एन अब जेसी-727112डब्ल्यू), 01 जून 2006

हवलदार क्लर्क जी डी नैनु सिंह (सं. 6918915डब्ल्यू अब जेसी-727113वाई), 01 जून 2006

हवलदार क्लर्क जी डी एस के चौधरी (सं. 6918918के अब जेसी-727114एफ), 09 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन दार दत्तातरे (सं. 6918916वाई अब जेसी-727115के), 01 जून 2006

हवलदार क्लर्क जी डी ओम प्रकाश (सं. 6918922एम अब जेसी-727116एम), 01 जून 2006

हवलदार क्लर्क जी डी बनवारी लाल (सं. 6918926एच अब जेसी-727117पी), 12 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जी डी डी सी सरावत (सं. 6918931एन अब जेसी-727118एक्स), 01 जून 2006

हवलदार क्लर्क जी डी ओम प्रकाश (सं. 6918984एम अब जेसी-727119ए), 01 अगस्त 2006

हवलदार एस के टी/जीएस एन्ड सी सी के दास (सं. 6920517एन अब जेसी-727120पी), 13 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी पी सी चक्रवर्ती (सं. 6920954एन अब जेसी-727121एक्स), 20 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी आर एस राठौर (सं. 6920943एफ अब जेसी-727122ए), 07 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी/अम्युनिशन राम सनेही सिंह (सं. 6921025एफ अब जेसी-727123एच), 01 मार्च 2006

हवलदार एस के टी/अम्युनिशन बी प्रसाद (सं. 6921030एम अब जेसी-727124एल), 25 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी/अम्युनिशन ए सी के सिंघा (सं. 6921080एम अब जेसी-727125एन), 09 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी/जी एस एन्ड सी सुरेश सिंह (सं. 6921044एम अब जेसी-727126डब्ल्यू), 16 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी/अम्युनिशन सुजित नाथ (सं. 6921081ए अब जेसी-727127वाई), 31 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी/अभ्युनिशन एफ जेड लसकर (सं. 6921084एन अब जेसी-727128एफ), 10 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी/एम टी डी एस बरबूनिया (सं. 6921090एफ अब जेसी-727129के), 24 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी सुमेर सिंह (सं. 6923662डब्ल्यू अब जेसी-727130वाई), 02 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी जगन नाथ (सं. 6917760ए अब जेसी-727131एफ), 01 जुलाई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी राजेश्वर ठाकुर (सं. 6917985एच अब जेसी-727132के), 01 जून 2006

हवलदार एस एच जी डी चन्द्र शेखर (सं. 6918441ए अब जेसी-727133एम), 01 मार्च 2006

हवलदार एस एच जी डी शीतला शरन (सं. 6918444एन अब जेसी-727134पी), 01 मार्च 2006

हवलदार एस एच जी डी भोपाल चन्द्र जी (सं. 6918455ए अब जेसी-727135एक्स), 23 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी गुलाब सिंह (सं. 6918449एम अब जेसी-727136ए), 05 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी पन्चानन सिंह (सं. 6918466एम अब जेसी-727137एच), 03 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी लक्ष्मन सिंह (सं. 6918469ए अब जेसी-727138एल), 12 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच जी डी जया राज एस (सं. 6918907ए अब जेसी-727139एन), 10 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार पेन्टर (यूनिट) हलदार सिंह (सं. 6917987एन अब जेसी-727140एच), 16 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार पेन्टर (यूनिट) एस नारसिंघा राव (सं. 6929883वाई अब जेसी-727141एल), 01 जून 2006

हवलदार ओ एल पी गोविन्द सिंह (सं. 6917936ए अब जेसी-727142एन), 08 जुलाई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार टेलर (यूनिट) गौतम हलदर (सं. 6919411पी अब जेसी-727143डब्ल्यू), 01 मई 2006

हवलदार ई आर (यूनिट) अजय कुमार (सं. 6921442एन अब जेसी-727144वाई), 01 जून 2006

हवलदार एस एच जी डी धर्म गुर्जर (सं. 6918192एम अब जेसी-727145वाई), 01 जून 2006

हवलदार क्लर्क जी डी बलवन्त सिंह (सं. 6918925ए अब जेसी-727146के), 01 जून 2006

हवलदार ड्राईवर एम टी एमडी ई कबीर विस्वास (सं. 6919469एम अब जेसी-727147एम), 01 जून 2006

हवलदार ड्राईवर एम टी योगेन्द्र सिंह (सं. 6919675डब्ल्यू अब जेसी-727148एम), 01 अगस्त 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

सेना आयुद्धकोर

सूबेदार संगीतकार

पक्के सूबेदार/संगीतकार डी डी पन्धरे (जेसी-298699एफ), 19 जुलाई 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर धर्म गुरु (पंडित)

पक्के सूबेदार मेजर/पंडित हरी शंकर द्विवेदी (जेसी-103776एन), 15 दिसम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार धर्म गुरु (पंडित)

पक्के सूबेदार/पंडित सीताराम (जेसी-722782एन), 01 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

पक्के सूबेदार (पंडित) जे एन मिश्रा (जेसी-723019एक्स), 17 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

पक्के सूबेदार (पंडित) राज कुमार मिश्रा (जेसी-723018पी), 01 अगस्त 2006

नियमित सेना

विशेष सूची

सेना आयुद्धकार

नायब सूबेदार धर्म गुरु (पंडित)

जे सी-एन ए वाई ए नायब सूबेदार धर्म गुरु (पंडित) ए के पान्डे (जेसी-726947वाई), 30 जुलाई 2005

जे सी-एन ए वाई ए नायब सूबेदार धर्म गुरु (पंडित) उमेश प्रसाद पान्डे (जेसी-726977डब्ल्यू), 16 जनवरी 2006

नन्द किशोर कश्मीरा
उप सचिव

सं. 618, दिनांक 21 नवम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल (समकक्ष) से ब्रिगेडियर (समकक्ष) के पद पर

वाई डी सिंह (एमआर-4088एम), 04 अगस्त 2006, वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03 मई 2005

ले. कर्नल (समकक्ष) से कर्नल (समकक्ष) के पद पर

यश पांडे (एमआर-3775डब्ल्यू), 05 अगस्त 2005, वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई 2004

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स. से. चि. से. (कार्मिक)

सं. 619, दिनांक 20 नवम्बर 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आई सी सं., नाम व आर्म

31846 डी के श्रीवास्तवा, आर्टी

40143 सतीश शर्मा, इन्ट

41581 अरविन्द यादव, मैक इन्फैन्ट्री

43692 सुशील राना, मैक इन्फैन्ट्री

45327 हरिन्दर सिंह, एसी

45421 विवेक माधव निकते, एएससी

45740 कोहार-वाल. कमल, इन्फैन्ट्री

46684 जितेन्द्र भाकर, एएससी

48341 शमशेर सिंह मेहर, एओसी

--16 दिसम्बर 2004

46963 एच वैद्यानाथन, इन्ट

--22 अक्टूबर 2005

48775 देविन्द्र सिंह दलाल, एएससी

--10 जून 2006

51545 राहुल राठी, एएससी

--19 दिसम्बर 2005

53088 अशवनी दत्त, ईएमई

53114 पेरुगु विनोद कुमार, सिग्नल्स

--14 जून 2005

54746 परवीन कुमार सिंह, इन्जीनियर

54770 गुप्ते महेश अमलकान्त, इन्फैन्ट्री

54818 सुदीप सिंह साही, इन्फैन्ट्री

--21 अप्रैल 2006

54743 मुकेश कुमार हुडा, इन्फैन्ट्री

54744 नरेश कुमार कनोत्रा, सिग्नल्स

54745 विनोद दहिया, ईएमई

54747 आनन्द पी एस, इन्फैन्ट्री

54748 नरेन्द्रा बहादुर, आर्टी

54749 मनवेन्द्रा सिंह, एसी

54750 रघुवेन्द्र कुमार यादव, एओसी

54752 सनील दामोदरन, इन्फैन्ट्री

54754 सुदेश रजोरा, मैक इन्फैन्ट्री

54755 जयारमन नम्बियार, आर्टी

54756 राम अवतार, ईएमई

54757 नवनीत पठानिया, इन्जीनियर

- 54758 नरेन्द्रा यादव, एएससी
 54759 लाने विवेक दिलीप, एडी आर्टी
 54760 धरमवीर सिंह यादव, इन्जीनियर
 54761 विजय पाल सिंह मलिक, जैक
 54762 प्रमोद कुमार बर्धवाल, एएससी
 54763 भारती कान्त शुक्ला, ईएमई
 54765 राकेश करवासरा, एसी
 54766 सन्दीप गोस्वामी, एएससी
 54767 ए आर हरीश, इन्फैन्ट्री
 54768 गौरव बग्गा, इन्फैन्ट्री
 54769 शैलेन्द्र शर्मा, एसी
 54771 सुनील, एओसी
 54773 अंशुमान, इन्फैन्ट्री
 54774 रति दुसाज, एओसी
 54775 पीयुष वर्मा, एडी आर्टी
 54776 पराशरे अनुरुद्धा अनन्त, इन्फैन्ट्री
 54777 नन्दा बल्लभ, इन्फैन्ट्री
 54778 चक्रधर साहू, एएससी
 54779 कुलदीप सिंह जाखर, एएससी
 54780 सुखदेव सिंह, एओसी
 54781 सुमीत राना, एसी
 54782 हरी प्रसाद अरोड़ा, आर्टी
 54783 विजय मूर्ति, एएससी
 54784 परीमी नागा किरन बाबू, एओसी
 54785 किशन सिंह, आर्टी
 54786 अशोक राना, इन्फैन्ट्री
 54787 अनुराग मेहरा, आर्टी
 54788 पार्था प्रवीन सेन, ईएमई
 54789 मनीष डी नालू, सिग्नल्स
 54791 आर सिवादास, एसी
 54792 नीरज शर्मा, इन्फैन्ट्री
 54794 शमशेर सिंह, इन्फैन्ट्री
 54795 मुकुल सत्या गुप्ता, एसी
 54796 मोहिन्दर सिंह यादव, एएससी
 54797 यदविन्दर सिंह मान, एसी
 54798 संजय मोथी, इन्फैन्ट्री
 54799 शत्रु मार्धन भारती, एडी आर्टी
 54800 जगमोहन सिंह, एएससी
 54801 विरेन्द्र सिंह रावत, आर्टी
 54803 सतेन्दु महाजन, इन्फैन्ट्री
 54804 सुबोध थपलियाल, एसी
 54805 अजीत सिंह, एओसी
 54806 टी एस मुरलीधरन, एओसी
 54807 प्रद्युमना सिंह बनफर, आर्टी
 54808 अरुण कुमार राय, एसी
 54809 मनजिन्दर सिंह गुराम, एसी
 54810 रेजेन्द्रा सिंह धनकर, एएससी
 54812 बोबी पी जी सिंह, एसी
 54813 धर्मेन्द्रा पाण्डे, इन्फैन्ट्री
 54814 सुभाष गदीगेपा घोदागेरी, आर्टी
 54815 कुलबीर सिंह, आर्टी
 54816 डी विजय भास्कर, एएससी
 54817 अरुण कुमार शर्मा, इन्जीनियर
 54819 विजय सुरेन्द्रा पाल, इन्जीनियर
 54820 अभिषेक निरावन, एएससी
 54821 प्रताप चन्द्रा नायक, एओसी
 54822 हरबंस सिंह, ईएमई
 54823 वसन्त सेठी श्रीनिवास, एओसी
 54825 आशिष मंगरुलकर, इन्जीनियर
 54826 बिजु पॉल, एएससी
 54827 अनिल यादव, इन्फैन्ट्री
 54830 सिधु जॉर्ज के, जैग
 54832 डेनियल वरघीस, इन्फैन्ट्री
 54833 अमिताभ बैनर्जी, एओसी
 54834 संजय धिवकारा, आर्टी
 54835 पी वी कुमार, इन्फैन्ट्री
 54836 प्रबीर कनुनो, आर्टी
 54838 नरेश कुमार बिश्नोई, एसी

54839 स्टेनली जेम्स, एओसी	53084 मातम मल्लिकार्जुना स्वामी, इंजी.	
54840 अनुप अवस्थी, एसी	53110 प्रदीप गैरोला, इंजी.	
54841 मनु मोहन, आर्टी	53111 दर्शन एस, इंजी.	
54842 सागर घूरबा राय, एसी	53112 नागेन्द्रा कुमार चतुर्वेदी, इंजी.	
54845 रत्नाकर त्रिवेदी, इन्फैन्ट्री		--14 जून 2005
54846 राजीव शर्मा, एसी	52270 सुदर्शन भट्टाचार्या, सिग्नल्स	--12 जून 2006
54847 आकाश सूद, इन्फैन्ट्री		शिव राम बैरवा उप-निदेशक एम एस 8-सी
54849 सुभेन्दु मित्रा, आर्टी		
54850 जोनी थॉमस, एएससी		
54851 देवेश बहुखण्डी, इन्फैन्ट्री		
54852 सर्बजीत सिंह, एओसी		
54853 यशवन्त सिंह, ईएमई		
54854 धीरेन्द्रा सिंह वर्मा, आर्टी		
54855 नीरज मोदी, एसी		
54856 एल बालासुब्रमणियन, एएससी		
54857 ए श्रीनिवास, इन्फैन्ट्री		
54858 राजेश मोहन शर्मा, एओसी		
54859 राजेश मालीवाल, एएससी		
54861 प्रवीन कुमार आहुजा, एएससी		
54863 ललित मोहन, इन्फैन्ट्री		
54864 महादेव सी, इन्ट		
		--21 अप्रैल 2006
46003 ओम प्रकाश पारसवान, इंजी.		
		--22 अप्रैल 2006
53864 चौधरी राहुल दनयानेश्वर, ईएमई		
53865 हुन्डेकर सबीर हुसैन इब्राहिम, ईएमई		
53866 सुहेल जैदी, सिग्नल्स		
53867 मुनीश भागी, इंजी.		
53869 परमजीत सिंह ज्योति, इंजी.		
53870 राजीव श्रीवास्तवा, इंजी.		
53871 राजेश शर्मा, सिग्नल्स		
53872 राजीव कौशिक, इंजी.		
53874 एस गणेश, ईएमई		
		--13 जून 2006
	वायु सेना	
	सं. 620, दिनांक 21 नवम्बर 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--	
	भारतीय वायु सेना	
	उड़ान शाखा	
	विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (यइम स्केल) के मूल रैंक में	
	पी सिंह (14694), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।	
	पी के राघवन (15862), एसिंह (15864), आर माता (15870), ए एस राव (15879), पी भुयान (15880), एस द्विवेदी (15885), आर सी सोनी (15893), जे एस पनेसर (15895) और सी के व्यास (15897)--	
	14 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।	
	प्रशासनिक शाखा	
	वी एस कोचक (15888), 14 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।	
	उड़ान शाखा	
	पी के अयर (16041), एस कौल (16046), एस के नायर (16066), आर दिक्षित (16073) और एस एस धोलिया (16091)--	
	15 जून 2006 से प्रभावी।	
	ए ई एम शाखा	
	आर पी सिंह (15649), 01 जुलाई 2005 से प्रभावी।	
	ए ई एम शाखा	
	के नटराजन (16170), आई पी शर्मा (16173) और एन शर्मा (16174)--06 जुलाई 2005 से प्रभावी।	
	ए ई एल शाखा	
	के नाथ (16156), ए के पाठक (16162), एस कपूर (16163) और ए के राय (16175)--06 जुलाई 2005 से प्रभावी।	
	एस पी आनंद (16323), 04 जनवरी 2006 से प्रभावी।	
	ए ई एल शाखा	
	के एस माथुर (16313) और टी संकरन (16316)--04 जनवरी 2006 से प्रभावी।	

ए ई एम शाखा

वी एस चेरी (16539) और जी टी एस राव (16543)--09 अगस्त 2006 से प्रभावी।

ए ई एल शाखा

एस भाटिया (16534) और के एस जगन्नाथ (16535)--09 अगस्त 2006 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

आर रंजन (14393), आर के वर्मा (14394) और के ठाकुर (14404)--01 जुलाई 2005 से प्रभावी।

एफ एन शाखा

जी बोस (15900), 14 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

एम पी सिंह (14741), 01 जुलाई 2005 से प्रभावी।

जी एस डैश (15344), 01 जुलाई 2005 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

ए कुमार (15905), ए के मैनी (15912), एस एन सिन्हा (15917), डी के तनवर (15918)--14 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

आर गणेश (16103), आर सिंघल (16105), एस के शर्मा (16106), एस वी पाई (16107), एस के दास (16108) और एन भारद्वाज (16110)--15 जून 2006 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

बी सी कर्क (16116), जे के चक्रवर्ती (16117), एस के सिन्हा (16118), ए एल हंगल (16121), पी के पंजा (16125) और एस के मिश्रा (16126)--15 जून 2006 से प्रभावी।

उड़ान शाखा

पी आर शुक्ला (15683), एन एस सुभलोक (15687), ए भकू (15689), एस के चक्रवर्ती (15707), के एस सांगरी (15712), वी गिगू (15720), एस वी विद्वांस (15722), एस सिंह (15724) और पी जैकव (15725)--15 जून 2005 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

आर नागराज (15741), जी सक्सेना (15744), के शुक्ला (15746), एच आर जानकीराम (15747) और एच लतिफ (15749)--15 जून 2005 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

जी के जौहरी (15757) और ए एस श्रीवास्तव (15760)--15 जून 2005 से प्रभावी।

लेखा शाखा

डी के बुधिराजा (15765) और पी ए एस जेम्स (15767)--15 जून 2005 से प्रभावी।

उड़ान शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के मूल रैंक में ए बी कोल्हे (27712), उड़ान, 20 दिसम्बर 2005 से।

विमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

जे जयकिश (22427), मनीष वैश (22436), दिनांक 04 अप्रैल 2005 से

मिस्त्री आर जे (22422), एम शर्मा (22358), एस राजेश (22357), एस जे बिनाय (22368), एस सी गोविन्दराजन (22364), पी के डे (22369), पी के डे (22362), आर सहा (22374), एन अनन्ता रंजन (22356), एस पी कंबलकर (22361), एम के प्रवीण (22373), आर एस नागराज (22371), एम के शर्मा (22365), ए चक्राधर्म (22375), वी एन एस भामित्तिपथी (22376), के आर वी कृष्णनन (22359), के ए थोमस (22370), एस के लालवानी (22360), जे एस शेड्टी (22372), एन मूनत (22367), दिनांक 04 अप्रैल 2005 से।

विमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

एस छाबड़ा (22391), एन एन शिरसागर (22408), एस एस सुद (22409), पी कुमार (22381), पी एस काले (22388), एस लक्ष्मीनरसिन्हा (22396), आर राजेश (22398), आर के यादव (22407), एस एस कुमार (22380), ए कुवाय (22417); एच सी दाताले (22411), एस वर्मा (22384), पी जी सेतिया (22420), एस एस के प्रसाद (22379), आर वर्मा (22404), एस चागा (22383), आर आर देशमुख (22394), जी अनन्त (22415), ए के झा (22021), ए सवाहने (22419), जे के एन बरडिया (22406), आर श्रीवास्तव (22389), मिन्हास जे एस (22426), आर जे अत्रेय (22399), लखपत सिंह (22425), एस एस मिश्रा (22385), एस मैथ्यू (22413), एस वाधवा (22421), पी के सुबहया (22392), एस गुप्तान (22395), एन आर रवि (22418), आर के गोपाराजू (22403), वाई के मोहन (22401), पी एम रियाज (22059), बी बी पिलैय (22393), डी सिंह (22400), बी सिंह (22397), सन्धु आर एस (22423), ए सिन्हा (22377); एस मिश्रा (22387), के एन वेंकटेश (22414), के वी सुरेश बाबु (22386), वी आर सन्तोष (22390) दिनांक 04 अप्रैल 2005 से।

विमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (Time Scale) में

एस के अग्रवाल (15967), जी के चौधरी (15966), दिनांक 05 जनवरी 2005 से।

पी भाटिया (13814), डी मागोन (14188), एच सी चौधरी (14354), ए पांडेय (14606), एस बी एम टीपानावार (15075), आर मल्होत्रा

(15484), एस एम कुलकर्णी (15483), एम एस राणा (15642), पी एन सलेवा नदान (15076), पी आर दीवान (15261), जे ए राजेन्द्रण (15641), एम एन खाति (15482), आर नटराजन (15469), एम आर सरकार (15639), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

विमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

एम मुरुगन (20228),

दिनांक 13 मार्च 2004 से।

के वाई जोजो (21119), बी एस भाटिया (19741), एच सिंह (18711), एच बासू (18542), ए चोपडा (18494), एस प्रसाद (18519), एम ए खान (18445), पी सी पांडेय (18528), बी सिंह (18711), आर कुमार (18442), जे मानाचैरी (18526), ओ पी सिंह (18514), सी आर वैदयानाथन (18530), डी श्रीराम (18458), पी वेणुगोपाल (18533), ए गोला (18538), एन के राजु (18505), आर राजु (18453), एम वी रेड्डी (18443), एम चक्रपाणी (18436), टी विवेक (18461), वी वी एस रेड्डी (18450), एम ए एस विष्णु (18502), एन चन्द्रशेखर (18500), आर मुरलीधर (18741), एम गर्ग (18755), डी रमेश कुमार (18733), के केमकर (18738), एस रस्तोगी (18728), आर एन रमेश (18735), एम वी एम प्रसाद (18737), पी के साहू (18759), पी एस एन राव (18731), एस ए खान (18740), ए रविन्द्रन (18734), ए अठल्ले (18778), टी एस चन्द्रशेखर (18766), ए कुमार (19071), जी एस शर्मा (19116), एम के श्रीवास्तव (19112), एम आई अलि (19087), ए जैन (19082), एम कुमार (19063), एस टंडन (19094), ए महानोलोविस (19111), बी एम त्यागी (19076), पी जी सलीकर (19117), आर दीवान (19102), ए श्रीवास्तव (19089), ए दुरेहा (19074), जी पी एस मंगत (19105), एस एम किनी (19098), ए एस खान (19106), एस कुमार (19070), ए शुक्ला (19069), एम के शर्मा (19085), डी सत्यपाल (19108), एम वेणुगोपालन (19084), डी एस गैहर (19103), एस कुमार (19080), आर रमेश (19088), ए के जैसवाल (19090), सी साहा (19091), एन सिंह (19096), बी बोस (19086), वी कुमार (19097), एल कुमार (19118), आर जनार्दनन (19064), पी एस वासुकी (19104), वी जी कार्निंक (19095), एन के गुप्ता (19093), ए आर कोले (19101), एस गिरीश (19100), एम भट्ट (19407), एस बोस (19408), आर एस चौहान (19590), वी मित्तल (19420), एम एस खान (19417), सी एस श्रीधरण (19411), एस गुप्ता (19414), पी के वत्स (19422) जी वर्गीस (19419), टी मोहन राज (19099), पी मुलागिरी (19416), डी एस पाई (19414), पी बी पवार (19418), आर संगल (19415), ए कुमार (19412), आर एस सिंह (19409), आर के एस जाडोल (19709), ए घोष (19715), वी राजाशेखर (19714), एच एस गडोक (19700), के आर एम वेणुगोपाल (19711), आर प्रह्लाद (19704), के जैन (19707), वी द्विवेदी (19697), एम तिरूमाली (19701), पी एम शिवदास (19694), वी खेर (19702), एस के अनुपिंडी (19727), वाई के सलुजा (19696), पी जी जैम्स (19721), वी सुनील (19706), ए वी राव (19695), बी

एन अरूण कुमार (19705), ए एस माने (19855), एस श्रीनिवास (20240), आर के खजांची (20238), एच जैसवाल (20236), के सुधीर (20235), के ए ए संजीव (20227), वी एस श्रीधर (20224), वाई उमेश (20233), वी माधुर (20239), आर पी दुबे (20237), एच के गौड (20371), ए भट्टाचार्य (20222), पी एस कन्नन (20369), एस कटारिया (20378), वी हरीश (20370), एस बी कुमार (20373), एस अग्रवाल (20231), ए आशिस (20229), एस एस शेरलकर (20379), वी के श्रीवास्तव (20364), वी एन भारंभे (20380), आई देवनाथ (20226), आर सी रस्तोगी (20381), हरिकुमार (20388), एस पी शिरोलकर (20372), ए श्रीवास्तव (20366), डी एस शेखावत (20230), आर के रामामूर्ती (20368), वी परमेश्वरण (20390), एल परेरा (20362), वाई चतुर्वेदी (20221), यू पी कुमार (20385), वी वर्मा (20384), एस बैजल (20668), जे सी एस पाई (20658), एस नन्दकुमार (20667), एच आर नाजाप्पा (20657), ए शर्मा (20665), के हरिशंकर (20661), आर के गणेश (20650), ए सक्सेना (20666), पी सिंह (20670), डी श्रीनिवासन (20663), एस तिवारी (20700), एस कपूर (20669), एम आर सुनील कुमार (20662), जे के एडवर्ड (20654), एस तिवारी (20671), ए सतीश (20651), एस चावला (20659), जी के नायर (20655), एम एफ एम कबीर (20664), पी सुरेश (20653), पी धीमान (20903), पी जोशी (20904), एस आर निबोरकर (20905), डी पिल्लई (20944), के धागत (20886), पी अरोडा (20885), वी वी एन राय (20883), वी आर एस राजू (21162), जी एम कुमार (21086), वी पी बोर्स (21084), एस ए के दास (21081), एन ए बाद्रीनाथ (21082), के ए राव (21175), ई आर सुरेन्द्रन (21080), एस वी चन्द्रा (21174), आर ए के विश्वनाथन (21124), एस ए निसार (21168), के एस सिंह (21394), ए वैध (21479), ए एल डी गुलानी (21397), एन वाई पटेल (21496), के एस संदीप (21481), एम एस नायडू (21393), के सुब्रह्मण्यम (21480), एस के दास (21396), एस इस्लाम (21493), एस वर्मा (21392), पी एस राजपाल (21395), ए वी एस देशमुख (21468), एम एस पुनदीर (21469), आर एस कुमार (21196), वी एस आर के रेड्डी (22011), एस सी दाथन (22014), ए काबडवल (22100), ए डी शर्मा (22017), डी पाटरो (22013), एम वी एम रेड्डी (22097), एस के सिंह (22096), ए के मुरलीधर (22016), टी चाको (22008), ए हरटीश (22015), जी आर नायर (22012), जी शीनु (22099), जे कृस्टोफर (22010), पी श्रीधरनन (22102), पी सीरीश (22007), डी दास (22009), डी आर चौधरी (22101),

दिनांक 16 दिसम्बर 04 से।

भारतीय वायुसेना

विमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

एस कुमार (25958), ए सिंह (26272), एस एम तनवीर (25945), वी पी सचदेव (25948), एस सिदार्थन (25944), एस कुमार (25947), आर देवन (25949), वाई एस मेहरा (25961), एस चौधरी (25953), ए बनर्जी (25937), के डी कोचर (25933), डी एस एन मूर्ती (25939), के मडगिल (25935), ए नयन (25942),

दिनांक 01 जनवरी 05 से।

वी कुमार (24357), ए महाजन (24363), डी घोस (24361), एस वी एच रेड्डी (24648), पी पी तरहलकर (24658), एम बीजॉय (24744), पी चावला (24427), पी वी वी राय (24838), पी संगीत (25465), पी कुमार (25750), आर वशिष्ठ (25755), एस डी हीरेशचंद्रा (25732), पी बहेरा (25727), वी दत्ता (25966), पी शर्मा (25943), एम आर सिंह (25957),

दिनांक 03 जनवरी 05 से।

आर सिंह (26271)

दिनांक 14 जनवरी 05 से।

पी आर मल्लिकार्जन (25252), डी शेट्टी (25253), वाई पी एस वीगनान (25254), एच अग्रवाल (25255) (मिसेज) ए वी जोशी (25257), ए मिश्रा (25273), सी एस ठाकुर (22273), बी प्रसाद (24466), बी वेगटेशन (24467), एस डी सिंह (25057), ए एल हरवते (23931), एस एस सुधी (23932), एस कुमार (24119), ए अरूणाचलेश्वर (24376), बी बालासुब्रहमण्यम (24375),

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवा.लीडर में

पी के नरेन्द्र (24366), वी श्रीवास्तव (24381), वी सिंह (24380), ए के गुडीबंदना (24382), ए के मल्लिक (24356), के एस कुलकर्णी (24365), आर कुमार (24729), जे कुमार (24362), जी बी थोट (24374), जी एल नागेन्द्र (24372), आर चक्रवर्ती (24378), वी शिवसुब्रहमण्यम (24730), आर के सिन्हा (24369), के के गर्ग (24358), पी कुमार (24360), वी किरण कुमार (24373), वी अरोडा (24368), ए फरीद (24364), वी पटेल (24440), वी जी नन्दकर्णी (24367), के श्रीधर (25058), वी महिन्द्राकर (24662), टी एस नरूला (24656), एस वी कुमार (24650), एस सिंह (24657), वी एस मथाववी (24653), एस खोखर (24660), ए गुप्ता (24652), एच साहू (24661), वी भाटिया (24655), वी जी थोमस (24647), के एन हुबय्या (24663), के ए राव (24355), एम पी अब्राहम (24649), एस सक्सेना (24651), एन शुक्ला (24852), आर सैनी (24761), एस बालाचन्द्र (24749), एम एस राजू (24773), सी पी गुप्ता (24764), एस एस पटनायक (24771), ए एम महाजन (24766), जी ई महेश (24772), ए मधुकरारो (24759), पी डबबलू देवरकर (24755), ए सिंह (24760), डी सिंह (24756), एम वाई जोशी (24754), वी वी देशपांडे (24854), ए के नायर (24770), जे फसवान (24777), वी आर सी एस रेड्डी (24863), जे एस सेहान (24739), एस एस सिद्धू (24748), यू एस साम्याल (24751), एस सर्वेसेट्टी (24752), एस एस देसाई (24742), एच सिंह (24762), पी पी बोरगोहेन (24758), डी वी जी रेड्डी (24865), एम कुमार (24741), एफ बी आई अंसारी (24763), ए ताकीर (24765), गुरूराजनारायण सांगा (24747), वी एन महेंद्रकर (24750), एस इलयाराजा (24746), डी कुमार (24767), वाई सर्वणकर (24743), एस सुनील (24774), आर तंगेला (24864), एस बी रंडाड (24757), आर चन्द्रा (24436), एम ए खान (24659), सी चक्रवर्ती (24856), पी के सिंह परसराम (24776), वाई के शर्मा (24745), के एस बक्शी (25230), ए राठौर (25232), एस बालमुरगन (25233), ए जेना (25593), एम के बालासुब्रहमण्यम (24740), एम एम अनील कुमार

(25235), एस कुमार (25236), ए शैकिया (25231), वी सिंह (25234), ए के डे (25238), ए कुमार (25239), डी शर्मा (25237), जी राव (25229), बी डे (24839), ए प्रभाकरण (24840), के एन रमेश (24853), वी सत्येन (24855), ए फैयाज (24858), जी एस सेनी (25467), बी सैथिलवेल (25449), वी पनवर (25441), जी कुमार (25455), पी राधाकृष्णन (25431), सी बी हरिकृष्णन (25435), एम अग्निहोत्री (25424), पी टी नायर (25448), जी के श्रीकांत (25472), पी आर पोति (25438), एन जे एस बाजवा (25456), एच के मिश्रा (25443), आर के सिंह (25434), बी कुलरमथ (25462), पी वर्मा (25466), ए कुंडु (25461), बी पी मिश्रा (25437), आर एस राणा (25460), ए टंडन (25469), डी भार्गव (25471), आर आर देशपांडे (25470), एन सी सिंह (25450), ए ए प्रयागी (25425), डी आर सिंह (25451), एस के सेनी (25459), एम पी बालाचन्द्र (25444), ए बनिक (25454), वी एन रेड्डी (25468), एन एम एस बिष्ट (25447), एन जे रेड्डी (25445), यू एस जामगावनोकर (25433), बी शर्मा (25432), एस सी घोरपेडे (25440), ए के सिन्हा (25446), डी के सिंह (25463), ए कुमार (25442), ए दुलार (25452), बी चौधरी (25430), एम महाराजन (25426), वी एस चौहान (25423), बी के विलास (25453), डी के दीक्षित (25458), एम अग्रवाल (25757), पी के मित्तल (26077), ए बजानी (25738), आर पी शर्मा (25751), ए सिंह (25736), बी बी पाटिल (25735), एम एस स्वामीनाथन (25733), एम के शर्मा (25758), वी चोपडा (25748), टी एस पुरी (25760), एम शास्त्री (25743), एम आर बैलाखनवार (25726), जी एस घुमन (25761), आर गुप्ता (25742), एस कुमार (25754), के ए कोकाते (25759), पी अशोक कुमार (25729), एस शोहल (25749), बी एम शिवानन्द (25737), एस श्रीवास्तव (25746), ए के शर्मा (25744), वी भारद्वाज (25752), पी कुमार (25730), आर पारेख (25723), एम जे रेड्डी (25734), ए गर्ग (25731), ए के सिंह (25728), ए के अलामन (25740), वी के शर्मा (25724), जी नरजरि (25739), एच सिंह (25745), एस शेखर (25753), एस ए आर अन्थोनि (25950),

दिनांक 16 दिसम्बर 04 से।

जी ए कुमार (25428),

दिनांक 19 दिसम्बर 04 से।

एस शर्मा (25436),

दिनांक 28 दिसम्बर 04 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवा.लीडर में

जी पी सिंह (27311), एम शर्मा (27313), एम कार्तिकेयेन (27318), एस वी एस कुमार (27321), जे रविन्द्रा (27329),

दिनांक 06 जनवरी 05 से।

आर अग्रवाल (27327),

दिनांक 07 जनवरी 05 से।

सी सी अनन्तराज (27325),

दिनांक 15 मार्च 05 से।

ए ए नैयर (26390), ए दास गुप्ता (26391), वी वी गुप्ता (26392), टी सी साह (26393), वी एस विर्दी (26653), जी के पकोडे (26654), एस सजित (26655), (मिस) प्रति सिंह (26662), (मिस) मंगला सोलंकी (26663), डब्ल्यू बी ए पतन (26880), आर एस बडे (26881), के के झा (26882), एच एच दवे (26883), आर जयचन्द्रन (26884), ए मंधार (26886), टी डब्ल्यू डी' मेलो (27158), डी जी डी' सुजा (27159), जे एन्ड्रूज (27161), पी अनील कुमार (27162), (मिस) एम सुजाता (27166), ए ओझा (27190), एस एस हरिमथ (26412), जी कॅंग (26800), पी पाठक (26801), डी पंत (26803), पी के झा (26804), यू जगदीश (26805), आर एस गोरती (26806), डी आर कुमार (26808), एच एल गौतम (26809), बी जनार्दन (26810), के एल राव (26811), वी चौहान (26812), ए गांधी (26814), ई एस सुन्दर (26815), एस शर्मा (26816), एस जोशी (26817), एस एस फुडर (26818), टी के एस बाबू (26819), एस एस दनकर (26820), डी कुमार (26821), एम पी शशी कुमार (26823), वी कुमार (26824), आर के सिंह (26825), बी एम शम्भू (26826), वी सैनी (26827), आर के सिंह (26828), एन के अग्रवाल (26829), आर एन प्रसाद (26830), ए अरोड़ा (26831), एस के गडे (26832), जी आर कुमार (26833), के जी एस स्वामी (26834), डी जैन (26836), आर सोन्स (26837), एस एन संजीव (26876), एम एल एम सुरेश कुमार (26802), के एस श्रीधरन (26813), एस पी दीपु (26835), एस कुमार (26838), एस एच सूरी (27110), बी सिंह (27111), ए चौधरी (27112), जे जोश (27113), के के चमाती (27114), एच रमेश (27115), ए के सिंह (27116), पी प्रकाश (27118), एम नायक (27119), के त्रिवेदी (27120), के एम राव (27434), एस आर पालिवाल (27310), पी कुमार (27314), ए पी कुमार (27315), शशीधर (27319), पी एन धोनी (27320), पी आर बडिगर (27323), पी राजकुमार (27324), पी पी नायर (27326), पी रामनाथ हसन (27328), डी यादव (27331), टी एम किरणकुमार (27332), एम यादव (27333), ए बंसल (27419), के जे अमरनाथ (27425), एम मुरलीधरन (27429), पी प्रभाकरण (27430), एस एस रथ (27571), एन पी माधव (27575), बी आर जे कुमार (27576), पी वाजपेयी (27580), एन एस हर्षा (27582), ए बी सकाले (27584),

दिनांक 16 दिसम्बर 04 से।

डी कृष्णाणी (27117),

दिनांक 17 दिसम्बर 04 से।

फ्लाइटिंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

एन कुमार (27298), बी आर दाबी (27299), एस शिवादासन (27424),

दिनांक 17 जनवरी 05 से।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर में

ए चक्रवर्ती (25938), जे जे महैसकर (26215), अमित गुप्ता (26221), शिलादित्या सेन (26229), एल के खुल्बे (26231), आर एन भट्ट (26216), दीपक भट्ट (26223), बी रवि कुमार (26220), संजीव चेरिडन (26222), नवीन भट्ट (26219), स्वपनिल नागराज

(26225), अजनीश त्यागी (26214), अजय कुमार श्रीवास्तव (26218), हरे कृष्ण (26226), प्रतीक शर्मा (26230), समीर गुप्ता (26213), सुमित कुमार (26228), निखिल जैन (26217), आर के प्रशान्त (26227),

दिनांक 09 जुलाई 2005 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर में

कपिल राव तंतला (26008), नवनीत सिंह (26233), राघवेंद्र नारायण सिंहा (26234), संजीव गुप्ता (26242), मनीष चौधरी (26244), दलीप सिंह गिल (26235), आर एस विनय राज (26246), आर साम्ब्याल (26237), शम्भु दयाल (26236), पवन सेंगर (26239), प्रवीण कुमार (26241), नितिन चतुर्वेदी (26245), एस श्रीजित (26232), सिंह उमेश (26243), अजय कुमार (26238), रविन्द्र सिंह (26240),

दिनांक 09 जुलाई 05 से।

(श्रीमति) सुनीति मिश्रा (25803), (श्रीमति) डौली देवगण (25808), (मिस) अभा मेंदीरत्ता (25804), (मिस) परमजित कौर (25809), (श्रीमति) कौशल सोनी (25810),

दिनांक 26 जुलाई 05 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर में

के पी जय कुमार (25790), ए एस पटवारी (25792),

दिनांक 26 जुलाई 05 से।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर में

पूंदिर वी (25797), पुरोहित वी के (25799),

दिनांक 26 जुलाई 05 से।

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (Time Scale) में

वी एस गांधी (15963), एस टंडन (15964), ए डी नारायण (15960), डी डी राय (15962), 05 जनवरी 2005 से।

आई के अग्रवाल (14172), एन एस रंधवा (14179), आर वी जवालिकर (14342), के कै वैश्य (14601), एस प्रकाश (15112), वी ए कालियप्पन (15300), जे बी सिम्हा (15625), जी प्रसाद (15614), के के डे (15624), एस बी सिंह (13709), ओ पी पांडेय (14149), सी एम सेथ (14181), आर एस शास्त्री (15078), एस के भारती (14597), सी के बंधोपध्याय (14579), बी आर जैन (14618), जी वी जोशी (15110), एम एम भाटिया (15269), ए सरासवत (15279), पी के कौल (15278), पी के सिंह (15275), एस आर एस शर्मा (15297), के एस चड्ढा (15271), बी एन गणेश (15296), डी के सन्याल (15623), एन के सिंह (15618), डी जी लेड (15655), यू सी प्रसाद (15607), एस के तिवारी (15630), एस चन्द्रा (15628), एस एस अग्रवाल (15838), के चौरे (15826), आर नारायण (15828), बी जी आर देवधर (15813),

पी नारायणन (15633), एस राय चौधरी (15829), जी प्रसाद (15824), टी आर जयदेवन (14598),

--16 दिसम्बर 2005 से।

एन इलंगो (21786), डी एस शेखावत (21791), टी जी बाशी (19286), बी एस चहर (19758), एस सिंह (22075), जय गणेश (22095), एन वी के प्रजापे (22094), एम सिंह (22090), राम लाल (19781), डी सिंह (19784), जी आर चुंबर (20535), पी के दास (20536), टी वी शिवदास (20539), एम प्रसाद (20541), एस पी शुक्ला (20548), एम सिंह (20549), एस डी सिंह (20552), ए सिंह (20553), पी वी आर राव (20555), आर सी शर्मा (20558), जे एस राणा (21050), जे आर गुप्ता (21051), के पी ठाकुर (21052), के सिंह (21053), जे जेना (21057), आर सी प्रसाद (18685), एस रामकृष्णन (18466), ओ पी सेंवाल (18468), सी श्री कुमार (18464), बी एस नैयर (18470), सी एस पी गुप्ता (18508), पी एस राठौर (18506), जेड रहमान (18509), एस एल एस प्रसाद (18667), आर के मिश्रा (18743), ए वी देवरे (19022), एस टी थोमस (19053), एस अभिजित (19018), एस बहुजा (19053), डी श्रीवास्तव (19042), ए के खादियन (19581), एच एस डिल्लॉन (19025), जे एन वाणि (19046), आर के मिश्रा (19016), डी के शर्मा (19031), ए के जयाराजन (19043), एस वी गांधी (19114), एम राजशेखर (19045), पी चौधरी (19048), वी राजशेखर (19052), यू चावला (19023), आर मित्तल (19109), टी एस चन्दर (19035), डी एन राय चौधरी (19024), पी जी कुरुविला (19033), वी एम अकरे (19041), बी मैथ्यू (19056), एम ए बाडे (19020), आई चौधरी (19119), बी सिंह (19044), पी वानखरे (19032), ए माथुर (19055), बी श्रीकृष्णन (19061), पी के सिंह (19051), ए के दूबे (19036), एस मोडगिल (19017), आर एल नारायणन (19038), डी मधुसुदन (19030), ए के सिन्हा (19049), एस सरकार (19054), ए सिंघल (19028), पी सिंह (19027), के मखानिया (19057), एन के पटेल (19059), जे एस पाटिल (19121), जी आर अवस्थि (19125), बी सिंह (19433), एस के प्रभाकर (19432), एच के श्रीवास्तव (19591), के एस एस बैस (19428), आर के गुप्ता (19430), घन श्याम (19593), जे ए एस एशियन कुमार (19592), ए डी सैनी (19425), ए के गुप्ता (19431), ए एल त्रिहान (19426), एन बी आर रघु (19429), आर महापात्रो (19424), मैथ्यू जॉन (19576), के एमिथम्बी (19039), एस एस शिहान (19450), एस मन्ना (19719), एस दरगर (19638), एन नैनवाल (19671), डी चक्रवर्ती (19644), एन एस बिन्दा (19632), ए कुमार (19640), एम गुप्ता (19675), एस सी एम नाराहारी (19639), पी शर्मा (19681), टी बी गुप्ता (19634), आर के श्रीवास्तव (19636), एस एस डे (19730), ए के लोहानी (20181), यू कुमार (19729), एम पी वर्मा (19647), एस ई बिनुर (19676), जे ई ई आनन्द (19726), ए देवनाथ (19657), जी कृष्णाकुमार (19686), एन के पारही (19678),

स्वर्ण लीडर की मूल विंग कमाण्डर के रैंक में

वी थोमस (19674), ई विश्वनाथन (19654), आई टी बाबू (19664), पी टी के श्रीकुमार (19722), वी वी कुलश्रेष्ठ (19717), एस गुरूरतिया (19648), एस ओहरी (19731), ए चावला (19650), पी

नागपाल (19652), ए गर्ग (19653), एस पी भन्डारे (19668), बी एस बी पांडेय (19649), एस एम स्वामी (19679), जी सिंह (19666), पी एम राव (19645), एस बग्गा (19627), ए सुबेदार (19670), एम मिश्रा (19651), जे आर केलकर (19691), ए के शर्मा (19673), डी एस साजवान (19659), जी एस अतवाल (19646), के राधाकृष्ण (19643), एच डी नासरे (19630), पी एस सेठी (19724), बी सिंह (19635), एम वी अतला (19718), एस डी त्यागी (19661), ओ पी सिंह (19720), एम एम अन्थोनी (19693), के ए संतोष कुमार (19660), ए एस केलकर (19633), आर डी शर्मा (19665), डी एस राव (19733), एच के दास (19656), आर प्रसाद (19687), एस सरस्वती (19628), एस शर्मा (19655), एस ए चिस्ती (19728), जे एन्यनी (19677), एस के गिलानी (19684), एम संत (19658), एच लोकरास (19669), आर रेक्स (19716), जे मथुराम (19690), पी एस लाबाना (19685), सी एन पॉल (19667), वी विज (19804), जी बी आर दातु (19812), आर अरोड (19824), एम आर आर कुमार (19827), एस वैध (19837), आर आर विश्वनाथन (20563), सी बी चिलानी (20052), सी पी नाराहारी (20043), जी एस एस विदी (20047), वी ए पाठकी (20033), जी आर नायर (20050), एस शिवकुमार (20051), टी राय (20038), ओ के एस सुन्दर (20048), वाई श्रीनिवास (20035), एस घोस (20034), डी जी रेड्डी (20040), पी वी अनुब (20046), एस बी पाटिल (20044), एस के शुक्ला (20031), ए सोनी (20041), एस मित्तल (20032), एम के प्रसाद (20045), पी के दोबले (20036), वी जी पाई (20049), श्रीकृष्णन (20564), के वी नारायण (19996), एस जी लखोटी (19995), आर शर्मा (20001), जी एस विश्वेस्ता (19998), आर कुमार (20004), एच आर रघुनाथ (20009), एम के श्रीवास्तव (20002), बी एस अरविन्द (19999), ए शर्मा (20029), एल वी एस सुधामसा (20000), के टी एन राव (20022), बी के बस्तिया (20007), डी सिंह (20255), ए जी वात्रे (20811), टी ओ रमेश कुमार (20265), एस सक्सेना (20279), जी डी श्रीवास्तव (20280), वी के पांडेय (20289), एस के सत्यपति (20387), एम आर केने (20272), एच सिंह (20303), डी श्रीनिवास राव (20277), आर संजय (20295), के वी के आनन्द (20298), एस सुन्दरराजन (20305), पी पी मिश्रा (20264), एस सी एस रैयर (20306), एच जे सिंह (20253), डी विस्वास (20245), ए प्रसाद (20297), ए के दत्ता (20257), ए के सिंह (20268), आर आर येडरी (20392), बी एस राज (20261), ए वर्मा (20292), ए बेलापुरकर (20296), वी पी महाजन (20310), आर भान (20256), एस एच किंजले (20241), पी एस गंगोउपाध्याय (20284), एम सम्यूल (20258), एम आर हरिशकुमार (20248), बी सिंह (20300), पी वी के सुशील कुमार (20275), पी के सेन (20243), एस के बोस (20391), के मंगेश (20344), पी संदीप (20375), एस सुन्दर (20312), ए दरवारी (20288), सी आर श्रीजी (20286), के एस प्रसाद (20247), ए के सील (20270), आर शर्मा (20281), जी डी मटे (20261), वी सिंह (20299), एम एम झावर (20376), वी काटी (20302), आर गुरूहरि (20269), आर सिंह (20367), आर आरूर (20285), जे सिंह (20263), आर तिवारी (20242), सी के सेतुनाथ (20273), एम के पानी (20249), वी एस बलोरिया (20287), वी वी जगनाथ राव (20271), सी नागनाथन (20309), एस विजह (20301), ए तिवारी (20252), ए गौतम (20308), डी नस्कर (20250), एच चन्द्रशेखर (20254), एन एस दनजल (20262), पी

आर एल प्रकाश (20307), एच एस चौमा (20361), टी शक्तिबालन (20316), वी गौड (20350), यू कुमार (20332), बी के पांडा (20349), ए कुमार (20323), ए जैन (20321), जी के रोथ (20314), आर के चौबे (20346), के एन संतोष (20674), एस मेहता (20693), वी एम पेरिसेथी (20684), एन के नायर (20680), जे बी सिंह (21079), एस जार्ज (20686), एन के चौधरी (20678), एन गोविन्दाराजन (20681), एस के दास (20688), जे पी शर्मा (20679), एम के गर्ग (20682), वी अग्रवाल (20673), पी कुमार (20721), पी ए पाटिल (20685), टी डेय (20690), ए सचदेवा (20691), एस रामनाथन (21078), बी के चौरसिया (20692), के एस गोपालकृष्णा (21077), आर भारद्वाज (20689), एस पांडेय (20697), ए सिंह (20698), आर गोपालकृष्णन (20675), ए अग्रवाल (20705), जी. एस. मूर्ति (20707), एस एस राणा (20704), एस पी वैदया (20708), एस एस मेदुरी (20702), वी शर्मा (20711), एन कार्तिकेयन (20847), एच बहल (20863), सी पी शर्मा (21383), आर के शर्मा (20830), ए सरकार (20827), एस एस रहेल (20862), आर श्रीधर (20831), ए बत्रा (20842), पी मल्होत्रा (20860), अतुल आनन्द (20836), आर आर एस रियात (20820), एस सक्सेना (20881), वी वी केलकर (20841), एस राव (20865), एल टी जे अन्देनी (20852), एस मलिक (20875), वी वी मनोज कुमार (20858), एस बाला सुन्नमनियम (20877), एस एम कालोडे (20968), वी शिनोय (20868), वाई एस के अद्वितय (20876), व्यमबी राजा (20835), बी अजीत कुमार (20828), एस एस कुलकर्णी (20942), डी एस अर्जुन (20873), एस वी राव (20843), वी डी जोशी (20840), ए सुद (20818), ए जे रेबोलो (20833), एस राम मोहन (20878), एस डी पेनूरकर (20882), आर ननदुरी (20879), ए सिंह (20851), एस सुरी (20849), आर ए पाटिल (20853), एस जोहन (20866), वी जी मेनन (20867), एस वी पाटिल (20872), सी आर रेड्डी (20844), ए व्यास (20880), एच वी एस नारायण राव (20874), ए डी नानेदेडकर (20864), एम एस खान (20870), डी पी ईमानुअल (20834), एन एस रेड्डी (20823), एस भाटिया (20822), ए मैथ्यु (20832), यू डी सिंह (20850), जे यू सेठी (20856), पी कुमार (20941), आर के मोंगिया (20848), एस के जोशी (20821), जी एस अलावालकर (20839), आर के मुकुन्दन (20859), पी एस नेगी (20855), आर डोगरा (20910), डी. अधिकारी (20934), एस सिवान (20926), एम शर्मा (20929), जी एस राव (20916), एस मेहरोत्रा (21110), ए सिंह (20837), एस डी पाटिल (21116), पी आर पटेल (21103), पी के चतुर्वेदी (21105), पी एस सैनी (21106), एस चटर्जी (21115), सी एस चावला (21192), आर मखिजा (21098), एम के सिंह (21732), पी ए पाठक (21102), एस आर टपसहेट्टी (21198), पी जी महन्त (21109), ए अग्रवाल (21111), एफ एफ नबी (21113), बी पाल (21114), ए सिन्धु (21107), के सतीश (21089), ए गोड़ (21104), पी श्रीकुमार (21152), जी बर्थन (20917), एस सुरेश (21149), एस एम बहुगुणा (21183), के आर पेरूमल (21158), पी के सिंह (21659), बी एस रन्धावा (21164), सी ग्लासटोन (21151), ए वी रेड्डी (21167), वी पी एस बाबू (21160), आर के बिराला (21161), एस रमेश (21422), यू सी शर्मा (21407), ए पी सर्राफ (21427), पी के आनन्द (21411), सी एस हरि (21406), ए जे रबेलो (21442), आर कार (21445), आर कटोच (21413), एस शुक्ला (21424), ए सोनी (21404), एल टी गांधी (21402), जी यू एम

राव (21444), एच सिंह (21412), आर सेठ (21400), एम कुरियान (21436), डी के मुनदाडे (21432), डी एस सचिन (21408), एस नसियार (21417), एस कुमार (21426), एन मित्तल (21431), एच एस बसरा (21419), आर सी सरियान (21414), ए के शैफी (21418), पी के विन्सन (21448), एस कौल (21443), वी कुकरेती (21430), बी एन सिंह (21429), के वी गिरिश (21447), सी वी एन सत्यनारायण (21438), आर गुब्बा (21437), एस पुनोसे (21398), एन एस एस रमेश (21440), टी एस परूति (21434), वाई के बजाज (21441), एम एस राव (21492), पी जैन (21428), पी कुमार (21399), एन रोहित (21410), आई मैयत्रा (21423), पी एस बालाजी (21415), आर अशोक (21403), टी एम मुर्ति (21452), एम सी हरिदास (21450), वी लोहिया (21433), जे एस पटियाल (21455), आर सी हिरेमठ (21486), ए के गुप्ता (21485), आर कुमार (21734), एच गोपाल (21739), एस भारद्वाज (21753), पी अग्रवाल (21760), दुकमन (21737), एच एन कुमार (21745), ए बहल (21757), ए के श्रीवास्तव (21758), आर ए रंजनराम (21755), जे एस बेदी (21746), पी एन शर्मा (21736), ए वी काले (21750), आई बनर्जी (21759), एस के पिल्लैय (21735), आर एस उन्निकृष्णन (21764), एस कुमार (21767), आर के मेनन (21756), एम जिंजरान (21747), आर एम झा (21766), जी पोनमुरुगन (21743), एस के यादव (21754), वी के गुप्ता (21763), वी एम रेड्डी (21765), पी मोहनदास (21744), जी एस बरमी (21740), एस दूबे (21761), पी सैडु (21742), आर श्रीकृष्णन (21749), पी वेनुगोपाल (21738), डी आर मिश्रा (21741), ए डी शाहने (21748), एन के थिम्मया (21802), ए ठाकुर (22044), एम वी खरे (22049), पी सुरेश (22034), आर मुगेश (22027), वी भारद्वाज (22022), एस जी गट्टू (22063), एस के सिंह (22066), ए कोहली (22051), आर गुप्ता (22050), एस अरोड़ (22033), एम वैकटचलम (22062), पी मधुसुधनन (22042), के एस अमनामन्वी (22053), आर वर्धराजन (22061), एम देवरी (22046), एम राजगोपाल (22039), एल पी प्रसाद (22035), जे के बरूई (22060), ए ए शुक्ला (22065), ए एस धाम (22048), एस वी पटेल (22043), डी एस बैरैच (22052), के डी गोयल (22037), पी जे थोमस (22026), वी वर्मा (22056), वी सूद (22023), जे एस दत्तात्रय (22028), एस एम चौधरी (22024), ए जी भावसार (22047), एस राजेन्द्रन (22040), एस एन जानी (22032), एस के मारोली (22030), एल पी जोशी (22018), ए के दीक्षित (22265), यू एम डी मेंदी (22025), पी नारेन्द्रा (20913), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

एस के श्रीवास्तव (19128), दिनांक 21 दिसम्बर 2004 से।

ए कुमार (19662), दिनांक 21 मार्च 2005 से।

विमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

प्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाइन लीडर के रैंक में

जी आर्मस्ट्रॉंग (26273), सी मोहन (26274), एन आर सिंह (25968), वी गणेशन (26275), आर के पाल (25990), डी सिंह (25984), आर शर्मा (25969), एम सी जोशी (25979), एच एस चौहान (25994), सी एस हीरेमठ (25992), एल जे अजिथ (26002), एस सुधाकरन (25973), एस कुमार (26000), वी एम कुमार (25971), एस एस पड्डा (25989), एस हरिकृष्णन (25967), वी एम कुमार (26005),

वाई एल खान (25995), दिनांक 01 जनवरी 2005 से।

ए एम धामने (24731), आर के सिंह (24391), ए बसक (24416), आर गोपालकृष्णन (24421), आर विजय (24393), आर गौतम (24671), एम के शर्मा (24675), एस मोहंती (24816), एम के ए शाकिर (24785), एस आर ए के कुमार (24820), ए सी देशपांडे (24795), आर कुमार (24827), डब्ल्यू एस रामलिंग (24788), एस एस बालसंग (24790), के एस चारी (24786), पी गर्ग (25250), एन श्रीवास्तव (25247), बी एन लूते (25816), एन के वर्मा (25511), एच एस दलाल (25501), सी गुनासेकरन (25494), आर एस घुंघुस (25492), जी सक्सेना (25474), ए राजेश (25786), ए रावत (25779), एस सी थोमस (25767), बी फिरोज (25780), एम के लाबरू (25977), जी सिंह (26001), ए शर्मा (25999), वी के मिश्रा (25970), पी सक्सेना (25991), दिनांक 03 जनवरी 2005 से।

मिस वाई सुजाता (23701), श्रीमति एस ए उरेकर (24147), श्रीमति के सिंह (24148), श्रीमति पी भराडे (24150), श्रीमति बी गोगोई (24151), श्रीमति ए वासुदेव (24155), मिस वी लाम्बा (24699), मिस वी एस क्लैसेल्वी (24700), श्रीमति पी आनंद (24701), वी जेम्स (25262), टी पी डैस (25263), श्रीमति अवानी पांडेय (25267), श्रीमति डिम्पल रावत (25268), श्रीमति योमिनि देसाई (25269), श्रीमति परमजीत घोत्रा (25270), एस श्याम सुन्दर (24470), एच हुसैन (24471), ए के चौधरी (23933), आर जी हेगडे (24136), सी एम संतोष (24140), यू पी नागाराले (24135), एम आर दिनेश (24131), बी के पांडेय (23892), ए परवेज (24390), वी भारद्वाज (24392), एच एन तिवारी (24732), ए रैना (24399), ए वशिष्ठ (24424), के एस कुमार (24413), के एम खान (24402), एन एम थापलियाल (24411), एस पात्रा (24418), आर एस हरिकुमार (24422), डी पी मिश्रा (24733), यू शर्मा (24405), एस पी राठौर (24734), धीरज राज घई (24425), एन के सूर्यादेवरा (24423), ए एस नारायणा (24395), जे के पी मोत्रिल (24396), आर एन दीपक (24384), एस सी नाथन (24419), आर के राजू (24420), ए कुमार (24387), आर एन नायर (24410), आर एम सिंह (24736), एस रावत (24407), जी के एन नायर (24409), एम पी शर्मा (24401), वी आनंद (24415), आर एस रावत (24406), ए गुप्ता (24403), डी रामानी (24435), ए नागर (24389), एच वत्स (24385), आर के भाटिया (24394), एस बनर्जी (24417), के डी ए राजेश (24412), एम असुति (24400), एस के दास (24386), डी कुमार (24434), एच एस संगर (24397), एच एन प्रसन्ना (24388), पी एस श्रीनिवासन (24404), ए सरकार (24672), ए के कांचेरला (24708), एस के गुप्ता (24676), ए आई जॉर्ज (24673), पी सरफ (24674), के एम जयन्त (24666), ए के भट्ट (24665), एस एस कान्याल (24704), के भट्टाचारजी (24678), एस वर्मा (24681), आर के पंडा (24687), ए टी रेड्डी (24667), जे आर धवासकर (24686), के वी चर्म (24668), वी दुनग्रवाल (24669), के हरित (24685), बी जे मनोज (24670), वी चतुर्वेदी (24680), बी नवीन (24682), ए गोगोई (24683), एम एल श्रीप्रसाद (24782), ए आरशी (24781), सी दीप (24824), एम त्रिरूमरुण (25277), आर ए आनंद (25278), आर अरविन्द (24796), सी पार्थिवन (24799), एम पी सिंह (24812), ए चन्द्रा (24828), ए बनर्जी (24822), के एस राजीव (24819), एस वी कुलकर्णी (24811), एस रंजन (24821), जे ए कुमार (24805), ए चन्द्रशेखर (25279),

एस के साह (24815), वी के कुमार (24809), विकास (24825), ए आर जथर (24817), एस सुकुमार (24780), ए कार्तिकेयन (24801), के सिंह (25280), ए वर्मा (24862), एम सक्सेना (24794), एस के शाही (24798), एस जैन (24787), आर रंजन (24779), एम एस के वेंकट (24783), पी सिंह (24857), आर थापा (24826), ए एन सोमना (24810), ए आर मुरलीधरन (24833), के एस राव (24866), जे ए रेडबेन (24802), एस सी कुमार (24804), एस पी पुरानिक (24813), डी जैन (24832), पी मुनि कुमार (24802), एस के कर (24803), ए मजुमदार (24818), वी भंडारी (24800), डी बिस्वास (24797), ए कौशिक (24823), ए के ठाकुर (24791), एस के सरकार (24814), पी शर्मा (24431), ए अग्रवाल (24432), पी शर्मा (24433), जी वी प्रल्हाद (24677), आर के त्रिपाठी (24792), आर तिवारी (24789), पी गुप्ता (24784), एन सजीव (24694), पी आर गुप्ता (24696), के ए राजन (24697), एम गद्दर (24698), पी जी सिंह (24705), पी शुक्ला (25245), एस बलोत्रा (25246), एम के राय (25249), जे एस सिंधु (25242), ए कुमार (25241), एस चंडोला (25240), ए तिवारी (25243), वाई पुरोहित (25248), आर गौतम (24842), आर देशमुख (24843), आर एस यादव (24844), एस लाम्बा (24845), आई एस सहदेव (24846), जी करकी (24851), बी राय (25493), एच अग्रवाल (25500), एस सांकेति (25485), एस सोनी (25491), एन कुमार (24818), बी आर जोशी (25488), पी पी देशाई (25479), डी के मिश्रा (25478), पी यादव (25496), पी के साचन (25503), ए जैन (25475), सी वी अरून (25484), एम एस गिल (25513), एन दत्ता (25505), आर गोस्वामी (25480), ए पंत (25508), पी के भारद्वाज (25487), डी सिन्हा (25502), एस सैनी (25499), एम सिंह (25477), एस के मुधोल (25507), ए द्विवेदी (25483), एस कार्तिकेयन (25510), ए यादव (25506), जे पी डेनियल (25509), वी के अग्रवाल (25512), आर शोरी (25504), पी कश्यप (25482), आर एस पवार (25498), एन एस के सिंह (25490), ए सुरंगलिकर (25514), जे कुमार (25486), ए बजाज (25766), ए आई शाह (25769), ए शर्मा (25778), डी जी पॉल (25785), आर वोहरा (25774), के टिकू (25762), पी बहादुर (25787), ए के मिश्रा (25773), ए गोविल (25765), के एल तोमर (25768), जी सनल (25783), आर पी कुमार (25784), यू कुमार (25782), जे पी सिंह (25764), ए के मेंदीरत्ता (25763), आर एस सामब्याल (25495), वी एन मिश्रा (25776), टी डी सिंह (25772), यू चतुर्वेदी (25770), टी किबा (25781), एस के उपाध्याय (25775), बी एस गिरीश कुमार (25788), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से। बी एस कुमार (24138), दिनांक 17 दिसम्बर 2004 से।

एस एस सुब्रमन्यन (25282), दिनांक 19 दिसम्बर 2004 से।

एम के झा (24806), दिनांक 21 दिसम्बर 2004 से।

विमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक में

एस आर मुरलीधरन (27335), पी आनंद (27337), जी शुक्ला (27339), जी शर्मा (27341), ए जी एन चैतन्य (27347), आर संकरारमन (27350), एस राजेश (27351), के किरन (27361), ए प्रेमी (27362), के के के परमशिवैह (27377), ए के वाई दास (27384), वी आर किशोर

(27395), वी वेनू (27396), जी प्रताप (27405), टी वर्मा (27412), दिनांक 06 जनवरी 05 से।

पी वशिष्ठ (27369), दिनांक 07 जनवरी 2005 से।

जे ए ए अली (27417), दिनांक 09 जनवरी 2005 से।

आर मलिक (26394), एस गंगोपाध्याय (26395), ए एस साचन (26396), पी सी एन अग्रवाल (26397), एस एम कुमार (26657), जे एस ग्रेवाल (26658), जे बी साहा (26660), (मिस) परविन्दर कौर (26664), (मिस) वीना वर्मा (26666), (मिस) गीतांजली सागर (26669), (मिस) राखी सतीशचन्द्रण नायर (26670), (मिस) हर्षा एम जॉर्ज (26671), (मिस) रशमी रावत (26672), (मिस) सुरक्षा (26673), (मिस) प्रीता मंगलाश्रय (26674), (मिस) श्रेनी सातानि (26675), (मिस) के पी प्रीता (26676), (मिस) ब्रोंयापति कटनी (26678), एच सी मान (25814), (मिस) एस विजयालक्ष्मी (26679), एन नागराजन (25815), जी प्रमोद (26656), आर सिंह (26681), के के अग्रवाल (26887), पी गणेशन (26682), एस एस अग्रवाल (26888), आर एस सिंह (26683), एल आर नारायणन (26889), एस एम शेनॉय (26890), एस वर्मा (26891), टी सिंह (26892), एस आर प्रभू (26893), ए शर्मा (26894), वी बालाचन्द्रण (26895), ए के रवि (26896), ए प्रह्लाद (27163), एस जोशी (27165), (मिस) तूनिहा सिंह (27167), (मिस) गौरी कालरा (27168), (मिस) निशा मोहन मेनन (27169), (मिस) प्रणव शर्मा (27170), (मिस) मनप्रीत बेदी (27172), (मिस) श्वेता कौशिक (27173), (मिस) पी बराधे (27174), (मिस) के हनुजा (27175), (मिस) आर सुबधरा (27176), (मिस) योगिता चौहान (27177), (मिस) शिल्पा सूरी (27178), (मिस) अंजली सिंह (27179), (मिस) मनिन्दर कौर (27180), (मिस) मनाली शुक्ला (27181), (मिस) के महेश प्रिया (27182), (मिस) वैकटारमण सारदा (27183), (मिस) शीतल चौहान (27184), (मिस) रेणुका नायर (27185), (मिस) सुरभि अरोड़ा (27187), मिस कविता चहल (27188), (मिस) दीपति मलिक (27189), ए मेनन (25476), डी मिश्रा (26432), एन के सामल (27109), जी बेल्लिकर (26839), एन कुलश्रेष्ठा (26841), एम प्रताप (26842), एम के सिंह (26845), आर एन कौशिक (26846), जी मांग्लिक (26849), आर जे एस पहवा (26850), एस कुमार (26851), एन रामकृष्णन (26852), आर शर्मा (26853), पी एस कार्तिक (26854), आर सक्सेना (26855), पी के तेओतिया (26856), आर पाञ्जल (26858), एन एस बी कुमार (26859), एस के खरे (26861), एस सैनी (26863), ए अम्बाले (26865), बी मोहन (26866), ए सिद्धिकी (26868), ए एस चौहान (26870), एन ए मुसलय (26871), ए रस्तोगी (26872), वी वर्मा (26874), आर गंगाधरन (26875), आर के माधरा (27297), मनीष (26840), जे कुंतल (26862), पी गांगुली (26878), ए के मित्तल (26950), एस सिंह (27121), आर के डोगरा (27122), एच सरवनन (27123), के सिंह (27125), एम हरिहरण (27126), आई चटर्जी (27127), ए के गर्ग (27128), वी पी त्रिपाठी (27129), ए गुगलानी (27130), ए के सिंह (27131), जे सिंह (27133), एम शर्मा (27134), ए सिंह (27135), एस उदय कुमार (27136), डी प्रसाद (27137), ए बारल (27138), ए खरे (27139), वी भारती (27140), एस गौतम (27141), पी यादव (27142), एस सिंह (27143), ए जैन (27145), जी एस ढिंगरा (27146),

ओ एन चौधरी (27147), वी सागवाल (27148), आर अभिलाष (27149), वी प्रसाद (27151), एच विद्या (27152), एस तेजपाल (27153), एम एन सिंह (27154), पी कुमार (27155), आर एस वर्मा (27156), के वी वी प्रसाद (27435), पी असलम (27334), एम के वर्मा (27338), के के झा (27342), एस नाथ (27344), एस कृष्णमूर्ति (27352), एम श्रीनिवासुलु (27353), पी के डे (27354), एस के चावन (27357), एन किशोर (27359), एस अहमद (27360), सी गुलाटी (27363), एम थपलियाल (27365), एस शर्मा (27366), एस प्रसाद (27367), वी एस उलशाई (27368), एन प्रवीण (27370), डब्ल्यू सेलेनजीत (27371), एस सेल्वारज (27372), पी यादव (27373), जे एम क्लाडियस (27374), एस मुखर्जी (27375), पी वी राजेश (27376), ओ एस बाबू (27378), एम जे खान (27379), ए पंत (27380), टी बी सिंह (27381), ए आर चारशनेय (27382), डी गर्ग (27385), एस सोना (27386), ए जाहद (27387), एच पी कोठारी (27388), के एस कुमार (27389), पी मिश्रा (27390), जी सिंह (27391), ए एस चौहान (27392), वी एस कुमार (27394), एस शर्मा (27397), के एस एस नायर (27398), ए समाजपत (27399), एस के पांडेय (27400), एल राजगोपाल (27401), आर सिंह (27402), एम बी पोन्नप्पा (27403), के वशिष्ठ (27404), वी चट्टय (27406), सी अनवरशाजी (27408), एस यादव (27411), एम ए सिंह (27414), जी शर्मा (27415), एल वी एम जे एंटोनी (27416), एस कुमार (27432), एस के बेहेरा (27586), वी राजेन्द्रन (27588), एस के बान्धिया (27590), ए जे अल्मेडदा (27591), वी थोमस (27593), एस एस देसाई (27597), पी थापर (27599), जी आर एस रेड्डी (27601), डी सिंह (27602), एस साजवान (27603), वी आर बाबू (27604), एच एन रवि कुमार (27606), बासवराज (27607), जी एस रामजी (27608), जी के नन्जुन्दास्वामी (27610), पी के मथैया (27613), एन एस सेट्टी (27615), के के चैतन्य (27617), ए रंजन (27619), ए मलिक (27621), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

डी वी नायर (27422), दिनांक 16 जनवरी 2005 से।

एस अहमद (27409), दिनांक 17 दिसम्बर 2004 से।

ए के घोष (27301), जी सिंह (27427), दिनांक 17 जनवरी 2005 से।

आर आर सुन्दरम (27433), दिनांक 20 जनवरी 2005 से।

डी कौरा (27150), दिनांक 21 दिसम्बर 2004 से।

अल्पकालीन सेवा कमीशन

फलाइट लेफ्टिनेंट से स्कवाड्रन लीडर के मूल रैंक में

प्रशासनिक शाखा

भारती मिश्रा (23644) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

एस श्रीवास्तव

विंग कमांडर

जे डी पी ओ-3 (डी)

थल सेना शाखा,

सं. 621, दिनांक 20 नवम्बर 2006 निम्नलिखित अधिकारियों को एस जी सी एम द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आर सी-0661 ए कैप्टन दलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री

(अ) सेवा से बर्खास्त किया जाए।

--05 अगस्त 2003

निम्नलिखित अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आई सी-37749 एफ कैप्टन एस एस सन्धु, इन्फैन्ट्री

(अ) सेवा से समाप्ति आर्मी एक्ट के अन्तर्गत अनुभाग 19 के साथ पढ़ा जाए आर्मी रूल 14, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के आदेश दिनांक 12 अगस्त 2004

--12 अगस्त 2004

निम्नलिखित अधिकारियों को जी सी एम द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

एस एल-03376एन मेजर गुरनाम सिंह, इंजीनियर्स

(अ) बेइज्जती के साथ सेवा से बर्खास्तगी

(ब) पांच वर्ष के लिए सश्रम कारावास। आर्मी एक्ट सेक्शन 52 (एफ), आर्मी एक्ट सेक्शन 57 (ए) के साथ पढ़ा जाए सेक्शन 34।

--14 मार्च 2005

आई सी-40200 वाई ले. कर्नल राजीव शर्मा, आर्टी

(अ) पेंशन हेतु एक वर्ष की सेवा का समपहरण।

(ब) कडी भर्त्सना की जाए।

--07 अप्रैल 2005

आई सी-38436 पी ले. कर्नल (टी एस) जोतिन्दर पाल, इन्फैन्ट्री

(अ) पेंशन हेतु दस वर्ष की सेवा का समपहरण।

(ब) कडी भर्त्सना की जाए।

--08 जून 2005

आई सी-60109 के ले. एल बी मल, एओसी

(अ) पदोन्नति के लिए छः मास की सेवा का समपहरण किया जाए।

(ब) कडी भर्त्सना की जाए।

--04 अगस्त 2005

आई सी-52298 के ले. कर्नल सत्येन्द्र नारायण, इंजीनियर्स

(अ) पेंशन हेतु दो वर्ष की सेवा का समपहरण।

(ब) कडी भर्त्सना की जाए।

--10 अक्टूबर 2003

आई सी-47908एफ ले. कर्नल रन सिंह दूडी, एओसी

(अ) बेइज्जती के साथ सेवा से बर्खास्तगी

(ब) ढाई वर्ष के लिए सिविल में सश्रम कारावास।

--24 अक्टूबर 2005

शिव राम बैरवा

उप-निदेशक

एम एस 8 सी

सं. 622, दिनांक 20 नवम्बर 2006

सेना शाखा

शुद्धि पत्र

भारत के राजपत्र में दिनांक 08 जुलाई 2006 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र सं. 333 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के लिए: एस एल-3376 गुरनाम सिंह, एस एल/ए एस डब्ल्यू

पढ़ा जाए: खाली

भारत के राजपत्र में दिनांक 15 अक्टूबर 2005 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र सं. 495 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के लिए: स्थायी कमीशन (एस एल)

पढ़ा जाए: स्थायी कमीशन

शिव राम बैरवा

उप-निदेशक

एम एस 8 सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th December 2006

No. 615, dated 15th November 2006.—The President is pleased to appoint Shri Surbir Singh Payal as Assistant Private Secretary to Raksha Mantri (Shri A. K. Antony) on provisional basis in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- with effect from the forenoon of 25 October, 2006 till Raksha Mantri demits office or till further orders, whichever is earlier.

K. SESHAIAH
Director (E)

(ARMY BRANCH)

No. 616, dated 16th November 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Karnail Singh (JC-840022H), 01 July 2006

Subedar Madan Lal (JC-840019H), 01 July 2006

Subedar Gainda Singh Chauhan (JC-149070X), 01 July 2006

Subedar Jai Bhagwan Singh (JC-184070W), 01 Aug 2006

Subedar Mangal Singh (JC-205478L), 01 Aug 2006

Subedar Bhag Singh (JC-176411F), 01 Aug 2006

Subedar Perra Ram (JC-197632F), 01 Aug 2006

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Rasat Ali (JC-840866Y), 01 Mar 2006

Nb Sub Kulwant Singh (JC-181901Y), 01 July 2006

Nb Sub Shri Ramchandra Chand (JC-199143P), 01 July 2006

Nb Sub Suresh Kumar Sinha (JC-660146P), 01 July 2006

Nb Sub Joginder Chand Sharma (JC-588009X), 01 July 2006

Nb Sub Gopal Lal Gurjar (JC-478102W), 01 July 2006

Nb Sub Onkar Singh (JC-518723A), 01 July 2006

Nb Sub Jhilmal Singh (JC-428225M), 01 July 2006

Nb Sub Kunwar Singh (JC-528130F), 01 July 2006

Nb Sub Mehar Singh (JC-578272P), 01 July 2006

Nb Sub Kulwant Singh (JC-578151N), 01 July 2006

Nb Sub Puranmal (JC-258825A), 01 Aug 2006

Nb Sub Nanthuram Rahul (JC-568102X), 01 Aug 2006

Nb Sub Narayan Datt (JC-590033M), 01 Aug 2006

Nb Sub Dewan Raj (JC-448850P), 01 Aug 2006

To be Substantive Subedar Major (Clk)

Sub (Clk) Ranjit Kumar Mandal (JC-172466N), 01 July 2006

To be Substantive Subedar (Clk)

Nb Sub (Clk) Rangil Singh (JC-841070P), 01 July 2006

Nb Sub (Clk) Manbir Singh (JC-841072A), 01 Aug 2006

To be Naib Subedar (GD)

Hav Darshan Singh (No. 14316029F now JC-841913X), 27 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Kumar (No. 10361846N now JC-842000H), 09 May 2006**

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Mohd Unusuddin Laskar (No. 14516977P now JC-842012X), 28 June 2006***

Hav Abhimanyu Swain (No. 1452764X now JC-842015L), 24 Aug 2006***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Lal Singh Bisht (No. 1455001M now JC-842037K), 15 June 2006****

**** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Ganesh Datt (No. 10360667F now JC-842049Y), 11 July 2006*****

Hav Arjan Singh (No. 4448922M now JC-842051W), 03 May 2006*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Prithvi Singh (No. 2864730A now JC-842054K), 05 Sep 2006*****

Hav Anand Singh Gusain (No. 14516535W now JC-842065W), 23 Aug 2006*****

***** (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Chander Singh (No. 4166062N now JC-842070F), 07 Sep 2006*****

Hav Surendra Singh (No. 3168533Y now JC-842073P), 06 Sep 2006*****

Hav Surendra Singh (No. 1046093P now JC-842074X), 02 Sep 2006*****

Hav Govind Gurung (No. 9413772X now JC-842075A), 28 Aug 2006*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (GD)

Hav Rakesh Chandra Sharma (No. 14518641N now JC-842086M), 26 Aug 2006*****

Hav Avtar Singh (No. 2458728Y now JC-842089A), 28 Aug 2006*****

Hav Jit Singh (No. 1047217L now JC-842091X), 28 Aug 2006*****

Hav Lajja Ram (No. 9213440K now JC-842092A), 22 Aug 2006*****

Hav Vasudev (No. 7108874Y now JC-842094L), 23 Aug 2006*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Puran Singh Deori (No. 4166521F now JC-842107X), 13 Sep 2006*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2006 without effect on pay and allowances)

T. K. M. PILLAI
Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR
BRANCH

No. 617, dated 17th November 2006—The President is pleased to make the following Promotion :—

To be Sub Maj Technical

Sub Dyal Singh (JC-748074Y), 01 Feb 2006/01 Feb 2006*

Sub Kalyan Dutta (JC-748742K), 01 Dec 2005/01 Dec 2005*

Sub Ishwar Dayal Singh (JC-748437X), 01 Jan 2006/01 Jan 2006*

Sub Gopal Prasad Deo (JC-748409L), 01 Feb 2006/01 Feb 2006*

Sub Murari Lal Chaudhary (JC-748961L), 01 Feb 2006/01 Feb 2006*

Sub Suseelan Nair R (JC-749379L), 01 Mar 2006/01 Mar 2006*

Sub Satish Kumar (JC-749375P), 01 Mar 2006/01 Mar 2006*

Sub Surender Pratap Singh (JC-747938L), 01 Apr 2005/01 Apr 2005*

Sub N. Gopalakrishnan Nair (JC-748734L), 02 Jan 2006/01 Jan 2006*

Sub Fulendra Choudhary (JC-748262A), 01 Oct 2005/01 Oct 2005*

Sub Mahendra Rai (JC-748291P), 01 Nov 2005/01 Nov 2005*

Sub Harendra Kumar (JC-748310P), 02 Nov 2005/01 Nov 2005*

Sub Ananda Chandra Nayak (JC-748175M), 03 Aug 2005/01 Aug 2005*

Sub Tej Pal Singh (JC-748290M), 01 Nov 2005/01 Nov 2005*

Sub Dayanand Upreti (JC-748397F), 02 Jan 2006/01 Jan 2006*

Sub Pawar Ashok Bhima Rao (JC-748904K), 01 Feb 2006/01 Feb 2006*

Sub Madhavan Kutty N (JC-749390K), 01 Mar 2006/01 Mar 2006*

Sub Surendera Kumar Mor (JC-749421Y), 01 Mar 2006/01 Mar 2006*

Sub Om Parkash Sharma (JC-748789P), 01 Oct 2005/01 Oct 2005*

Sub K Sundarasvaran Nair (JC-748867F), 01 Feb 2006/01 Feb 2006*

Sub Jagdish Prasad Sharma (JC-749044N), 01 Feb 2006/01 Feb 2006*

Sub Hari Kumar Ghosh (JC-748406X), 01 Feb 2006/01 Feb 2006*

Sub Neelkanth Mattikopp (JC-748398K), 02 Jan 2006/01 Jan 2006*

Sub Jagtar Singh Sran (JC-749715M), 08 Mar 2006/01 Mar 2006*

To be Sub Maj DW

Sub Surinder Singh (JC-754967H), 17 Jan 2006/01 Jan 2006*

Sub Harish Kumar Panwar (JC-752796H), 01 Feb 2006/01 Feb 2006*

To be Sub Maj SKT

Sub Iswar Chandra Samantray (JC-748825P), 01 Jan 2006/01 Jan 2006*

Sub Silvester Soreng (JC-748822F), 01 Jan 2006/01 Jan 2006*

To be Sub Maj Tech AVN

Sub Surendra Singh (JC-751068W), 01 Jan 2006/01 Jan 2006*

Sub Radhay Shyam Dixit (JC-753721X), 01 Jan 2006/01 Jan 2006*

To be Sub Maj Artzn AVN

Sub Hari Krishna Murthy A (JC-750866X), 01 Feb 2006/01 Feb 2006*

To be Sub Maj Clk (GD)

Sub Arjun Singh Lingwal (JC-747050H), 01 Feb 2006/01 Feb 2006*

Sub Sartraj Ahmad Khan (JC-747045X), 01 Aug 2005/01 Aug 2005*

Sub Mohan Lal (JC-747049N), 01 Mar 2006/01 Mar 2006*

Sub Rattan Chand Sharma (JC-747097N), 01 Apr 2006/01 Apr 2006*

Sub Ramesh Chander Yadav (JC-747069F), 01 Apr 2006/01 Apr 2006*

To be Sub Maj Artzn(EC)

Sub Devendra Singh (JC-749563W), 01 Mar 2006/01 Mar 2006*

Sub Bhupon Gogoi (JC-751595X), 01 Jan 2006/01 Jan 2006*

To be Sub Maj Armr

Sub Ashok Kumar (JC-753266A), 01 Feb 2006/01 Feb 2006*

Sub Ram Bahadur Thapa (JC-753260Y), 01 Jan 2006/01 Jan 2006*

To be Sub Maj Artzn(NE)

Sub Dharumvir (JC-750819A), 01 Nov 2005/01 Nov 2005*

To be Sub Tech

Nb Sub Goulshivanekra JY (JC-755488N), 28 Dec 2005/01 Jan 2005*

Nb Sub Suresh Kumar (JC-755766W), 17 Jan 2006/01 Oct 2005*

Nb Sub Om Prakash (JC-755775X), 27 Dec 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Balwant Singh (JC-756005X), 23 Jan 2006/01 Nov 2005*

Nb Sub Rajendera Kumar (JC-755880N), 27 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Duryodhan Singh (JC-756034M), 13 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Raj Kumar Sharma (JC-755973H), 26 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Mohd Ilias (JC-755885M), 16 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Mushtaq Ahmad (JC-755976W), 03 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Devendra Singh (JC-755901Y), 27 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Keram Dnyaneshwar C (JC-755977Y), 12 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Man Singh Gurjer (JC-755993W), 13 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Mohamed Akram (JC-756035P), 27 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Satish Kumar (JC-756009N), 25 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Keshar Deo Birda (JC-756013W), 24 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Krishan Kumar (JC-756512L), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Prasannan P (JC-755944N), 24 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Ramnish Kumar (JC-756060N), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Manoranjan Behura (JC-756390M), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Ram Singh Gurjar (JC-756391P), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Ashok Kumar Roy (JC-756016K), 21 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Wilson A (JC-756513N), 21 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Radhey Lal (JC-756017M), 24 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Satyaveer Singh (JC-755949M), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub S K Swain (JC-755955A), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Unnikrishnan N (JC-755947F), 27 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Hans Raj (JC-755956H), 27 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Bir Singh (JC-755948K), 21 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Naresh Chandra Pal (JC-756061W), 23 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub E Loknadan (JC-756392X), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Sanjay Kumar Gupta (JC-755951K), 24 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Ramesh Chandra Singh (JC-756674W), 31 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Mochi Sahoo (JC-755954X), 31 Jan 2006/01 Jan 2006*

To be Sub Artn(EC)

Nb Sub Prohlad Chandra Dey (JC-756425X), 16 Nov 2005/28 Jun 2005*

Nb Sub Shyama Nand Mukharjee (JC-757310W), 12 Jan 2006/01 Feb 2005*

Nb Sub Prasanta Kumar Acharya (JC-757774N), 30 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Madhu Soodanan Nair PR (JC-758046A), 25 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Sharda Nand Singh (JC-757952L), 30 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub P Mannar Swamy (JC-758055F), 30 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub A Loganathan (JC-757954W), 24 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Vinay Kumar Katiyar (JC-758087K), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

To be Sub Artn(NE)

Nb Sub Raj Kumar Patel (JC-756270N), 19 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Yakoob Ali Khan (JC-756217H), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Nirmal Kumar Mondal (JC-756212K), 27 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Baleshwar Prasad Verma (JC-756312P), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

To be Sub Clk(GD)

Nb Sub Kanak Chandra Das (JC-754201Y), 21 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Narinder Singh (JC-754202F), 24 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub D S Yadav (JC-754205P), 16 Jan 2006/01 Jan 2006*

To be Sub SKT

Nb Sub P Rajamani (JC-754216F), 18 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Sulakhan Singh (JC-754307L), 26 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Ram Kumar Dixit (JC-754308N), 02 Feb 2006/01 Jan 2006*

To be Sub Armr

Nb Sub Mangal Singh (JC-756074N), 17 Dec 2005/01 Sep 2005*

Nb Sub S C Pal (JC-757096Y), 31 Jan 2006/01 Jan 2006*

To be Sub DW

Nb Sub Mohan Singh (JC-757522F), 02 Jan 2006/01 Nov 2005*

Nb Sub Sudarsan Sah (JC-757998N), 21 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Ram Chander (JC-757925F), 14 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Raj Bahadur (JC-757980X), 13 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Virender Singh (JC-758171K), 21 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Sumer Singh Bhukar (JC-758156P), 28 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Om Prakash (JC-758157X), 26 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Jawahar Ojha (JC-758172M), 29 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Ran Singh (JC-758160X), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Patil Hanmanta Naik (JC-758161K), 27 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub N Patil (JC-758162H), 30 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Harendra Prasad Singh (JC-758163L), 27 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Ram Naresh Tiwari (JC-758164N), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Puran Sahu (JC-758165W), 03 Feb 2006/01 Jan 2006*

To be Sub Tech(AVN)

Nb Sub G Das (JC-756499M), 19 Aug 2006/01 Jun 2005*

To be Sub Artn(AVN)

Nb Sub Laik Ahemmad (JC-756895H), 08 Jan 2006/01 Nov 2005*

To be Sub RT

Nb Sub Vinay Kumar (JC-750709L), 04 Jan 2006/01 Dec 2005*

To be Sub Artzn(EC)

Nb Sub Budan Marandi (JC-756429N), 17 Mar 2006/01 Jan 2004*

Nb Sub Dalal Uttam Kumar (JC-757209W), 19 Jan 2006/28 Jun 2005*

Nb Sub Sube Singh (JC-757941Y), 26 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Omprakash Verma (JC-758240P), 04 Apr 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Ramesh Singh Negi (JC-758129L), 27 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Prasant Kumar Das (JC-758239A), 28 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Balram Singh (JC-757356Y), 24 Apr 2006/06 Dec 2005*

Nb Sub Deshpande Shivaji G Rao (JC-758130A), 24 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Sonappa Dadu Deshmukh (JC-758134W),
19 Apr 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Atarlal (JC-758135Y), 20 Apr 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Bimal Chandra Maity (JC-758248F), 24 Apr 2006/
01 Apr 2006*

Nb Sub Nirmal Kumar Mohanty (JC-757246K), 24 Apr
2006/06 Dec 2005*

Nb Sub Lokinder Singh (JC-758131H), 26 Apr 2006/
01 Mar 2006*

Nb Sub Srikant Tiwari (JC-758290A), 25 Apr 2006/
01 Apr 2006*

Nb Sub Mohar Singh (JC-757249X), 01 May 2006/
06 Dec 2005*

Nb Sub Rattan Singh Bubaniwal (JC-756710W), 23 Apr
2006/28 Jun 2005*

To be Sub Artzn(NE)

Nb Sub Surbir Singh (JC-756218L), 09 Mar 2006/01 Feb
2006*

Nb Sub Ganpat Ram (JC-756219N), 09 Mar 2006/01 Feb
2006*

Nb Sub Raj Narayan Giri (JC-756539H), 20 Mar 2006/01
Feb 2006*

Nb Sub Satpal (JC-756432N), 21 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Prema Nanda Patra (JC-756415N), 17 Apr 2006/01
Mar 2006*

Nb Sub Mithlesh Kumar (JC-756433W), 21 Apr 2006/01
Mar 2006*

Nb Sub Rajendra Singh (JC-756542H), 26 Apr 2006/
01 Mar 2006*

Nb Sub Ved Prakash (JC-756541A), 17 Apr 2006/01 Mar
2006*

To be Sub Clk(GD)

Nb Sub Sahab Singh (JC-754211H), 24 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Satya Prakash Kaushik (JC-754282K), 01 Mar
2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Udayaavir Singh Parihar (JC-754290H), 21 Apr
2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Basant Kumar Pandey (JC-754297M), 17 Apr
2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Nand Kishore Choudhary (JC-754292N), 26 Apr
2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Dhruva Narayan Dwivedi (JC-754299X), 01 May
2006/01 May 2006*

Nb Sub Rajender Pal Singh (JC-754283M), 08 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-754293W), 21 Apr 2006/
01 Apr 2006*

To be Sub SKT

Nb Sub Mahipal (JC-754309W), 30 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Rameshan U (JC-754310L), 08 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Ashok Pandey (JC-754311N), 24 Apr 2006/
01 Mar 2006*

To be Sub Armr

Nb Sub Yadav Uttam Tuka Ram (JC-756261M), 08 Nov
2006/01 Sep 2005*

Nb Sub Karmeswar Boro (JC-756720A), 05 Feb 2006/
01 Sep 2005*

Nb Sub Rankamani Nayak (JC-756818N), 30 Jan 2006/
01 Dec 2005*

Nb Sub Bikram Sundi (JC-757311Y), 18 Apr 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Sunder Prakash (JC-757314M), 23 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Pradip Kumar Rajkhoa (JC-757317A), 20 Apr 2006/
01 Mar 2006*

Nb Sub Ravindra Kumar Pandey (JC-757320A), 27 Apr
2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Gopal Chandra Saha (JC-757559H), 02 May 2006/
01 Mar 2006*

Nb Sub Mono Ranjan Adak (JC-757319L), 09 May 2006/
01 Mar 2006*

To be Sub REC Mech

Nb Sub Ram Pal Sharma (JC-752613F), 28 Jan 2006/
01 Dec 2005*

To be Sub Dvr(MT)

Nb Sub Narain Dass (JC-757569M), 04 Mar 2006/
19 Dec 2005*

Nb Sub Subhash Pandey (JC-757825W), 13 Mar 2006/
01 Dec 2005*

Nb Sub Prahlad (JC-757949L), 26 Dec 2005/
01 Dec 2005*

Nb Sub Dayanand (JC-758155M), 14 Jan 2006/
01 Jan 2006*

Nb Sub Dinabandhu Kunwar (JC-758372H), 08 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Prithvi Singh (JC-758752F), 09 Mar 2006/01 Feb
2006*

Nb Sub Shakti Chand (JC-758373L), 25 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Thankappan K (JC-758428K), 17 Apr 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Vipin Bihari Singh (JC-757605M), 20 Apr 2006/06 Dec 2006*

Nb Sub Hemanta Kumar Samal (JC-758374N), 21 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Y Debendra Singha (JC-758842H), 26 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Md Humayun Kabir (JC-758375W), 22 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Satish Kumar (JC-758376Y), 01 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Chander Vir Singh (JC-758425W), 22 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Sambhi Reddy Many Konda (JC-758755P), 18 Apr 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Nathu Singh (JC-758426Y), 03 May 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Sugriv Singh Gurjar (JC-758756X), 20 Apr 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Kesh Ram Gurjar (JC-758427F), 24 Apr 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Bal Ram (JC-757810N), 06 May 2006/06 Dec 2005*

To be Sub RT(PANDIT)

Nb Sub Audhesh Kumar Pandey (JC-751245L), 21 Feb 2006/13 Jan 2006*

To be Sub TECH

Nb Sub Mahesh Chandra Sharma (JC-756098X), 01 Mar 2006/01 Feb 2006*

*Gtd ante dated seniority

ARMY ORDNANCE CORPS

To be substantive Subedar Major: AMN Tech

Sub Major AMN Tech Ram Milan (JC-722771F), 01 Nov 2005

Sub Major AMN Tech Pradip Chandra Barua (JC-722770Y), 01 Mar 2006

Sub Major AMN Tech Kole Laxman Yallappa (JC-722783W), 01 Apr 2006

To be substantive Subedar Major: Clk AOC

Sub Major Clk S Cont Prem Pal (JC-723053X), 01 Sept 2005

Sub Major Clk S Cont Badri Narayan Hazara (JC-723093Y), 01 Oct 2005

Sub Major Clk S Cont Babu Lal Yadav (JC-723095K), 01 Oct 2005

Sub Major Clk GD Rajender Singh (JC-723130F), 01 Nov 2005

Sub Major Clk GD Ranjit Singh (JC-723200P), 01 Nov 2005

Sub Major Clk S Prov Rajan KK (JC-723280Y), 01 Jan 2006

Sub Major Clk S Prov Rajinder Singh (JC-723127F), 01 Jan 2006

Sub Major Clk S Prov Rajender Singh Yadav (JC-723245P), 01 Feb 2006

Sub Major Clk S Cont Rameshwar Singh (JC-723246X), 01 Feb 2006

Sub Major Clk S Cont Rajender Prasad Singh Yadav (JC-723186N), 01 Apr 2006

Sub Major Clk S Cont Rampal Sharma (JC-723248H), 01 Apr 2006

Sub Major Clk S Cont Pitambar Datt Gorola (JC-723285W), 01 Apr 2006

Sub Major Clk S Prov Bhupinder Jit Singh Bajwa (JC-723251H), 01 Apr 2006

Sub Major Clk S Cont Chander Prakash Tiwari (JC-723215X), 01 Apr 2006

To be substantive Subedar Major: SKT

Sub Major SKT Sig Baldev Singh (JC-722959W), 01 Sept 2005

Sub Major SKT MT Manoharan P (JC-722960L), 01 Oct 2005

Sub Major SKT MT Sashi Kant Pathak (JC-723073L), 01 Oct 2005

Sub Major SKT AMN NS Vadivel (JC-723028Y), 01 Oct 2005

Sub Major SKT MT Subash Chandra Dash (JC-723075W), 01 Nov 2005

Sub Major SKT WEP Babar Bhim Rao Maruti (JC-722998P), 01 Nov 2005

Sub Major SKT MT Uthaman A (JC-723101M), 01 Nov 2005

Sub Major SKT Sig Sankara Narayanan A (JC-723110N), 01 Nov 2005

Sub Major SKT MT Prabhat Kumar (JC-723189F), 01 Nov 2005

Sub Major SKT MT Sharma Virendra Om Prakash (JC-723133P), 01 Dec 2005

Sub Major SKT MT Kundan Lal Sharma (JC-722996K), 01 Feb 2006

Sub Major SKT MT Gour Narayan Shit (JC-723030W), 01 Mar 2006

Sub Major SKT AMN Chandra Bhushan Singh (JC-723081K), 01 Apr 2006

Sub Major SKT MT Dudh Nath Pal (JC-723157Y), 01 Apr 2006

To be Substantive Subedar Major : SH GD

Sub Major SH GD Puran Singh (JC-724160L), 01 Sep 2005

Sub Major SH GD Shankar Lal (JC-724805H), 01 Dec 2005

To be Substantive Subedar Major : Carp (U)

Sub Major Carp (U) Hans Raj (JC-724462X), 01 Sept 2005

To be Substantive Subedar : AMN Tech

Sub AMN Tech Ratan Saha (JC-724434L), 01 Aug 2005

Sub AMN Tech Bhaktha Valsalan PS (JC-724435N), 01 Oct 2005

Sub AMN Tech Gurpal Singh (JC-724436W), 01 Nov 2005

Sub AMN Tech Surender Kumar (JC-724437Y), 01 Dec 2005

Sub AMN Tech Sajjan Singh (JC-724438F), 01 Dec 2005

Sub AMN Tech Suraj Singh (JC-724421N), 01 Dec 2005

Sub AMN Tech Sadhan Pal (JC-724466N), 01 Dec 2005

To be substantive Subedar : Clk AOC

Sub Clk S Prov Jagdev Singh (JC-724586M), 01 Jun 2005

Sub Clk S Cont Hari Chand (JC-725104Y), 01 Jun 2005

Sub Clk S Prov Selvam M (JC-725105F), 01 Jun 2005

Sub Clk S Cont Abdul Hafiz (JC-725083N), 01 Jun 2005

Sub Clk S Prov T Ashokan (JC-725084W), 01 Jun 2005

Sub Clk GD Opendra Narayan Pandey (JC-725085Y), 01 Jun 2005

Sub Clk S Cont Ramanand Mouriya (JC-725107M), 01 Jul 2005

Sub Clk GD Anwar Ali Mallik (JC-725087K), 01 Jul 2005

Sub Clk S Prov Madhusudan Achar (JC-725713H), 01 Jul 2005

Sub Clk S Prov Arjun Mahto (JC-725088M), 01 Jul 2005

Sub Clk GD Mohanan Muthathian Veetil (JC-725123K), 01 Jul 2005

Sub Clk S Cont Sarab Dev Pathak (JC-725188X), 01 Aug 2005

Sub Clk S Cont Kewal Singh Mual (JC-725137K), 01 Aug 2005

Sub Clk S Prov Sameuddin (JC-725109X), 01 Aug 2005

Sub Clk S Cont Bindlesh Sharma (JC-725110M), 01 Aug 2005

Sub Clk S Cont Pradip Dutta (JC-725124M), 01 Aug 2005

Sub Clk S Cont K Muthu Raman (JC-725125P), 01 Aug 2005

Sub Clk S Prov Bhagwan Dass (JC-725111P), 01 Aug 2005

Sub Clk S Prov Raj Kumar Shukla (JC-725112X), 01 Aug 2005

Sub Clk S Cont Hansraj Gujar (JC-725126X), 01 Aug 2005

Sub Clk S Prov Satayapal Malik (JC-725127A), 01 Aug 2005

Sub Clk S Cont Dashrath Singh (JC-725143X), 01 Aug 2005

Sub Clk S Cont Rabindra Pal Singh (JC-725144A), 01 Aug 2005

Sub Clk GD Harinarayan Chhubey (JC-725138M), 01 Aug 2005

Sub Clk GD Ganesh Prasad Jaiswara (JC-725139P), 01 Aug 2005

Sub Clk GD Surendra Prasad Singh (JC-725162H), 01 Sept 2005

Sub Clk S Prov Gauri Shankar Tiwari (JC-725145H), 01 Sept 2005

Sub Clk S Prov Brij Pal (JC-725140K), 01 Sept 2005

Sub Clk GD Jai Virender Singh (JC-725141M), 01 Sept 2005

Sub Clk GD Surendra Bahadur Singh (JC-725142P), 01 Sept 2005

Sub Clk GD Shiva Goundappa S Ullegaddi (JC-725163L), 01 Sept 2005

Sub Clk S Prov Ashok Kumar (JC-725164N), 01 Sept 2005

Sub Clk S Prov Rakesh Kumar (JC-725165W), 01 Sept 2005

Sub Clk GD Sita Ram Tripathy (JC-725191X), 01 Sept 2005

Sub Clk GD Rajender Singh Sindhu (JC-725167F), 01 Sept 2005

Sub Clk GDM Mani (JC-725168K), 01 Sept 2005

Sub Clk GD Ajay Kumar Singh (JC-725197Y), 01 Oct 2005

Sub Clk S Prov Lala Ram (JC-725169M), 01 Oct 2005

Sub Clk S Prov Srinivasan B (JC-725170F), 01 Oct 2005

Sub Clk GD Anup Singh (JC-725255X), 01 Oct 2005

Sub Clk GD Bhaskar Datt Joshi (JC-725198F), 01 Oct 2005

Sub Clk GD Harichandran Nair VG (JC-725199K), 01 Oct 2005

Sub Clk GD Biswajit Mazumdar (JC-725200N), 01 Nov 2005

Sub Clk S Prov Radhey Shyam (JC-725201W), 01 Nov 2005

Sub Clk GD Unny MA (JC-725202Y), 01 Nov 2005

Sub Clk GD Deben Chandra Nath (JC-725217F), 01 Nov 2005

Sub Clk S Prof Ishwar Singh (JC-725203F), 01 Nov 2005

Sub Clk GD Bishnu Prasad Swain (JC-725205M), 01 Nov 2005

Sub Clk S Cont Kalyan Singh (JC-725206P), 01 Nov 2005

Sub Clk GD Padmanabhan PV (JC-725232W), 01 Nov 2005

Sub Clk S Prov Birender Singh (JC-725272X), 01 Nov 2005

Sub Clk S Prov Surajbhan Singh (JC-725257H), 01 Nov 2005

Sub Clk S Prof Charan Singh (JC-725233Y), 01 Dec 2005

Sub Clk GD Ashim Kumar Ghosh (JC-725234F), 01 Dec 2005

Sub Clk GD J Jayasekar (JC-725268P), 01 Dec 2005

Sub Clk GD Peter (JC-725235K), 01 Dec 2005

Sub Clk GD Inder Pal (JC-725236M), 01 Dec 2005

Sub Clk S Prov Babu K (JC-725241X), 01 Dec 2005

Sub Clk GD Venkateshwarlu Kotha (JC-725237P), 01 Dec 2005

Sub Clk GD Hari Har Sardar (JC-725242A), 01 Dec 2005

Sub Clk GD Jagvir Singh (JC-725238X), 01 Dec 2005

Sub Clk GD Biplab Ranjan Nath (JC-725239A), 01 Dec 2005

Sub Clk GDP Sudhakara Reddy (JC-725240P), 01 Dec 2005

Sub Clk GD Santosh Singh (JC-725291H), 01 Dec 2005

Sub Clk GDDhan Singh Disodhia (JC-725273A), 01 Dec 2005

To be substantive Subedar SKT

Sub SKT GS&C Ajay Kumar Bag (JC-726299F), 01 Jun 2005

Sub SKT GS&C Pathan Azeez Khan Yakub Khan (JC-724728Y), 01 Jun 2005

Sub SKT MT Satyender Pal Chauhan (JC-724754A), 01 Jun 2005

Sub SKT MT Bir Singh (JC-724748M), 01 Jun 2005

Sub SKT MT Kanwar Singh (JC-724734M), 01 Jun 2005

Sub SKT MT Shankar Singh (JC-724149M), 01 Jul 2005

Sub SKT MT Pabitra Kumar Nayak (JC-724785A), 01 Jul 2005

Sub SKT MT Anajni Kumar Tripathi (JC-724801M), 01 Aug 2005

Sub SKT Engr Girdhari Ram Chaudhary (JC-724802P), 01 Aug 2005

Sub SKT MT Rajinder Singh (JC-724819H), 01 Aug 2005

Sub SKT AMN Bhatt Dayanand Hari Dutt (JC-724820X), 01 Aug 2005

Sub SKT MT Siya Ram (JC-724761W), 01 Aug 2005

Sub SKT GS&C Ramshankar Singh (JC-724852A), 01 Aug 2005

Sub SKT Sig Sureshpal Singh Talyan (JC-724803X), 01 Aug 2005

Sub SKT AMN Bishnu Mohan Shome (JC-724823L), 01 Aug 2005

Sub SKT GS&C Manoj Kumar Singh (JC-724824N), 01 Aug 2005

Sub SKT GS&C Ravinder Singh (JC-724787L), 01 Aug 2005

Sub SKT MT Ravindra Kumar Gauda (JC-724821A), 01 Aug 2005

Sub SKT MT Brij Nandan Singh (JC-724889F), 01 Sept 2005

Sub SKT MT Arvind Kumar (JC-724874Y), 01 Sept 2005

Sub SKT MT Adhir Kumar Jena (JC-724890W), 01 Sept 2005

Sub SKT MT Bibhuti Bhusan Palai (JC-724875F), 01 Oct 2005

Sub SKT MT Charan Singh Saini (JC-724958M), 01 Oct 2005

Sub SKT MT Lakshmi Pathy G (JC-725048L), 01 Oct 2005

Sub SKT MT Pravakaran PK (JC-724853H), 01 Oct 2005

Sub SKT MT Maha Sukh (JC-724876K), 01 Oct 2005

Sub SKT MT Pradeep Kumar (JC-724909K), 01 Oct 2005

Sub SKT MT Chander Pal Singh (JC-724891Y), 01 Oct 2005

Sub SKT MT Vijay Pal (JC-724893K), 01 Oct 2005

Sub SKT MT Azad Singh (JC-724892F), 01 Nov 2005

Sub SKT MT Hari Pal Singh (JC-724877M), 01 Nov 2005

Sub SKT MT Ram Kishan (JC-724854L), 01 Nov 2005

Sub SKT MT Om Prakash (JC-724878P), 01 Nov 2005

Sub SKT MT N Krishna Rao Patnaik (JC-724855N), 01 Nov 2005

Sub SKT MT Shesh Mani Yadav (JC-724894M), 01 Nov 2005

Sub SKT AMN Jagdesh Singh (JC-724959P), 01 Nov 2005

Sub SKT MT Kal Dharan Pillai B (JC-724970N), 01 Nov 2005

Sub SKT MT M Raj Kumar (JC-724895P), 01 Dec 2005

Sub SKT MT Amrit Singh (JC-724896X), 01 Dec 2005

Sub SKT MT Surendran NR (JC-724928P), 01 Dec 2005

To be Substantive Subedar DVRS

Subedar DVR MT Chandgi Ram (JC-726022H), 01 Jun 2005

Subedar DVR MT Mangal Prasad Singh (JC-725972L), 01 June 2005

Subedar DVR DPL Laxman Singh (JC-725974W), 01 Jun 2005

Subedar DVR MT Ramesh Singh (JC-725925N), 01 Jun 2005

Subedar DVR MT Kamtanu Gavrial (JC-725975Y), 01 Jun 2005

Subedar DVR MT Ranbir Chand (JC-726024N), 01 Jul 2005

Subedar DVR SPL Subash Chand (JC-726099L), 01 Aug 2005

Subedar DVR MT Ramesh Chand (JC-726124Y), 01 Aug 2005

Subedar DVR MT Achhar Singh (JC-726139F), 01 Aug 2005

Subedar DVR SPL Hukam Singh (JC-726125F), 01 Oct 2005

Subedar DVR MT Jai Singh (JC-726126K), 01 Oct 2005

Subedar DVR MT Ramakant Singh Chauhan (JC-726212Y), 01 Oct 2005

Subedar DVR SPL Samsul Arfin (JC-726180X), 01 Nov 2005

Subedar DVR SPL Pardeep Kumar Ray (JC-726181A), 01 Dec 2005

Subedar DVR MT Sardar Pratap Singh (JC-726223F), 01 Dec 2005

Subedar DVR SPL Desh Ram (JC-726269K), 01 Dec 2005

To be Substantive Subedar SHT

Subedar SH TECH Subash Chander (JC-726053A), 01 Jun 2005

Subedar SH TECH Ruldu Ram (JC-726097A), 01 Aug 2005

Subedar SH TECH Rambir Singh (JC-726096X), 01 Aug 2005

Subedar SH TECH MVS Rao (JC-726182H), 01 Nov 2005

Subedar SH TECH Ajay Kumar Yadav (JC-726183L), 01 Nov 2005

Subedar SH TECH Phalgunan KK (JC-726273M), 01 Nov 2005

To be Substantive Subedar SH GD

Subedar SH GD Kulkarni Sachin Kamdakar (JC-726108F), 01 Apr 2004

Subedar SH GDS Kanaga Raj (JC-725738P), 01 Jun 2005

Subedar SH GD Khushal Prasad Ghasiya (JC-725805P), 01 Jun 2005

Subedar SH GD Ram Shankar Singh (JC-725763N), 01 Jun 2005

Subedar SH GD Gabru Mangoo Jadav (JC-725777N), 01 Jun 2005

Subedar SH GD Anil Kumar K (JC-725940H), 01 Jul 2005

Subedar SH GD Param Hans Ram (JC-725941L), 01 Jul 2005

Subedar SH GD Ramkirpal Choudhary (JC-725978M), 01 Aug 2005

Subedar SH GD Henry Kandulna (JC-725922A), 01 Aug 2005

Subedar SH GD Lakhman Singh (JC-726041N), 01 Aug 2005

Subedar SH GD Adapa Venkata Sesha Giri Rao (JC-725942N), 01 Aug 2005

Subedar SH GD Rajendra Prasad Singh (JC-725923H), 01 Aug 2005

Subedar SH GD Kanhai Kuwar (JC-726042W), 01 Aug 2005

Subedar SH GD Surender Singh (JC-725980K), 01 Aug 2005

Subedar SH GD Prem Pal Singh (JC-725981M), 01 Sep 2005

Subedar SH GD Kul Bhadur Chetry (JC-725943W), 01 Sep 2005

Subedar SH GD Pratap Singh (JC-725924L), 01 Sep 2005

Subedar SH GD Mohamaddin Anshari (JC-726033P), 01 Sep 2005

Subedar SH GD Vivekanda Chandra (JC-725982P), 01 Sep 2005

Subedar SH GD Sant Ram (JC-725944Y), 01 Sep 2005

Subedar SH GD Awadesh Dwebedi (JC-726027F), 01 Sep 2005

Subedar SH GD Shaik Kasim Pera (JC-725945F), 01 Oct 2005

Subedar SH GD Jay Karan Pal (JC-725983X), 01 Nov 2005

Subedar SH GD Bholu Sahu (JC-726043Y), 01 Nov 2005

Subedar SH GD Sasidharan P (JC-726034X), 01 Nov 2005

Subedar SH GD Lav Prasad Pal (JC-725984A), 01 Nov 2005

Subedar SH GD Ram Rup Ram (JC-725985H), 01 Nov 2005

Subedar SH GD Charan Dass (JC-726028K), 01 Nov 2005

Subedar SH GD Govind Ram (JC-725986L), 01 Dec 2005

Subedar SH GD Janak Singh (JC-725977K), 01 Dec 2005

Subedar SH GD Balvader Singh (JC-725946K), 01 Dec 2005

Subedar SH GD Parkash Singh (JC-725987N), 01 Dec 2005

Subedar SH GD Netar Prakash (JC-725988W), 01 Dec 2005

Subedar SH GD Madan Pal (JC-726112K), 01 Dec 2005

To be Substantive Subedar Carp (U)

Subedar Carp (U) Munnalal Sah (JC-725403X), 01 Sep 2005

To be Naib Subedar

Hav AMN Tech Susanta Kumar Santi (No. 6924788H now JC-726840K), 03 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2005 without effect pay & allces)

Hav SKT AMN Swaran Kumar Srivastava (No. 6920777Y now JC-726841M), 22 Apr 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2005 without effect pay & allces)

Hav AMN Tech Naresh Kumar (No. 6927493X now JC-726842P), 05 Jul 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Jul 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk GD Ajay Kumar MG (No. 6928776L now JC-726843X), 02 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 May 2005 without effect pay & allces)

Hav SKT GS&C Nidhu Bhusan Das (No. 6920504W now JC-726844A), 14 Jul 2005*

*(Gtd seniority wef 01 May 2005 without effect pay & allces)

Hav DVR MT Ganesh Prasad Mishra (No. 6916774N now JC-726845H), 01 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Jun 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk Prov M Augustine (No. 6918494Y now JC-726846L), 01 Jul 2005

Hav AMN Tech D Ramule (No. 6927537K now JC-726847N), 01 Jul 2005

Hav Clk Cont Girish Kumar (No. 6918517P now JC-726848W), 01 Jul 2005

Hav Clk Cont D Nabi Rasool (No. 6918518X now JC-726849Y), 01 Jul 2005

Hav Clk Cont Chamman Lal (No. 6918524L now JC-726850N), 01 Aug 2005

Hav Clk Cont Mahendra Singh (No. 6918528F now JC-726851W), 01 Aug 2005

Hav Clk GD Ravinder Kumar (No. 6929477Y now JC-726852Y), 01 Aug 2005

Hav Clk GD Viswa Kumar K (No. 6929492N now JC-726853F), 22 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk Cont Rabin Handique (No. 6918505A now JC-726854K), 01 Aug 2005

Hav Clk Prov Bashti Ram (No. 6916947A now JC-726855M), 01 Aug 2005

Hav SKT GS&C Hardhan Chakraborty (No. 6920868H now JC-726856P), 01 Aug 2005

Hav SKT GS&C Panchu Gopal Bag (No. 6920871H now JC-726857X), 08 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav SKT GS&C Dipak Kumar Biswas (No. 6920873N now JC-726858A), 01 Aug 2005

Hav SKT GS&C Sahadev Singh (No. 6920877K now JC-726859H), 01 Aug 2005

Hav SKT GS&C Hari Shankar Dubey (No. 6920878M now JC-726860X), 12 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav SKT GS&C Pravanjan Haldar (No. 6920880K now JC-726861A), 01 Aug 2005

Hav SKT GS&C Birbal Prasad (No. 6920885H now JC-726862H), 01 Aug 2005

Hav SKT GS&C Pabitra Kumar Maiti (No. 6920886L now JC-726863L), 01 Aug 2005

Hav DVR MT Padmanabhan Moothedath (No. 13886645L now JC-726864N), 01 Aug 2005

Hav SH GD Ugar Sain (No. 6917892N now JC-726865W), 19 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav SH GD BR Patnaik (No. 6917900F now JC-726866Y), 01 Aug 2005

Hav SH GD Vijay Singh (No. 6917954H now JC-726867F), 01 Aug 2005

Hav Clk Cont Nasib Singh (No. 6918510L now JC-726868K), 01 Jul 2005

Hav Clk Cont RP Dubey (No. 6918527Y now JC-726869M), 01 Jul 2005

Hav Clk Cont PK Dash (No. 6918038N now JC-726870F), 01 Aug 2005

Hav Clk Cont Shamsher Singh (No. 6917085Y now JC-726871K), 20 Aug 2005

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk GD Md. HN Prodhan (No. 6929497M now JC-726872M), 01 Aug 2005

Hav Clk Cont Bhoore Singh (No. 6916318H now JC-726873P), 21 Aug 2005

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk Cont Dhurb Kumar Ray (No. 6918017X now JC-726874X), 01 Sep 2005

Hav Clk Cont Bindeshwari Singh (No. 6916195F now JC-726875A), 01 Sep 2005

Hav Clk Cont Satvir Singh (No. 6918539N now JC-726876H), 01 Sep 2005

Hav SKT GS & C M Rahaman Molla (No. 6920876F now JC-726877L), 01 Aug 2005

Hav SKT GS & C Shailendra Prasad Singh (No. 6920881M now JC-726878N), 01 Aug 2005

Hav SKT MT Jai Ram (No. 6920691A now JC-726879W), 01 Sep 2005

Hav SKT GS & C Nihar Kumar Parmanik (No. 6920889Y now JC-726880L), 01 Sep 2005

Hav SKT GS & C Raghunath Ghosh (No. 6920890N now JC-726881N), 01 Sep 2005

Hav DVR MT Mani Lal Ray (No. 6918960H now JC-726882W), 01 Sep 2005

Hav SH GD Ram Tapesha (No. 6917829Y now JC-726883Y), 21 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav SHGD Sawal Singh (No. 6917895F now JC-726884F), 01 Aug 2005

Hav SHGD Raj Kumar Prasad (No. 6917946K now JC-726885K), 01 Aug 2005

Hav SHGD Vidya Prasad (No. 6917960W now JC-726886M), 22 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav AMN Tech Baldev Singh (No. 6928178N now JC-726887P), 25 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav DVR MTR Perumal Swamy (No. 13886630H now JC-726888X), 14 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav SHGD Hari Swaroop (No. 6918210K now JC-726889A), 01 Sep 2005

Hav SKT MT Sukru Kherwar (No. 6916912K now JC-726890P), 01 May 2005

Hav Clk Cont Tersi Yadav (No. 6918372P now JC-726891X), 02 Sep 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk GD Madan Singh Bijrania (No. 6929479K now JC-726892A), 01 Aug 2005

Hav Clk Cont IK Singh (No. 6917486N now JC-726893H), 01 Sep 2005

Hav Clk Cont Narayan Kumar Singh (No. 6918529K now JC-726894L), 01 Sep 2005

Hav Clk Prov Bir Singh (No. 14483579L now JC-726895N), 01 Sep 2005

Hav Clk Cont Jhamman Singh Yadav (No. 6918536A now JC-726896W), 01 Sep 2005

Hav Clk Cont Shamsher Singh (No. 6918537H now JC-726897Y), 01 Sep 2005

Hav Clk Cont MR Yadav (No. 6918538L now JC-726898F), 09 Sep 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Sep 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk Cont Narendra Pratap Singh (No. 6918543W now JC-726899K), 01 Sep 2005

Hav SKT GS & C Ganapati Biswas (No. 6920900M now JC-726900N), 01 Sep 2005

Hav SKT GS & C Laxmi Narayan Mazumdar (No. 6920901P now JC-726901W), 01 Sep 2005

Hav SHGD Radhe Shyam Singh (No. 6917902M now JC-726902Y), 22 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav SHGD Sivalak Singh (No. 6918033P now JC-726903F), 01 Sep 2005

Hav SHGD Ram Vilas Dubey (No. 6918073W now JC-726904K), 02 Sep 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Sep 2005 without effect pay & allces)

Hav SHGD Duli Chand (No. 6918046M now JC-726905M), 14 Sep 2005*

(Gtd seniority wef 01 Sep 2005 without effect pay & allces)

Hav SHGD Rajender Kumar (No. 6918168W now JC-726906P), 01 Sep 2005

Hav DVR Spl Tej Bahadur Singh (No. 6916877M now JC-726907X), 12 Sep 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Jul 2005 without effect pay & allces)

Hav SHGD Kamlesh Kumar Thakur (No. 6918213X now JC-726908A), 01 Sep 2005

Hav SH Tech Baikuntha Nath Sahoo (No. 6918195A now JC-726909H), 22 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav DVR Spl Ramesh Mishra (No. 6918924X now JC-726910X), 01 Aug 2005

Hav SHGD Sadanand (No. 6917011K now JC-726911A), 29 Aug 2005*

*(Gtd seniority wef 01 May 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk Cont Samir Kumar Mondal (No. 6924640K now JC-726912H), 22 Sep 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk GD Chatra Ram (No. 6916471Y now JC-726913L), 01 Aug 2005

Hav Clk Cont Badan Pal Singh (No. 6918347W now JC-726914N), 01 Sep 2005

Hav Carp & JNR Harnam Singh (No. 6918375H now JC-726915W), 01 Sep 2005

Hav SH Tech Paras Nath Singh Yadav (No. 6917951P now JC-726916Y), 26 Sep 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk Cont Rajendran CV (No. 6918535X now JC-726917F), 26 Sep 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Sep 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk Cont Satya Pal Singh (No. 6918000K now JC-726918K), 09 Oct 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk Cont Mohammand Asfaque (No. 6918111F now JC-726919M), 01 Oct 2005

Hav Clk Cont Prakash Chand (No. 6918354M now JC-726920F), 01 Oct 2005

Hav Clk Cont Asis Mazumdar (No. 6918545F now JC-726921K), 28 Nov 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk Cont Raja Moni T (No. 6918554H now JC-726922M), 01 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk Cont Virendra Singh (No. 6918555L now JC-726923P), 01 Nov 2005

Hav Clk Cont Madan Kishore Singh (No. 6918557W now JC-726924X), 01 Nov 2005

Hav Clk Cont Anil Kumar Jaiswal (No. 6918563K now JC-726925A), 01 Nov 2005

Hav Clk Cont Ramesh Kumar (No. 6918564M now JC-726926H), 01 Nov 2005

Hav Clk Cont Tapas Kumar Dutta (No. 6918565P now JC-726927L), 14 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay & allces)

Hav Clk Cont Hazari Prasad Yadav (No. 6918568H now JC-726928N), 05 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay & allces)

Hav SKT MT Sasidhar Yakkar (No. 6917837X now JC-726929W), 01 Oct 2005

Hav AMN Tech Manoj Kumar Tiwari (No. 6929742K now JC-726930L), 01 Oct 2005

Hav SKT GS & C Rawal (No. 6927661L now JC-726931N), 07 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2005 without effect pay & allces)

Hav SKT MT D Sekar (No. 6920906N now JC-726932W), 08 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT MT Girdhari Singh N (No. 6920907W now JC-726933Y), 01 Oct 2005

Hav AMN Tech Gajadhar (No. 6928176H now JC-726934F), 03 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT MT Tejbir Singh (No. 6920909F now JC-726935K), 01 Oct 2005

Hav SKT MT Iyppunny EC (No. 6920913K now JC-726936M), 01 Oct 2005

Hav SKT MT Shekar Singh (No. 6920929P now JC-726937P), 01 Nov 2005

Hav SKT MT Chandra Bhan Singh (No. 6920914M now JC-726938X), 01 Oct 2005

Hav SKT MT Babu S (No. 6920920A now JC-726939A), 14 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT MT Ramji Singh (No. 6920938W now JC-726940P), 06 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT MT Om Prakash (No. 6920947X now JC-726941X), 01 Nov 2005

Hav SKT MT Giryalkar Baswa (No. 6920905L now JC-726942A), 01 Oct 2005

Hav SKT Engr Ishwar Dass (No. 6919679M now JC-726943H), 19 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav SH Tech Asim Kumar Ghosh (No. 6916231F now JC-726944L), 01 Nov 2005

Hav SH Tech GN Pillai (No. 6918232H now JC-726945N), 01 Nov 2005

Hav SH Tech Hurda Nanda Malik (No. 6918273M now JC-726946W), 01 Nov 2005

@ (JC-726947Y allotted for RT JCO)

Hav AMN Tech Birender Singh (No. 6929678X now JC-726948F), 01 Oct 2005

Hav AMN Tech Pankaj Kumar Mishra (No. 6929801L now JC-726949K), 12 Jan 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont Chhedi Singh (No. 6916431X now JC-726950Y), 08 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont Shamsher Singh (No. 6918547M now JC-726951F), 23 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont Atish Dipankar ASH (No. 6918551P now JC-726952K), 01 Nov 2005

Hav Clk Cont Abraham George (No. 6918553A now JC-726953M), 04 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont Dharambir Singh (No. 6918556N now JC-726954P), 01 Nov 2005

Hav Clk Cont Anil Kumar A (No. 6918559F now JC-726955X), 04 Jan 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont Mohan Lal (No. 6918576F now JC-726956A), 07 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk GD Puskar Chand Swain (No. 6918663P now JC-726957H), 01 Feb 2006

Hav Clk Cont Udai Singh (No. 6927222A now JC-726958L), 21 Sep 2005

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT MT Girish Chandra (No. 6919216X now JC-726959N), 01 Oct 2005

* Hav SKT MT Krishan Pal Singh (No. 6920930K now JC-726960H), 14 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT MT Daya Shankar (No. 6920941W now JC-726961L), 01 Nov 2005

Hav DVR MT VA Tilanji (No. 6916321H now JC-726962N), 14 Jan 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav DVR MT Ram Niwas (No. 6919049M now JC-726963W), 01 Oct 2005

Hav SH Tech Vinod Kumar Yadav (No. 6917947M now JC-726964Y), 01 Oct 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2005 without effect pay and allces).

Hav SHGD Bhikki Ram (No. 6916039X now JC-726965F), 01 Oct 2005

Hav SHGD Gain Chand (No. 6917749F now JC-726966K), 03 Jan 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav SHGD Balwant Singh (No. 6917770K now JC-726967M), 04 Jan 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav SHGD Karan Singh (No. 6917967A now JC-726968P), 01 Sep 2005

Hav SHGD Surender Kumar Tiwari (No. 6918034X now JC-726969X), 01 Oct 2005

Hav SHGD K Devarju Reddy (No. 6918048X now JC-726970M), 01 Oct 2005

Hav SHGD Madhav BT (No. 6918139F now JC-726971P), 01 Nov 2005

Hav SHGD Hari Ram Ahirwar (No. 6918183L now JC-726972X), 01 Nov 2005

Hav SHGD Mandranjan Dhal (No. 6918198N now JC-726973A), 01 Nov 2005

Hav SHGD Ravinder Kumar (No. 6918257P now JC-726974H), 04 Jan 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav SHGD Damu Ram CB (No. 6918260P now JC-726975L), 01 Dec 2005

Hav SHGD Deva Kumar P (No. 6937390M now JC-726976N), 01 Jan 2006

Hav AMN Tech Mahendra Singh (No. 6928155M now JC-726978Y), 15 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav AMN Tech Joginder Singh (No. 6928242A now JC-726979F), 07 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav AMN Tech MK Mallick (No. 6929695X now JC-726980W), 13 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav AMN Tech VP Singh (No. 6929788M now JC-726981Y), 16 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont Binay Kumar (No. 6918552X now JC-726982F), 01 Nov 2005

Hav Clk Cont Moti Ram (No. 6918572L now JC-726983K), 08 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont CP Pal (No. 6918584A now JC-726984M), 11 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont PG Mondal (No. 6918588W now JC-726985P), 13 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont SA Khan (No. 6918590N now JC-726986X), 19 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont V Sajwal (No. 6918591W now JC-726987A), 24 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont Dayanand (No. 6918592Y now JC-726988H), 24 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 17 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont MK Srivastav (No. 6918602Y now JC-726989L), 01 Jan 2006

Hav Clk Cont Ram Chander (No. 6918512F now JC-726990A), 01 Jan 2006

Hav Clk Cont Azad Singh (No. 6918613K now JC-726991H), 01 Jan 2006

Hav Clk Prov Raghmani Nayak (No. 6918621H now JC-726992L), 01 Jan 2006

Hav Clk Cont Vijay Kumar Swain (No. 6918622L now JC-726993N), 24 Jan 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont PP Puhan (No. 6918624W now JC-726994W), 14 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont SK Rout (No. 6918623N now JC-726995Y), 01 Jan 2006

Hav Clk Cont Vijayi Ram (No. 6918634A now JC-726996F), 01 Jan 2006

Hav Clk CD A Govinda Samy (No. 6918643F now JC-726997K), 11 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk GD AK Yadav (No. 6918648A now JC-726998M), 04 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont BK Tiwari (No. 6918635H now JC-726999P), 01 Feb 2006

Hav Clk Cont R Thakuar (No. 1075668F now JC-727000W), 01 Feb 2006

Hav Clk GD AK Jena (No. 6918671N now JC-727001Y), 01 Feb 2006

Hav Clk Prov Surender Singh (No. 6918674F now JC-727002F), 20 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Prov Shri Krishan (No. 6918681X now JC-727003K), 01 Feb 2006

Hav Clk GD Pitam Singh (No. 6918687Y now JC-727004M), 15 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk GD GS Kurup (No. 6918725K now JC-727005P), 01 Mar 2006

Hav Clk GD MK Joshi (No. 6927437Y now JC-727006X), 01 Aug 2005

Hav SKT MT BK Parida (No. 6919644W now JC-727007A), 28 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav SKT Engr RCS Verma (No. 6919791Y now JC-727008H), 01 Oct 2005*

*(Gtd seniority wef 13 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT Sig CBT Rao (No. 6920382X now JC-727009L), 08 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT MTP Patil (No. 6920925Y now JC-727010A), 25 Jan 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT MT VD Brijwasi (No. 6920935H now JC-727011H), 15 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT MT Ashok Kumar (No. 6920948A now JC-727012L), 08 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT MT G Shahi (No. 6920962M now JC-727013N), 01 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav SKT MTR K Singh (No. 6920965A now JC-727014W), 20 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav SKT MT RK Kushwaha (No. 6920949H now JC-727015Y), 01 Dec 2005

Hav SKT GS & C Sugriv Singh (No. 6920997H now JC-727016F), 20 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav SKT MTP Sahoo (No. 6921009K now JC-727017K), 16 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2006 without effect pay and allces).

Hav DVR SPLPK Doloi (No. 6917227L now JC-727018M), 11 Jan 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav DVR MT HR Mohanta (No. 6919030N now JC-727019P), 01 Dec 2005

Hav DVR MT SSK Hatekar (No. 6919037X now JC-727020K), 28 Jan 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2005 without effect pay and allces).

Hav DVR MT Prabasi Samal (No. 6919091L now JC-727021M), 01 Dec 2005

Hav DVR MT SD Prasad (No. 6919101K now JC-727022P), 01 Dec 2005

Hav DVR MT RT Hlima (No. 13886620Y now JC-727023X), 01 Nov 2005

Hav SHGD Dulu Borah (No. 6917980K now JC-727024A), 17 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 18 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav SHGD M Logan (No. 6918030F now JC-727025H), 01 Dec 2005

Hav SHGD Rajendra Mandal (No. 6918166L now JC-727026L), 17 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav SH GD Baxa Ram (No. 6918272K now JC-727027N), 01 Dec 2005

Hav SH GD TB Chhetri (No. 6918342X now JC-727028W), 20 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav SH GD Joseph Devasia (No. 6918417K now JC-727029Y), 01 Feb 2006

Hav ER (U) Karunakaran PV (No. 6920390W now JC-727030N), 06 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont THS Ajay Pal Singh (No. 6918579P now JC-727031W), 01 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont Mohanan Nair (No. 6918582P now JC-727032Y), 27 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT AMN BM Swain (No. 6920952H now JC-727033F), 21 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav AMN Tech Mahadev Pan (No. 6928164N now JC-727034K), 06 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav AMN Tech Alangovan K (No. 6928284M now JC-727035M), 01 Mar 2006

Hav AMN Tech PC Mohanty (No. 6929696A now JC-727036P), 01 Dec 2005

Hav AMN Tech Braj Pal (No. 6928187P now JC-727037X), 01 Dec 2005

Hav SH Tech Raghubir Singh (No. 6917952X now JC-727038A), 01 Jan 2006

Hav SKT AMN LP Pant (No. 6921071W now JC-727039H), 01 Apr 2006

Hav AMN Tech RP Singh (No. 6929622L now JC-727040X), 01 Apr 2006

Hav SKT MT Krishan Lal (No. 6920961K now JC-727041A),
28 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and
allces).

Hav SKT MT Lalta Prasad (No. 6920991F now JC-727042H),
01 Jan 2006

Hav SKT GS&CAK Singh (No. 6921021L now JC-727043L),
01 Feb 2006

Hav SKT MT KCR Swamy (No. 6921024Y now JC-
727044N), 14 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2006 without effect pay and
allces).

Hav SKT AMN Shiv Kumar (No. 6921054W now JC-
727045W), 01 Mar 2006

Hav SKT AMN Harendra Babu (No. 6921057K now JC-
727046Y), 18 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and
allces).

Hav SKT AMN S Pandey (No. 6921059P now JC-727047F),
01 Apr 2006

Hav SKT GS&C BK Senapati (No. 6921007Y now JC-
727048K), 21 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2006 without effect pay and
allces).

Hav SKT AMN P Upadhyay (No. 6921079H now JC-
727049M), 01 Apr 2006

Hav Clk Prov VS Talan (No. 14483622F now JC-727050F),
15 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and
allces).

Hav Clk Prov SS Chauhan (No. 6918580K now JC-727051K),
01 Dec 2005

Hav Clk Cont JN Yadav (No. 6918583X now JC-727052M),
01 Dec 2005

Hav Clk GD MD Akbar (No. 6918645M now JC-727053P),
01 Feb 2006

Hav Clk Cont Bikram Singh (No. 6918586L now JC-
727054X), 01 Dec 2005

Hav Clk Prov Rajbir Singh (No. 6918604H now JC-
727055A), 01 Jan 2006

Hav Clk Cont RA Sharma (No. 6918609F now JC-727056H),
01 Jan 2006

Hav Clk Prov RRP Yadav (No. 6918706Y now JC-727057L),
01 Feb 2006

Hav Clk GD KS Kashyap (No. 6918716H now JC-727058N),
01 Mar 2006

Hav Clk Prov Ramji Ram Gore (No. 6918720L now JC-
727059W), 03 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and
allces).

Hav Clk GD V Sivaprakasham (No. 6918723Y now JC-
727060L), 01 Mar 2006

Hav Clk GD B Vishwanagthan (No. 6918732A now JC-
727061N), 01 Mar 2006

Hav Clk Prov Ishwar Singh (No. 6918752N now JC-
727062W), 01 Mar 2006

Hav Clk Prov Suresh Kumar (No. 6918754Y now JC-
727063Y), 12 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and
allces).

Hav Clk GD VK Dwivedi (No. 6918759X now JC-727064F),
01 Mar 2006

Hav Clk Prov RS Singh (No. 6918760M now JC-727065K),
18 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and
allces).

Hav Clk Prov Govind Chand (No. 6918763A now JC-
727066M), 20 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and
allces).

Hav Clk Prov JP Yadav (No. 6918765L now JC-727067P),
27 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and
allces).

Hav Clk Prov Lakhbir Singh (No. 6918769F now JC-
727068X), 01 Mar 2006

Hav Clk GD Rajendra Kumar (No. 6918734L now JC-
727069A), 01 Mar 2006

Hav Clk GD PK Nath (No. 6918751L now JC-727070P),
20 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and
allces).

Hav Clk Prov RB Pandit (No. 6918761P now JC-727071X),
25 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and
allces).

Hav Clk GD RN Yadav (No. 6918822F now JC-727072A),
01 Apr 2006

Hav Clk Prov Madan Lal (No. 6918770W now JC-727073H),
01 Apr 2006

Hav Clk Prov Desh Raj (No. 6918779L now JC-727074L),
01 Apr 2006

Hav Clk GD Prakash Chand (No. 6918810M now JC-727075N), 01 Apr 2006

Hav Clk GD PK Swain (No. 6918814H now JC-727076W), 03 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk GD RK Singh (No. 6918830H now JC-727077F), 10 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk GD Om Prakash Sewda (No. 6918857X now JC-727078F), 19 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk GD Randheer Singh (No. 6918860X now JC-727079K), 01 Apr 2006*

Hav SH Tech Shripal Singh (No. 6918387X now JC-727080Y), 13 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav SH GD S Nithianandan (No. 6915922F now JC-727081F), 10 Apr 2006

Hav SH GD Mohan Singh (No. 6918321F now JC-727082K), 27 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav SH GD Umesh (No. 6918422P now JC-727083M), 01 Feb 2006*

Hav TLR (U) Layak Singha (No. 6918484P now JC-727084P), 01 Mar 2006

Hav TLR (U) HR Mishra (No. 6919382L now JC-727085X), 01 Apr 2006

Hav ER (U) Bhanu Pratap (No. 6920357Y now JC-727085A), 06 Jan 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2005 without effect pay and allces).

Hav Clk GD Abdul Hannan (No. 1567680W now JC-727087H), 01 May 2006

(@JC-727088L and JC-727089W allotted for RT JCOs)

Hav AMN Tech SS Rathore (No. 6926264A now JC-727090H), 01 Jun 2006

Hav AMN Tech Ram Phal (No. 6929645M now JC-727091L), 10 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2006 without effect pay and allces).

Hav AMN Tech Ram Niwas (No. 6929660F now JC-727092N), 01 Jun 2006

Hav Clk Cont Biju Thomas (No. 6918562F now JC-727093W), 13 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 10 Apr 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Cont TK Ghosh (No. 6918570A now JC-727094Y), 26 May 2006*

*(Gtd seniority wef 01 May 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Prov Sahandra Kumar (No. 6918809X now JC-727095F), 16 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Prov AK Mohanty (No. 6918861A now JC-727096K), 01 Apr 2006

Hav Clk Prov Sarbeswar Rout (No. 6918862H now JC-727097M), 17 May 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Prov MK Mohapatra (No. 6918863L now JC-727098P), 01 Apr 2006

Hav Clk Prov JP Pandey (No. 6918864N now JC-727099X), 01 Apr 2006

Hav Clk Prov Mohan Marandi (No. 6918866Y now JC-727100F), 01 July 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk GD Amar Singh (No. 6918867F now JC-727101K), 26 May 2006*

*(Gtd seniority wef 01 May 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk GD MS Rathore (No. 6918869M now JC-727102M), 01 June 2006*

*(Gtd seniority wef 01 May 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Prov Pushpendra Kumar (No. 6918870F now JC-727103P), 15 June 2006*

*(Gtd seniority wef 01 May 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk GD Santosh Kumar Singh (No. 6918895N now JC-727104X), 08 June 2006*

*(Gtd seniority wef 01 May 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Prov Jaipal (No. 6918899K now JC-727105A), 01 May 2006

Hav Clk Prov GV Narayan (No. 6918902Y now JC-727106H), 01 May 2006

Hav Clk Prov Shankar Patil (No. 6918903F now JC-727107L), 01 May 2006

Hav Clk Prov NS Nadaf (No. 6918907X now JC-727108N), 23 June 2006*

*(Gtd seniority wef 01 May 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Prov Bir Pal Singh (No. 6918909H now JC-727109W), 01 May 2006*

Hav Clk GD SK Rai (No. 6918911A now JC-727110L), 01 June 2006

Hav Clk GD SP Singh (No. 6918912H now JC-727111N), 29 June 2006*

*(Gtd seniority wef 01 June 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk GD Shisupal Singh (No. 6918914N now JC-727112W), 01 June 2006

Hav Clk GD Nainu Singh (No. 6918915W now JC-727113Y), 01 June 2006

Hav Clk GD SK Choudhary (No. 6918918K now JC-727114F), 09 June 2006*

*(Gtd seniority wef 01 June 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk Prov Dar Dattatray (No. 6918916Y now JC-727115K), 01 June 2006

Hav Clk GD OmPrakash (No. 6918922M now JC-727116M), 01 June 2006

Hav Clk GD Banwari Lal (No. 6918926H now JC-727117P), 12 June 2006*

*(Gtd seniority wef 01 June 2006 without effect pay and allces).

Hav Clk DC Sarawat (No. 6918931N now JC-727118X), 01 June 2006

Hav Clk GD OmPrakash (No. 6918984M now JC-727119A), 01 Aug 2006

Hav SKT GS&C CK Das (No. 6920517N now JC-727120P), 13 May 2006*

*(Gtd seniority wef 01 May 2006 without effect pay and allces).

Hav SKT MT PC Chakraborty (No. 6920954N now JC-727121X), 20 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2006 without effect pay and allces).

Hav SKT MTRS Rathore (No. 6920943F now JC-727122A), 07 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

Hav SKT AMN Ram Snehi Singh (No. 6921025F now JC-727123H), 01 Mar 2006

Hav SKT AMN B Prasad (No. 6921030M now JC-727124L), 25 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and allces).

Hav SKT AMN ACK Singha (No. 6921080M now JC-727125N), 09 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2006 without effect pay and allces).

Hav SKT GS&C Suresh Singh (No. 6921044M now JC-727126W), 16 May 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and allces).

Hav SKT AMN Sujit Nath (No. 6921081A now JC-727127Y), 31 May 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2006 without effect pay and allces).

Hav SKT AMN FZ Laskar (No. 6921084N now JC-727128F), 10 June 2006*

*(Gtd seniority wef 01 May 2006 without effect pay and allces).

Hav SKT MT DS Barbuinya (No. 6921090F now JC-727129K), 24 May 2006*

*(Gtd seniority wef 01 May 2006 without effect pay and allces).

Hav SKT MT Sumer Singh (No. 6923662W now JC-727130Y), 02 June 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jun 2006 without effect pay and allces).

Hav SHGD Jagan Nath (No. 6917760A now JC-727131F), 01 July 2006*

*(Gtd seniority wef 01 June 2006 without effect pay and allces).

Hav SHGD Rajeshwar Thakur (No. 6917985H now JC-727132K), 01 June 2006

Hav SHGD Chander Shekhar (No. 6918441A now JC-727133M), 01 Mar 2006

Hav SHGD Shitala Sharan (No. 6918444N now JC-727134P), 01 Mar 2006

Hav SHGD Gopal Chander G (No. 6918455A now JC-727135X), 23 June 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and allces).

Hav SHGD Gulab Singh (No. 6918449M now JC-727136A),
05 June 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and allces).

Hav SHGD Panchannan Singh (No. 6918466M now JC-727137H), 03 Mar 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and allces).

Hav SHGD Laxman Singh (No. 6918469A now JC-727138L),
12 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2006 without effect pay and allces).

Hav SHGD Jaya Raj S (No. 6918907A now JC-727139N),
10 June 2006*

*(Gtd seniority wef 01 May 2006 without effect pay and allces).

Hav PTR (U) Haldar Singh (No. 6917987N now JC-727140H), 16 May 2006*

*(Gtd seniority wef 01 May 2006 without effect pay and allces).

Hav PTR (U) S Narsingha Rao (No. 6929883Y now JC-727141L), 01 June 2006

Hav OLP Govind Singh (No. 6917936A now JC-727142N),
08 July 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jul 2006 without effect pay and allces).

Hav TLR (U) Gautam Haldar (No. 6919411P now JC-727143W), 01 May 2006*

Hav ER (U) Ajay Kumar (No. 6921442N now JC-727144Y),
01 June 2006

Hav SHGD Dharam Gurjar (No. 6918192M now JC-727145F), 01 June 2006

Hav Clk GD Balwant Singh (No. 6918925A now JC-727146K), 01 June 2006

Hav DVR MTMDE Kabir Biswas (No. 6919469M now JC-727147M), 01 June 2006

Hav DVR MT Yogendra Singh (No. 6919675W now JC-727148P), 01 Aug 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Jun 2006 without effect pay and allces).

ARMY ORDNANCE CORPS

To be Sub Musician

Substantive Subedar (Musn) DD Pandhre (JC-298699F),
19 July 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Jul 2005 without effect pay and allces).

ARMY ORDNANCE CORPS

To be Sub Major Religious Teacher (Pandit)

Substantive Subedar Major (Pandit) Hari Shankar Dwivedi
(JC-103776N), 15 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2005 without effect pay and allces).

ARMY ORDNANCE CORPS

To be Sub Religious Teacher (Pandit)

Substantive Subedar (Pandit) Sitaram (JC-722782N),
01 June 2006*

*(Gtd seniority wef 06 Dec 2005 without effect pay and allces).

Substantive Subedar (Pandit) JN Mishra (JC-723019X),
17 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2006 without effect pay and allces).

Substantive Subedar (Pandit) Raj Kumar Mishra (JC-723018P), 01 Aug 2006

REGULAR ARMY

SPECIAL LIST

ARMY ORDNANCE CORPS

To be Naib Sub Religious Teacher (Pandit)

JC-Naya Nb Sub RT (Pandit) AK Pandey now JC-726947Y),
30 July 2005*

JC-Naya Nb Sub RT (Pandit) Umesh Prasad Pandey (now
JC-726977W), 16 Jan 2005

N.K. KASHMIRA
Under Secy.

No. 618, dated 21st November 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

(Col & equivalent) to be Brig & equivalent

YD Singh (MR-04088-M), 04 Aug 2006—with notional seniority without effect on pay & pension from 03 May 2005.

Lt Col (& equivalent) to be Col (& equivalent)

Yash Pande (MR-03775-W), 05 Aug 2006—with notional seniority without effect on pay & pension from 01 May 2004

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS (P)

No. 619, dated 20th November 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
Maj to Lt Col

IC-No., Name & Arm

JC-31846 D. K. Srivastava, Arty

JC-40143 Satish Sharma, Int

JC-41581 Arvind Yadav, M/Inf

JC-43692 Sushil Rana, Mech Inf

JC-45327 Harinder Singh, AC

JC-45421 Vivek Madhav Nikte, ASC

JC-45740 Koharwal Kamal, Inf

JC-46684 Jitender Bhakar, ASC

JC-48341 Shamsher Singh Mehar, AOC

—16 Dec 2004

JC-46963 Hvydyanathan, Inf

—22 Oct 2005

JC-48775 Devinder Singh Dalal, ASC

—10 Jun 2006

JC-51545 Rajul Rathi, ASC

—19 Dec 2005

JC-53088 Ashwani Dutt, EME

JC-53114 Perugu Vinod Kumar, Sigs

—14 Jun 2005

JC-54746 Praveen Kumar Singh, Engrs

JC-54770 Gupte Mahesh Amalkant, Inf

JC-54818 Sudeep Singh Sahi, Inf

—21 Apr 2006

JC-54743 Mukesh Kumar Hooda, Inf

JC-54744 Naresh Kumar Kanotra, Sigs

JC-54745 Vinod Dahiya, EME

JC-54747 Anand PS, Inf

JC-54748 Narendra Bahadur, Arty

Jc-54749 Manvendra Singh, AC

JC-54750 Raghuvender Kumar Yadav, AOC

JC-54752 Sanil Damodaran, Inf

JC-54754 Sudesh Razora, M/Inf

JC-54755 Jayaraman Nambiar, Arty

JC-54756 Ramavtar, EME

JC-54757 Navneet Pathania, Engr

JC-54758 Narendra Yadav, ASC

JC-54759 Kane Vivek Dileep, AD/Arty

JC-54760 Dharam Veer Singh Yadav, Engr

JC-54761 Vijay Pal Singh Malik, JAG

JC-54762 Pramod Kumar Barthwal, ASC

JC-54763 Bharti Kant Shukla, EME

JC-54765 Rakesh Karwasra, AC

JC-54766 Sandeep Goswami, ASC

JC-54767 AR Harish, Inf

JC-54768 Gaurav Bagga, Inf

JC-54769 Shailender Sharma, AC

JC-54771 Suneel, AOC

JC-54773 Anshuman, Inf

JC-54774 Ravi Doosaj, AOC

JC-54775 Piyush Verma, AD/Arty

JC-54776 Parashare Anirudha Anant, Inf

JC-54777 Nanda Ballabh, Inf

JC-54778 Chakradhar Sahoo, ASC

JC-54779 Kuldeep Singh Jakhar, ASC

JC-54780 Sukhdeo Singh, AOC

JC-54781 Sumit Rana, AC

JC-54782 Hari Prasad Arora, Arty

JC-54783 Vijay Moorthy, ASC

JC-54784 Parimi Naga Kiran Babu, AOC

JC-54785 Kishan Singh, Arty

JC-54786 Ashok Rana, Inf

JC-54787 Anurag Mehra, Arty

JC-54788 Partha Pratim Sen, EME

JC-54789 Manish D Natu, Sig

JC-54791 R Sivadas, AC

JC-54792 Neeraj Sharma, Inf

JC-54794 Shamsheer Singh, Inf	JC-54840 Anup Avasthi, AC	
JC-54795 Mukul Satya Gupta, AC	JC-54841 Manu Mohan, Arty	
JC-54796 Mohinder Singh Yadav, ASC	JC-54842 Sagar Dhurba Rai, AC	
JC-54797 Yadvinder Singh Mann, AC	JC-54845 Ratnakar Trivedi, Inf	
JC-54798 Sanjay Mothey, Inf	JC-54846 Rajiv Sharma, AC	
JC-54799 Shatru Mardhan Bharti, Ad/Arty	JC-54847 Akash Sood, Inf	
JC-54800 Jagmohan Singh, ASC	JC-54849 Subhendu Mitra, Arty	
JC-54801 Birender Singh Rawat, Arty	JC-54850 Johnny Thomas, ASC	
JC-54803 Satendu Mahajan, Inf	JC-54851 Daveshe Bahukhandi, Inf	
JC-54804 Subodh Thapliyal, AC	JC-54852 Sarabjit Singh, AOC	
JC-54805 Ajit Singh, AOC	JC-54853 Yashwant Singh, EME	
JC-54806 TS Muralidharan, AOC	JC-54854 Dharendra Singh Verma, Arty	
JC-54807 Pradyumna Singh Banafar, Arty	JC-54855 Neeraj Mohey, AC	
JC-54808 Arun Kumar Rai, AC	JC-54856 L Balasubramanian, ASC	
JC-54809 Manjinder Singh Guram, AC	JC-54857 A Srinivas, Inf	
JC-54810 Rejendra Singh Dhankhar, ASC	JC-54858 Rajesh Mohan Sharma, AOC	
JC-54812 Bobby PG Singh, AC	JC-54859 Rajesh Maliwal, ASC	
JC-54813 Dharmendra Pandey, Inf	JC-54861 Parveen Kumar Ahuja, ASC	
JC-54814 Subhash Gadigeppa Ghodageri, Arty	JC-54863 Lalit Mohan, Inf	—21 Apr 2006
JC-54815 Kulbir Singh, Arty	JC-54864 Mahadev C, Int	
JC-54816 D Vijay Bhaskar, ASC	JC-46003 Om Prakash Parswan, Engrs	—22 Apr 2006
JC-54817 Arun Kumar Sharma, Engrs	JC-53864 Chaudhari Rahul Dnyaneshwar, EME	
JC-54819 Vijay Surendrapal, Eng	JC-53865 Hundekar Sabir Hussain Ibrahim, EME	
JC-54820 Abhishek Nirvan, ASC	JC-53866 Suhail Zaidi, Sigs	
JC-54821 Pratap Chandra Nayak, AOC	JC-53867 Munish Bhagi, Engrs	
JC-54822 Harbans Singh, EME	JC-53869 Paramjit Singh Jyoti, Engrs	
JC-54823 Vasant Setty Srinivas, AOC	JC-53870 Rajiv Srivastava, Engrs	
JC-54825 Ashish Mangrulkar, Engr	JC-53871 Rajesh Sharma, Sigs	
JC-54826 Biju Paul, ASC	JC-53872 Rajiv Kaushik, Engrs	
JC-54827 Anil Yadav, Inf	JC-53874 S Ganesh, EME	—13 Jun 2006
JC-54830 Sidhu George K, JAG	JC-53084 Matam Mallikarjuna Swamy, Engrs	
JC-54832 Daniel Varghese, Inf	JC-53110 Pradeep Gairola, Engrs	
JC-54833 Amitabh Banarjee, AOC	JC-53111 Darshan S, Engrs	
JC-54834 Sanjay Chhikara, Arty	JC-53112 Nagendra Kumar Chaturvedi, Engrs	—14 Jun 2005
JC-54835 PV Kumar, Inf	JC-52270 Sudarshan Bhattacharya, Sigs	—12 Jun 2006
JC-54836 Prabir Kanungo, Arty		
JC-54838 Naresh Kumar Bishnoi, AC		SHIV RAM BAIRWA
JC-54839 Stanley James, AOC		Dy. Dir
		MS 8C

AIR FORCE

No. 620, dated 21 November 2006.—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

INDIAN AIR FORCE

F (P) BRANCH

WG CDR TO BE SUBSTANTIVE GROUP CAPTAIN
(TIME SCALE)

P Singh (14694), 16 December 2004

P K Raghavan (15862), A Singh (15864), R Mata (15870),
A S Rao (15879), P Bhuyan (15880), S Dwivedi (15885),
R C Soni (15893), J S Panesar (15895), C K Vyas (15897),

w.e.f. 14 Dec 05

ADM BRANCH

VS Kochak (15888),

w.e.f. 14 Dec 05

F (P) BRANCH

PK Iyer (16041), S Kaul (16046), S K Nair (16066),
R Dikshit (16073), S S Dholiya (16091),

w.e.f. 15 Jun 06

AE (M) BRANCH

RP Singh (15649),

w.e.f. 01 Jul 05

AE(M) BRANCH

K Natarajan (16170), I P Sharma (16173), N Sharma
(16174),

w.e.f. 06 Jul 05

AE (L) BRANCH

K Nath (16156), A K Pathak (16162), S Kapoor (16163),
A K Rai (16175),

w.e.f. 06 Jul 05

AE (M) BRANCH

SP Anand (16323),

w.e.f. 04 Jan 06

AE (L) BRANCH

KS Mathur (16313), T Sankaran (16316),

w.e.f. 04 Jan 06

AE (M) BRANCH

VS Chary (16539), GTS Rao (16543),

w.e.f. 09 Aug 06

AE (L) BRANCH

S Bhatia (16534), K S Jagannath (16535),

w.e.f. 09 Aug 06

ADM BRANCH

R Ranjan (14393), R K Verma (14394), K Thakur (14404),
w.e.f. 01 Jul 05

F (N) BRANCH

G Bose (15900),

F (N) BRANCH

w.e.f. 14 Dec 05

ADM BRANCH

MP Singh (14741),

w.e.f. 01 Jul 05

ADM BRANCH

GS Dash (15344),

w.e.f. 01 Jul 05

ADM BRANCH

A Kumar (15905), A K Maini (15912), S N Sinha (15917),
D K Tanwar (15918),

w.e.f. 14 Dec 05

ADM BRANCH

R Ganesh (16103), R Singhal (16105), S K Sharma (16106),
S V Pai (16107), SK Das (16108), N Bhardwaj (16110),

w.e.f. 15 Jun 06

LGS BRANCH

BC Karak (16116), J K Chakraborty (16117), S K Sinha
(16118), A L Hangal (16121), P K Panja (16125), S K Mishra
(16126),

w.e.f. 15 Jun 06

F (P) BRANCH

PR Shukla (15683), N S Subhlok (15687), A Bhakoo
(15689), S K Chakravarty (15707), K S Sangari (15712),
V Gigoo (15720), S V Vidwans (15722), S Singh (15724),
P Jacob (15725),

w.e.f. 15 Jun 05

ADM BRANCH

R Nagarajan (15741), G Saxena (15744), K Shukla (15746),
H R Janakiram (15747), H Latif (15749),

w.e.f. 15 Jun 05

LGS BRANCH

GK Johri (15757), A S Srivastava (15760),

w.e.f. 15 Jun 05

ACCTS BRANCH

DK Budhiraja (15765), P S James (15767),

w.e.f. 15 Jun 05

F (P) BRANCH

Fg Offr to be substantive Flt Lt

AB Kolhe (27712),

w.e.f. 20 Dec 2005

AE (M) BRANCH

Sqn Ldr to be substantive Wg Cdr

J Jaikish (22427), Manish Vaish (22436),

w.e.f. 04 Apr 2005

Mistry RJ (22422), M Sharma (22358), S Rajesh (22357), SJ Benoy (22368), SC Govindarajan (22364), PK Dey (22369), PK Dey (22362), R Saha (22374), N Anantha Rangan (22356), SP Kanwalker (22361), MK Praveen (22373), RS Nagaraj (22371), MK Sharma (22385), A Chakradharam (22375), VNS Bhamithipathi (22376), KRV Krishnan (22359), KA Thomas (22370), SK Lalwani (22380), JS Shetty (22372), N Moonak (22367), wef

—04 April 2005

AE (L) Branch

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

S Chabra (22391), NN Kshirsagar (22408), SS Sud (22409), P Kumar (22381), VS Kale (22388), S Lakshminarasimhan (22396), R Rajesh (22398), RK Yadav (22407), SS Kumar (22330), A Kunnath (22417), HC Dantale (22411), S Verma (22384), PG Setia (22420), SSK Prasad (22379), R Verma (22404), S Dhaga (22383), RR Deshmukh (22394), G Ananth (22415), AK Jha (22021), A Sawhney (22419), JKN Baradia (22406), R Srivastava (22389), Minhas JS (22428), RJ Atre (22399), Lakhpat Singh (22425), SS Mishra (22385), S Mathews (22413), S Wadhwa (22421), PK Subbaiah (22392), S Guptan (22395), NR Ravi (22413), RK Goparaju (22403), YK Mohan (22401), PM Riyaz (22059), BB Pillai (22393), D Singh (22400), B Singh (22397), Sandhu RS (22423), A Sinha (22377), S Mishra (22387), KN Venkatesh (22414), KV Suresh Babu (22388), VR Santosh (22390), wef

—04 April 2005

AE (M) BRANCH

Wing Commander to be Substantive GP Capt (TS)

SK Agarwal (15967), GK Chaudhary (15966),

—w.e.f. 05 Jan 2005

P Bhatia (13842), D Magon (14188), HC Chaudhry (14354), A Pandey (14606), SBM Tippannavar (15075), R Malhotra (15484), SM Kulkarni (15483), MS Rana (15642), PN Selva Nadan (15076), PR Dewan (15261), JA Rajendran (15641), MN Khati (15482), R Natarajan (15469), MR Sarkar (15639), —w.e.f. 16 Dec 2004

AE (M) BRANCH

Squadron Leader to be substantive Wing Commander

M Murugan (20228),

—w.e.f. 13 Mar 2005

KY Jojo (21119), BS Bhati (19741), H Singh (18711), H Vasu (18542), A Chopra (18494), S Prasad (18519), MA Khan (18445), PC Pandey (18528), B Singh (18441), R Kumar (18442), J Manacherry (18526), OP Singh (18514), CR Vaidyanathan (18530), D Sriram (18458), P Venugopal (18533), A Golla (18538), NK Raju (18505), R Raja (18453), MV Reddy (18443), M Chakrapani (18436), T Vivek (18461), BVS Reddy (18450), MAS Vishnu (18502), N Chandrasekhar (18500), R Muralidhar (18741), M Gurg (18755), D Ramesh Kumar (18733), K Kemkar (18738), S Rastogi (18728), RN Ramesh (18735), MVM Prasad (18737), PK Sahoo (18759), PSN Rao (18731), SA Khan (18740), A Ravindran (18734), A Athalye (18778), TS Chandrashekar (18766), A Kumar (19071), GS Sharma (19116), MK Srivastava (19112), MI Ali (19087), A Jain (19082), MK Kumar (19063), S Tandon (19094), A Mahalanobis (19111), BM Tyagi (19076), PG Salikar (19117), R Diwan (19102), A Shrivastava (19089), A Dureha (19074), GPS Mangat (19105), SM Kini (19098), AS Khan (19106), S Kumar (19070), A Shukla (19069), MK Sharma (19085), D Sitpal (19108), M Venugopalan (19084), DS Gaihar (19103), S Kumar (19080), R Ramesh (19088), AK Jaiswal (19090), C Saha (19091), N Singh (19096), B Bose (19086), V Kumar (19097), L Kumar (19118), R Janardanan (19064), PS Vasuki (19104), VG Karpik (19095), NK Gupta (19093), AR Kolhe (19101), S Girish (19100), M Bhat (19407), S Bose (19408), RS Chauhan (19590), V Mittal (19420), MS Khan (19417), CS Sreedharan (19411), S Gupta (19410), PK Vatsa (19422), G Varghese (19419), T Mohanraj (19099), P Mullagiri (19416), DSPai (19414), PV Pawar (19418), R Sangal (19415), A Kumar (19412), RS Singh (19409), RKS Jadon (19709), A Ghosh (19715), V Rajasekhar (19714), HS Gadlok (19700), KRM Venugopal (19711), R Prahalad (19704), K Jain (19707), V Dwivedi (19697), M Tirumali (19701), PM Sivadas (19694), V Kher (19702), SK Anupindi (19727), YK Saluja (19696), PG James (19721), V Sunil (19706), AV Rao (19695), BV Arunkumar (19705), AS Mane (19855), S Shrinivas (20240), RK Khazanchi (20238), H Jaiswal (20236), K Sudhir (20235), KAA Sanjeeb (20227), VS Sridhar (20224), Y Umesh (20233), V Mathur (20239), RP Dubey (20237), HK Gore (20371), A Bhattacharya (20222), PS Kannan (20369), S Kataria (20378), B Harish (20370), SB Kumar (20373), S Agrawal (20231), A Ashish (20229), SS Shiralkar (20364), VN Bharambe (20380), I Debnath (20226), RC Rastogi (20381), Hari Kumar (20388), SP Shirolkar (20372), A Srivastava (20366), DS Shekhawat (20230), KV Sanil Babu (20389), P Venugopal (20223), SN Rao (20383), RK Ramamoorthy (20368), V Parameswaran (20390), L Pereira (20362), Y Chaturvedi (20221), UP Kumar (20385), V Verma (20384), S Baijal (20668), JCS Pai (20658), S Nanda Kumar (20667), HR Nanjappa (20657), A Sharma (20665), K Harisankar (20661), RK Ganesh (20650), A Saxena (20666), P Singh (20670), D Srinivasan (20663), S Tewari (20700), S Kapoor (20669), MR Sunil Kumar (20662), JK Edwar (20654), S Tiwari (20671), A Satish (20651), S Chawla (20659), GK Nair (20655), MFM Kabeer (20664), P Suresh (20653), A Dhiman (20903), P Joshi (20904), SR Nimbhorkar (20905), D Pillai (20944), K Dhagat (20886), P Arora (20885), DVN Rao (20883), VRS Raju (21162), GM Kumar (21086), VP Borse (21084), SAK Das (21081), NA Badrinath (21082), KA Rao (21175), ER Surendran (21080), SV Chandra (21174), RAK Viswanathan (21124), SA Nisar (21168),

KS Singh (21394), A Vaidya (21479), ALD Golani (21397), NY Patil (21490), K Sandeep (21481), MS Naidu (21393), K Subramaniam (21480), SK Dash (21396), S Islam (21493), S Varma (21392), PS Rajpal (21395), ABS Deshmukh (21468), MS Pundir (21469), RS Kumar (21196), VSRK Reddy (22011), SC Dathan (22014), A Kabadwal (22100), AD Sharma (22017), D Patro (22013), MVM Reddy (22097), SK Singh (22096), AK Murlidhar (22016), T Chacko (22008), A Hurtis (22015), GR Nair (22012), G Shinu (22099), J Christopher (22010), V Sreedharan (22102), P Sreesh (22007), D Das (22009), DR Chowdhary (22101), wef

—16 Dec 2004

AE (M) BRANCH

FLIGHT LIEUTENANT TO BE SUBSTANTIVE SQUADRON LEADER

S Kumar (25958), A Singh (26272), SM Tanweer (25945), VP Sachdev (25948), S Siddharthan (25944), S Kumar (25947), R Divin (25949), YS Mehra (25961), S Choudhary (25953), A Banerjee (25937), KD Kochhar (25933), DSN Murthy (25939), K Moudgil (25935), A Nain (25942), w.e.f.—01 Jan 2005

V Kumar (24357), A Mahajan (24363), D Ghosh (24361), SBH Reddy (24648), PP Tarhalkar (24658), MBijay (24744), P Chawla (24427), PVV Rao (24838), T Sangeeth (25465), P Kumar (25750), R Vashisht (25755), SD Harishchandra (25732), P Behera (25727), V Datta (25966), P Sharma (25943), MR Singh (25957), B Sarmah (25959), DL Kiran (25955), w.e.f.—03 Jan 2005

R Singh (26271), w.e.f.—14 Jan 2005

PR Mallikarjun (25252), D Sethi (25253), YPS Vignan (25254), H Agrawal (25255), (Mrs) AV Joshi (25257), A Misra (25273), CS Thakur (22273), B Prasad (24466), B Venkatesan (24467), SD Singh (25057), AL Hanwate (23931), SS Suddi (23932), S Kumar (24119), A Arunachaleswaran (24376), V Balasubramaniam (24375), P K Narendra (24366), V Srivatsan (24381), V Singh (24380), AS Gudibanda (24382), AK Malik (24356), KS Kulkarni (24365), R Kumar (24729), J Kumar (24362), G B Thota (24374), GL Nagendra (24372), R Chakraborty (24378), V Sivasubramanian (24730), RK Sinha (24369), KK Garg (24358), P Kumar (24360), V Kiran Kumar (24373), V Arora (24368), A Fareed (24364), V Patel (24440), VG Nadkarni (24367), K Sreedhar (25058), V Mahindrakar (24662), TS Narula (24656), SV Kumar (24650), S Singh (24657), VS Madhabavi (24653), S Khokher (24660), A Gupta (24652), H Sahu (24661), V Bhatia (24655), VG thomas (24647), KN Hoovayya (24663), K A Rao (24355), MP Abraham (24649), S Saksena (24651), N Shukla (24852), S Saini (24761), S Balachandar (24749), MS Raju (24773), CP Gupta (24764), SS patnaik (24771), AM Mahajan (24766), GE Mahesh (24772), A Madhukarrao (24759), PW Deorankar (24755), A Singh (24760), D Singh (24756), MY Joshi (24754), VV Deshapande (24854), AK Nair (24770), J Farswan (24777), VRCS Reddy (24863), JS Sekhon (24739), SS Sidhu (24748), US Samyal (24751), S Servesetty (24752), SS Desai (24742), H Singh (24762), PP Borgohain (24758), DVG Reddy (24865), M Kumar (24741), FBI Ansari (24763), A Tauqueer (24765), Gururaj Narayanan Sanga (24747), VN Mahindrakar

(24750), S Elayaraja (24746), D Kumar (24767), Y Swarnkar (24743), S Sunil (24774), R Tangella (24864), SB Randad (24757), R Chandra (24436), MA Khan (24659), C Chakravarty (24856), PKC Parasaram (24776), YK Sharma (24745), KS Bakshi (25230), A Rathore (25232), S Balamurugan (25233), A Jena (25593), MK Balasubramanian (24740), MM Anil Kumar (25235), S Kumar (25236), A Saikia (25231), V Singh (25234), AK Dey (25238), A Kumar (25239), D Sharma (25237), G Rao (25229), B Dey (24839), A Prabhakaran (24840), KN Ramesh (24853), U Sathyan (24855), A Faiyaz (24858), GS Saini (25467), B Senthilvel (25449), V Panwar (25441), G Kumar (25455), P Radhakrishnan (25431), CV Hari Krishnan (25435), M Agnihotri (25424), PT Nair (25448), GK Sreekanth (25472), PR Pothi (25438), NJS Bajwa (25456), HK Mishra (25443), RK Singh (25434), B Kallurmath (25462), P Verma (25466), A Kundu (25461), BP Mishra (25437), RS Rana (25460), A Tandon (25469), D Bhargava (25471), RR Deshpande (25470), NC Singh (25450), AA Prayagi (25425), DR Singh (25451), SK Saini (25459), MP Balachandar (25444), A Banik (25454), VN Reddy (25468), NMS Bisht (25447), NJ Reddy (25445), US Jamgaonkar (25433), B Sharma (25432), SC Ghorpade (25440), AK Sinha (25446), DK Singh (25463), A Kumar (25442), A Dular (25452), B Choudhury (25430), M Maharajan (25426), VS Chauhan (25423), BK Vilas (25453), BK Vilas (25453), DK Dixit (25458), M Agarwal (25757), PK Mittal (26077), A Vajani (25738), RP Sharma (25751), A Singh (25736), BV Patil (25735), MS Swaminathan (25733), MK Sharma (25748), V Chopra (25748), TS Puri (25760), M Shastri (25743), MR Bailakanwar (25726), GS Ghumman (25761), R Gupta (25742), S Kumar (25754), KA Kotate (25759), P Ashok Kumar (25729), S Sohal (25749), BM Shivanand (25737), S Srivastava (25746), AK Sharma (25744), V Bhardwaj (25752), P Kumar (25730), R Pareek (25723), MJ Reddy (25734), A Garg (25731), AK Singh (25728), AK Allamann (25740), VK Sharma (25724), G Narjary (25739), H Singh (25745), S Shekhar (25753), SAR Antony (25950), w.e.f.—16 December 2004

GA Kumar (25428), w.e.f.—19 December 2004

S Sharma (25436), w.e.f.—28 December 2004

AE (M) BRANCH

Flying Officer to be Substantive Flight Lieutenant

GP Singh (27311), M Sharma (27313), M Karthikeyan (27318), SVS Kumar (27321), J Ravindra (27329), w.e.f.—06 Jan 2005

R Agarwal (27327), w.e.f.—07 Jan 2005

CCC Anantharaj (27325), w.e.f.—15 March 2005

AA Nayar (26390), A Dasgupta (26391), VV Gupta (26392), TC Shah (26393), VS Virdi (26653), GK Pakhode (26654), S Sajit (26655), (Ms) Preeti Singh (26662), (Ms) Mangla Solanki (26663), WBA Pathan (26880), RS Badhe (26881), KK Jha (26882), HH Dave (26883), R Jayachandran (26884), A Mandhar (26886), TW D' Mello (27158), G D'Souza (27159), J Andrews (27161), P Anil Kumar (27162), (Ms) M Sujatha (27166), A Ojha (27190), SS Hiremath (26412), G Kang (26800), P Pathak (26801), D Pant (26803), PK Jha (26804), U Jagadeesh (26805), RS Gorthi (26806), DR Kumar (26808), HL Gowtham (26809), B Janarthan (26810), KL Rao (26811), V Chauhan

(26812), A Gandhi (26814), ES Sundar (26815), S Sharma (26816), S Joshi (26817), SS Huddar (26818), TKS Babu (26819), SS Dhankar (26820), D Kumar (26821), MP Sasikumar (26823), V Kumar (26824), RK Singh (26825), BM Shambhu (26826), V Saini (26827), RK Singh (26828), NK Agrawal (26829), RN Prasad (26830), R Arora (26831), SK Gade (26832), GR Kumar (26833), KGS Swamy (26834), D Jain (26836), R Soans (26837), SN Sanjeev (26876), MLM Suresh Kumar (26802), KS Sridharan (26813), SP Deepu (26835), S Kumar (26838), HS Suri (27110), B Singh (27111), A Chaudhary (27112), J Jose (27113), KK Chamrta (27114), H Ramesh (27115), AK Singh (27116), P Prakash (27118), M Naik (27119), K Trivedi (27120), KM Rao (27434), SR Paliwal (27310), P Kumar (27314), AP Kumar (27315), Shashidhar (27319), PN Donni (27320), PR Badiger (27323), P Rajkumar (27324), PP Nair (27326), P Ramanath Harshan (27328), D Yadav (27331), TM Hirenkumar (27332), M Yadav (27333), A Bansal (27419), KJ Amarnath (27425), M Murlidharan (27429), P Prabhakaran (27430), SS Rath (27571), NP Madhav (27575), BRJ Kumar (27576), P Bajpai (27580), NS Harsha (27582), AB Sakale (27584), w.e.f.—16 December 2004

D Krishnani (27117), w.e.f.—17 December 2004

N Kumar (27298), BR Dabhi (27299), S Sivadasan (27224), w.e.f.—17 Jan 2005

Flt. Lt. to be Substantive Sqn Ldr

A Chakrabarti (25938), JJ Mahaiskar (26215), Amit Gupta (26221), Shiladitya Sen (26229), LK Khulbe (26231), RN Bhatt (26216), Deepak Bhat (26223), B Ravi Kumar (26220), Sanjiv Cherian (26222), Naveen Bhat (26219), Swapnil Nagraj (26225), Ajneesh Tyagi (26214), Ajay Kumar Srivastava (26218), Hare Krishna (26226), Prateek Sharma (26230), Sameer Gupta (26213), Sumit Kumar (26228), Nikhil Jain (26217), RK Prashanth (26227), w.e.f.—09 July 2005

AE(L) Branch

Flt. Lt. To be Substantive SQN LDR

Kapil Rao Tantla (26008), Navneet Singh (26233), Raghendra Narayan Sinha (26234), Sanjeev Gupta (26242), Manish Choudhary (26244), Dalip Singh Gill (26235), RS Vinay Raj (26246), R Sambyal (26237), Shambhu Dayal (26236), Pawan Sengar (26239), Praveen Kumar (26241), Nitin Chaturvedi (26245), S Sreejith (26232), Singh Umesh (26243), Ajay Kumar (26238), Ravinder Singh (26240), w.e.f.—09 July 2005

(Mrs) Suniti Mishra (25803), (Mrs) Dolly Devgon (25805), (Ms) Abha Mendiratta (25804), (Ms) Pranjit Kaur (25809), (Mrs) Kaushal Soni (25810), w.e.f.—26 July 2005

AE(M) Branch

Flt. Lt. To be Substantive SQN LDR

KP Jaya Kumar (25790), AS Patwari (25792), w.e.f.—25 July 2005

AE(L) Branch

Flt. Lt. to be Substantive SQN LDR

Pundir V (25797), Purohit VK (26799), w.e.f.—25 July 2005

AE(M) Branch

Flying Officer to be Substantive Flight Lieutenant

N Kumar (27298), BR Dabhi (27299), S Sivadasan (27424), w.e.f.—17 January 2005

AE(L) BRANCH

Wing Commander to be substantive GP Capt (TS)

VS Gandhi (15963), S Tandon (15964), AD Narayan (15960), DP Roy (15962), w.e.f.—05 Jan 2005.

IK Aggarwal (14172), NS Randhawa (14179), RV Jawalikar (14342), KK Vaish (14601), S Prakash (15112), VA Kaliappan (15300), JV Simha (15625), G Prasad (15614), KK Dey (15624), SV Singh (13709), OP Pandey (14149), CM Seth (14181), RS Sastri (15078), SK Bhartari (14597), CK Bandopadhyay (14579), BR Jain (14618), GV Joshi (15110), MM Bhatia (15269), A Saraswat (15279), PK Kaul (15278), PK Singh (15275), HRS Sharma (15297), KS Chadha (15271), BN Ganesh (15296), DK Sanyal (15623), NK Singh (15618), DG Lad (15655), UC Prasad (15607), SK Tiwari (15630), S Chandra (15628), SS Aggarwal (15838), K Chourey (15826), R Narain (15828), VGR Deodhar (15813), P Narayanan (15633), S Roy Choudhury (15829), G Prasad (15824), TR Jayadevan (14598), w.e.f.—16 Dec 2004.

AE(L) BRANCH

Squadron Leader to be substantive Wing Commander

N Elango (21786), DS Shekhawat (21791), TG Bhasi (19286), BS Chahar (19758), S Singh (22075), Jai Ganesh (22095), NVK Pranjape (22094), M Singh (22090), Ram Lal (19781), D Singh (19784), GR Chumber (20535), PK Das (20536), TV Shivdas (20539), M Prasad (20541), SP Shukla (20548), M Singh (20549), SD Singh (20552), A Singh (20553), PVR Rao (20555), RC Sharma (20558), JS Rana (21050), JR Gupta (21051), KP Thakur (21052), K Singh (21053), J Jana (21057), RC Prasad (18685), S Ramakrishnan (18466), OP Semwal (18468), C Sree Kumar (18464), BS Nayyar (18470), CSP Gupta (18508), PS Rathore (18506), Z Rahman (18509), SLS Prasad (18667), RK Mishra (18743), AV Deore (19022), ST Thomas (19053), S Abhijeet (19018), S Bahuja (19021), D Shrivastava (19042), AK Kadian (19581), HS Dhillon (19025), JN Vani (19046), RK Mishra (19016), DK Sharma (19031), AK Jayarajan (19043), SV Gandhi (19114), M Rajasekar (19045), P Chaudhary (19048), V Rajasekhar (19052), U Chawla (19023), R Mittal (19109), TS Chandar (19035), DN Roy Choudhury (19024), PG Kuruvilla (19033), VM Akre (19041), B Mathews (19056), MA Badhe (19020), I Chowdhuri (19119), B Singh (19044), P Wankhade (19032), A Mathur (19055), V Srikrishnan (19061), PK Singh (19051), AK Dubey (19036), S Modgil (19017), RL Narayanan (19038), D Madhusudan (19030), AK Sinha (19049), S Sarkar (19054), A Singhal (19028), P Singh (19027), K Makhania (19057), NK Patel (19059), JS Patil (19121), GR Awasthi (19125), B Singh (19433), SK Prabhakar (19432), HK Srivastava (19591), KSS Bance (19428), RK Gupta (19430), Ghan Shyam (19593), JAS Asim

Kumar (19592), AD Saini (19425), AK Gupta (19431), AL Trehan (19426), NBR Rayudu (19429), R Mahapatro (19424), Mathew John (19576), K Asaithambi (19039), SS Sekhon (19450), S Manna (19719), S Dargar (19638), N Nainwal (19671), D Chakravorty (19644), NS Bindra (19632), A Kumar (19640), M Gupta (19675), SCM Narahari (19639), P Sharma (19681), TB Gupta (19634), RK Shrivastava (19636), SS Dey (19730), AK Lohany (20181), U Kumar (19729), MP Varghese (19647), SE Birnur (19676), JEE Anand (19726), A Debnath (19657), G Krishnakumar (19686), NK Parhi (19678), V Thomas (19674), E Viswanathan (19654), IT Babu (19664), PTK Shreekumar (19722), VV Kulshrestha (19717), S Ghuratia (19648), S Ohri (19731), A Chawla (19650), P Nagpal (19652), A Garg (19653), SP Bhandare (19668), BBS Pande (19649), SM Swami (19679), G Singh (19666), PM Rao (19645), S Bagga (19627), A Subhedar (19670), M Mishra (19651), JR Kelkar (19691), AK Sharma (19673), DS Sajwan (19659), GS Atwal (19646), K Radhakrishna (19643), HD Nasery (19630), PS Sethi (19724), B Singh (19635), MV Atla (19718), SD Tyagi (19661), OP Singh (19720), MM Anthony (19693), KA Santosh Kumar (19660), AS Kelkar (19633), RD Sharma (19665), DS Rao (19733), HK Das (19656), R Prasad (19687), S Saraswati (19628), S Sharma (19655), SA Chishti (19728), J Antony (19677), SK Gilani (19684), M Sant (19658), H Lokras (19669), R Rex (19716), J Mathuram (19690), PS Labana (19685), CN Paul (19667), V Vij (19804), GBR Dattu (19812), R Arora (19824), MRR Kumar (19827), S Vaidya (19837), RR Viswanathan (20563), CB Chellani (20052), CP Narahari (20043), GSS Viridi (20047), VA Patki (20033), GR Nayar (20050), S Sivakumar (20051), T Roy (20038), OKS Sundar (20048), Y Srinivas (20035), S Ghosh (20034), DG Reddy (20040), PV Anob (20046), SB Patil (20044), SK Shukla (20031), A Soni (20041), S Mithal (20032), MK Prasad (20045), PK Dhoble (20036), VG Pai (20049), Shri Krishan (20564), KV Narayan (19996), SG Lahoti (19995), R Sharma (20001), GS Vishveshwara (19998), R Kumar (20004), HR Raghunath (20009), NK Srivastava (20002), BS Arvind (19999), A Sharma (20029), LVS Sudhamsha (20000), KTN Rao (20022), BK Bastia (20007), D Singh (20255), AG Wathare (20811), TO Ramesh Kumar (20265), S Saxena (20279), GD Srivastava (20280), VK Pandey (20289), SK Satpathy (20387), MR Kane (20272), H Singh (20303), D Srinivasa Rao (20277), R Sanjay (20295), KVK Anand (20298), S Sundararajan (20305), PP Mishra (20264), SCS Riar (20306), HJ Singh (20253), D Biswas (20245), A Prasad (20297), AK Dutta (20257), AK Singh (20268), RR Yedery (20392), BS Raj (20261), A Verma (20292), A Belapurkar (20296), BP Mahajan (20310), R Bhan (20256), SH Kenjle (20241), PS Gangopadhyay (20284), M Samuel (20258), MR Harish Kumar (20248), V Singh (20300), TVK Sushil Kumar (20275), PK Sen (20243), SK Bose (20391), K Mangesh (20377), P Sandeep (20375), S Sundar (20312), A Darbari (20288), CR Sreeji (20286), KS Prasad (20247), AK Sil (20270), R Sharma (20281), GD Matte (20267), V Singh (20299), MM Jhawar (20376), V Katti (20302), R Guruhari (20269), R Singh (20367), R Aroor (20285), J Singh (20263), R Tiwari (20242), CK Sethunath (20273), MK Pani (20249), VS Blouria (20287), VV Jagannatha Rao (20271), C Naganathan (20309), S Vijn (20301), A Tiwari (20252), A Gautam (20308), D Naskar (20250), H Chandrashekar (20254), NS Dhanjal (20262), PRL Prakash (20307), HS Cheema (20361), T Sakthibalan (20316), V Gaur (20350), U Kumar (20332), BK Panda (20349), A Kumar (20323), A Jain (20321), GK Routh (20314), RK Chaube (20346), KN Santosh (20674), S Mehta (20693), VM Perisetty (20684), NK Nair (20680), JB Singh (21079), S George (20686), NK Choudhary (20678), N Govindarajan (20681), SK Das (20688), JP Sharma (20679), MK Garg (20682), V Agarwal (20673), P Kumar (20721), PA Patil (20685), T De (20690), A Sachdeva (20691), S Ramanathan (21078), BK Chaurasia (20692), KS Gopalakrishna (21077), R Bhardwaj (20689), S Pandey (20697), A Singh (20698), R Gopalakrishnan (20675), A Agarwal (20705), GS Murthy (20707), SS Rana (20704), SP Vaidya (20708), SS Meduri (20702), V Sharma (20711), N Karthikeyan (20847), H Bahl (20863), CP Sharma (21383), RK Sharma (20830), A Sarkar (20827), SS Rehal (20862), R Sridhar (20831), A Batra (20842), P Malhotra (20860), Atul Anand (20836), RRS Riat (20820), S Saxena (20881), VV Kelkar (20841), S Rao (20865), LTJ Antony (20852), M Naik (20875), PV Manoj Kumar (20858), S Balasubramaniam (20877), SM Kalode (20968), V Shenoy (20868), YSK Aditya (20876), Thambi Raja (20835), B Ajith Kumar (20828), SS Kulkarni (20942), DS Arun (20873), SV Rao (20843), VD Joshi (20840), A Sud (20818), AJ Rebello (20833), S Ram Mohan (20878), SD Penurkar (20882), R Nanduri (20879), A Singh (20851), S Suri (20849), RA Patil (20853), S John (20866), VG Menon (20867), MV Patil (20872), CR Reddy (20844), A Vyas (20880), HVS Narayana Rao (20874), AD Nandedkar (20864), MS Khan (20870), DP Immanuel (20834), NS Reddy (20823), S Bhatia (20822), A Mathew (20832), UD Singh (20850), JU Sethi (20856), P Kumar (20941), RK Mongia (20848), SK Joshi (20821), GS Atrawalkar (20839), RK Mukundan (20859), VS Negi (20855), R Dogra (20910), D Adhikari (20934), S Sivan (20926), M Sharma (20929), GS Rao (20916), S Mehrotra (21110), A Singh (20837), SD Patil (21116), PR Patel (21103), VK Chaturvedi (21105), PS Saini (21106), S Chatterjee (21115), CS Chawla (21192), R Makhija (21098), MK Singh (21732), VA Pathak (21102), SR Tapashetti (21198), PG Mahant (21109), A Agrawal (21111), FF Nabi (21113), B Paul (21114), A Sidhu (21107), K Satish (21089), A Gaur (21104), P Sreekumar (21152), G Barathan (20917), S Suresh (21149), SM Bahuguna (21183), KR Perumal (21158), PK Singh (21659), BS Randhawa (21164), C Glasstoni (21151), AV Reddy (21167), VPS Babu (21160), RK Biral (21161), S Ramesh (21422), UC Sharma (21407), AP Saraph (21427), PK Anand (21411), CS Hari (21406), AJ Rabello (21442), R Kar (21445), R Katoch (21413), S Skukla (21424), A Sony (21404), LT Gandhi (21402), GUM Rao (21444), H Singh (21412), R Seth (21400), M Kurian (21436), DK Mundade (21432), DS Sachan (21408), S Nasir (21417), S Kumar (21426), N Mittal (21431), HS Basra (21419), RC Sarihyani (21414), AK Sheffi (21418), PK Wilson (21448), S Kaul (21443), V Kukreti (21430), BN Singh (21429), KV Girish (21447), CVN Satyanarayana (21438), R Gubba (21437), S Punnose (21398), NSS Ramesh (21440), TS Pruthi (21434), YK Bajaj

(21441), MS Rao (21492), P Jain (21428), P Kumar (21399), N Rohit (21410), I Maitra (21423), VS Balaji (21415), R Ashok (21403), TM Murthy (21452), MC Haridas (21450), V Lohia (21433), JS Patyal (21455), RC Hiremath (21486), AK Gupta (21485), R Kumar (21734), H Gopal (21739), S Bharadwaj (21753), P Agarwal (21760), Dukman (21737), HN Kumar (21745), A Bahl (21757), AK Shrivastava (21758), RA Ranjan Ram (21755), JS Bedi (21746), PN Sharma (21736), AV Kale (21750), I Banerjee (21759), SK Pillai (21735), RS Unnikrishnan (21764), S Kumar (21767), RK Menon (21756), M Jhingran (21747), RM Jha (21766), G Pomurugan (21743), SK Yadav (21754), VK Gupta (21763), VM Reddy (21765), P Mohandas (21744), GS Barmi (21740), S Dubey (21761), P Saidu (21742), R Shreekrishnan (21749), P Venugopal (21738), DR Mishra (21741), AD Shahane (21748), NK Thimmappa (21802), A Thakur (22044), MV Khare (22049), P Suresh (22034), R Mugesh (22027), V Bhardwaj (22022), SG Gattu (22063), SK Singh (22066), A Kohli (22051), R Gupta (22050), S Arora (22033), M Venkatachalam (22062), P Madhusoodhanan (22042), KS Ammanamanchi (22053), R Varadharajan (22061), M Deori (22046), M Rajagopal (22039), LV Prasad (22035), JK Barui (22060), AA Shukla (22065), AS Dham (22048), SV Patel (22043), DS Braich (22052), KD Goel (22037), PJ Thomas (22026), V Varma (22056), V Sud (22023), JS Dattatray (22028), SM Choudhari (22024), AG Bhavsar (22047), S Rajendran (22040), SN Jani (22032), SK Maroli (22030), LP Joshi (22018), AK Dikshit (22265), UMD Mendi (22025), P Narendra (20913),

—w.e.f. 16 Dec 04

SK Shrivastava (19128),

—w.e.f. 21 Dec 04

A Kumar (19662),

—w.e.f. 21 Mar 05

AE (L) BRANCH

Flight lieutenant to be substantive squadron leader

G Armstrong (26273), C Mohan (26274), NR Singh (25968), V Ganesan (26275), RK Pal (25990), D Singh (25984), R Sharma (25969), MC Joshi (25979), HS Chouhan (25994), CS Hiremath (25992), LJ Ajish (26002), S Sudhakaran (25973), S Kumar (26000), VM Kumar (25971), SS Padma (25989), S Haikrishnan (25967), BM Kumar (26005), YL Khan (25995),

—w.e.f. 01 Jan 05

AM Dhamane (24731), RK Singh (24391), A Basak (24416), R Gopalakrishnan (24421), R Vijay (24393), R Gautam (24671), MK Sharma (24675), S Mohanty (24816), MKA Shakir (24785), SRAK Kumar (24820), AC Deshpande (24795), R Kumar (24827), WS Ramling (24788), SS Walasang (24790), KS Chari (24786), P Garg (25250), N Srivastava (25247), BN Lute (25816), NK Verma (25511), HS Dalal (25501), C Gunasekaran (25494), RS Ghunghus (25492), G Saxena (25474), A Rajesh (25786), A Rawat (25779), SC Thomas (25767), B Firoz (25780), MK Labroo (25977), G Singh (26001), A Sharma (25999), VK Mishra (25970), P Saxena (25991),

w.e.f. 03 Jan 05

(Ms) Y Sujatha (23701), (Mrs) SA Urekar (24147), (Mrs) K Singh (24148), (Mrs) P Bharade (24150), (Mrs) B Gogoi (24151), (Mrs) A Vasdev (24155), (Ms) V Lamba (24699), (Ms) VS Kalaiselvi (24700), (Mrs) P Anand (24701), B James (25262), TP Dias (25263), (Mrs) Avani Pandey (25267), (Mrs) Dimple Rawat (25268), (Mrs) Yogini Desai (25269), (Mrs) Paramjeet Ghotra (25270), S Shyam Sunder (24470), H Hussain (24471), AK Choudhury (23933), RG Hegde (24136), CM Santosh (24140), UP Nagarale (24135), MR Dinesh (24131), BK Pandey (23892), A Perwaiz (24390), V Bhardwaj (24392), HN Tiwari (24732), A Raina (24399), A Vashishtha (24424), KS Kumar (24413), KM Khan (24402), NM Thapliyal (24411), S Patra (24418), RS Harikumar (24422), DP Mishra (24733), U Sharma (24405), SP Rathore (24734), Dheeraj Raj Ghai (24425), NK Suryadevara (24423), AS Naraina (24395), JKP Mottil (24396), RN Deepak (24384), SC Nathan (24419), RK Raju (24420), A Kumar (24387), RN Nair (24410), RM Singh (24736), S Rawat (24407), GKN Nair (24409), MP Sharma (24401), V Anand (24415), RS Rawat (24406), A Gupta (24403), D Ramani (24435), A Nagar (24389), H Vats (24385), RK Bhatia (24394), S Banerjee (24417), KDA Rajesh (24412), M Asuti (24400), SK Dash (24386), D Kumar (24434), HS Sangar (24397), HN Prasanna (24388), PS Sreenivasan (24404), A Sarkar (24672), AK Kancherla (24708), SK Gupta (24676), AI George (24673), P Saraf (24674), KM Jayant (24666), AK Bhatt (24665), SS Kanyal (24704), K Bhattacharjee (24678), S Verma (24681), RK Panda (24687), AT Reddy (24667), JR Dhawaskar (24686), KV Chary (24668), B Doongarwal (24669), K Harit (24685), BJ Manoj (24670), V Chaturvedi (24680), B Naveen (24682), A Gogoi (24683), ML Shreeprasad (24782), A Arshi (24781), C Deep (24824), M Thirumaran (25277), RA Anand (25278), R Arvind (24796), C Parthiban (24799), MP Singh (24812), A Chandra (24828), A Banerjee (24822), KS Rajeev (24819), SV Kulkarni (24811), S Ranjan (24821), JA Kumar (24805), A Chandrasekhar (25279), SK Shah (24815), VK Kumar (24809), Vikas (24825), AR Jathar (24817), S Sukumar (24780), A Karthikeyan (24801), K Singh (25280), A Verma (24862), M Saxena (24794), SK Shahi (24798), S Jain (24787), R Ranjan (24779), MSK Venkata (24783), P Singh (24857), R Thatha (24826), AN Somanna (24810), AR Muralidharan (24833), KS Rao (24866), JA Reuben (24808), SC Kumar (24804), SP Purarik (24813), D Jain (24832), P Muni Kumar (24802), SK Kar (24803), A Mazumdar (24818), V Bhandari (24800), D Biswas (24797), A Kaushik (24823), AK Thakur (24791), SK Sarkar (24814), P Sharma (24431), A Agrawal (24432), P Sharma (24433), GV Pralhad (24677), RK Tripathi (24792), R Tiwari (24789), P Gupta (24784), N Sajevee (24694), PR Gupta (24696), KA Rajan (24697), M Guddad (24698), PG Singh (24705), P Shukla (25245), S Balotra (25246), MK Rai (25249), JS Sidhu (25242), A Kumar (25241), S Chandola (25240), A Tiwari (25243), Y Purohit (25248), R Gautam (24842), R Deshmukh (24843), RS Yadav (24844), S Lamba (24845), IS Sehdev (24846), G Karki (24851), B Roy (25493), H Agarwal (25500), S Sanketi (25485), S Soni (25491), N Kumar (25818), BR Joshi (25488), PP Desai (25479), DK Mishra (25478), P Yadav (25496), PK Sachan (25503), A Jain (25475), CV Arun (25484), MS Gill (25513), N Dutta

(25505), R Goswami (25480), A Pant (25508), PK Bhardwaj (25487), D Sinha (25502), S Saini (25499), M Singh (25477), SK Mudhol (25507), A Dwivedi (25483), S Karthikeyan (25510), A Yadav (25506), JP Daniel (25509), VK Agarwal (25512), R Shori (25504), P Kashyap (25482), RS Pawar (25498), NSK Singh (25490), A Suranglikar (25514), J Kumar (25486), A Bajaj (25766), AI Shah (25769), A Sharma (25778), DG Paul (25785), R Vohra (25774), K Tikoo (25762), P Bahadur (25787), AK Mishra (25773), A Govil (25765), KL Tomar (25768), G Sanal (25783), RP Kumar (25784), U Kumar (25782), JP Singh (25764), AK Mendiratta (25763), RS Sambyal (25495), VN Mishra (25776), TD Singh (25772), U Chaturvedi (25770), T Kiba (25781), SK Upadhyay (25775), BS Girish Kumar (25788), w.e.f.—16 Dec 04.

BS Kumar (24138),

—17 December 2004

SS Subramanian (25282),

—19 December 2004

MK Jha (24806),

—21 December 2004

AE (L) Branch

Flying Officer to be Substantive Flight Lieutenant

SR Muralidharan (27335), P Anand (27337), G Shukla (27339), G Sharma (27341), AGN Chaitanya (27347), R Sankararaman (27350), S Rajesh (27351), K Kiran (27361), A Premi (27362), KKK Pramashivaiah (27377), AKY Das (27384), VR Kishore (27395), V Venu (27396), G Pratap (27405), T Verma (27412), w.e.f.—06 Jan 2005

P Vashistha (27369),

—07 Jan 2005

JAA Ali (27417),

—09 Jan 2005

R Malik (26394), S Gangopadhyay (26395), AS Sachan (26396), PCN Agrawal (26397), SM Kumar (26657), JS Grewal (26658), JB Saha (26660), (Ms) Parvinder Kaur (26664), (Ms) Veena Verma (26666), (Ms) Geetanjali Sagar (26667), (Ms) Sonali V Shirpurlar (26668), (Mrs) Sumiya Suseelan (26669), (Ms) Rakhi Sathishchandran Nair (26670), (Ms) Harsha M George (26671), (Ms) Rashmi Rawat (26672), (Ms) Suraksha (26673), (Ms) Preetha Mangalassary (26674), (Ms) Shreni Satani (26675), (Ms) KP Pree tha (26676), (Ms) Boyapati Katani (26678), HC Mann (25814), (Ms) S Vijayalakshmi (26679), N Nagarajan (25815), G Pramod (26656), R Singh (26681), KK Aggarwal (26887), P Ganesan (26682), SS Agrawal (26888), RS Singh (26683), LR Narayanan (26889), SM Shenoy (26890), S Verma (26891), T Singh (26892), SR Prabhu (26893), A Sharma (26894), V Balachandran (26895), AK Revi (26896), A Prahalad (27163), S Joshi (27165), (Ms) Tuniha Singh (27167), (Ms) Gauri Kalra (27168), (Ms) Nisha Mohan Menon (27169), (Ms) Pranav Sharma (27170), (Ms) Manpreet Bedi (27172), (Ms) Shweta Kaushik (27173), (Ms) P Barathy (27174), (Ms) K Haiuja (27175), (Ms) R Subathra (27176), (Ms) Yogita Chauhan (27177), (Ms) Shilpa Suri (27178), (Ms) Anjali Singh (27179), (Ms) Maninder Kaur (27180), (Ms) Manali Shukla (27181), (Ms) K Mahesh Priya

(27182), (Ms) Venkataraman Sarada (27183), (Ms) Sheetal Chauhan (27184), (Ms) Renuka Nair (27185), (Ms) Surbhi Arora (27187), (Ms) Kavita Chahal (27188), (Ms) Deepti Malik (27189), A Menon (25476), D Mishra (26432), NK Samal (27109), G Bellikar (26839), N Kulshrestha (26841), M Pratap (26842), MK Singh (26845), RN Koushik (26846), G Manglic (26849), RJS Pahwa (26850), S Kumar (26851), N Ramakrishnan (26852), R Sharma (26853), PS Karthik (26854), R Saxena (26855), PK Teotia (26856), R Pajhal (26858), NSB Kumar (26859), SK Khare (26861), S Saini (26863), A Ambrale (26865), B Mohan (26866), A Siddiqui (26868), AS Chauhan (26870), NA Musalay (26871), A Rastogi (26872), V Verma (26874), R Gangadharan (26875), RK Madhra (27297), Manish (26840), J Kuntal (26862), P Ganguly (26878), AK Mittal (26950), S Singh (27121), RK Dogra (27122), H Saravanan (27123), K Singh (27125), M Hariharan (27126), I Chatterjee (27127), AK Garg (27128), BP Tripathy (27129), A Guglani (27130), AK Singh (27131), J Singh (27133), M Sharma (27134), A Singh (27135), S Uday Kumar (27136), D Prasad (27137), A Baral (27138), A Khare (27139), V Bharti (27140), S Gautam (27141), P Yadav (27142), S Singh (27143), A Jain (27145), GS Dhingra (27146), ON Choudhary (27147), V Sagwal (27148), R Abhilash (27149), V Prasad (27151), H Vaidya (27152), S Tejpal (27153), MN Singh (27154), P Kumar (27155), RS Verma (27156), KVBV Prasad (27435), P Aslam (27334), MK Verma (27338), KK Jha (27342), S Nath (27344), S Krishnamurthy (27352), M Sreenivasulu (27353), PK Dey (27354), SK Chavan (27357), N Kishore (27359), S Ahmed (27360), C Gulati (27363), M Thapliyal (27365), S Sharma (27366), S Prasad (27367), VS Ulshai (27368), N Praveen (27370), W Khelenjit (27371), S Selvaraj (27372), P Yadav (27373), JM Cladius (27374), S Mukherjee (27375), PV Kajesh (27376), OS Babu (27378), MJ Khan (27379), A Pant (27380), TB Singh (27381), AR Varshney (27382), D Garg (27385), S Sonna (27386), A Zahid (27387), HP Kothari (27388), KS Kumar (27389), P Mishra (27390), G Singh (27391), AS Chauhan (27392), VS Kumar (27394), S Sharma (27397), KSS Nair (27398), A Samajpat (27399), SK Pandey (27400), L Rajagopal (27401), R Singh (27402), MB Ponnappa (27403), K Vashishtha (27404), V Chatta (27406), C Anvarshaji (27408), S Yadav (27411), MA Singh (27414), G Sharma (27415), LBMJ Antony (27416), S Kumar (27432), SK Behera (2586), V Rajendran (27588), SK Banthia (27590), AJ Almeida (27591), V Thomas (27593), SS Desai (27597), T Thapar (27599), GRS Reddy (27601), D Singh (27602), S Sajwan (27603), PR Babu (27604), HN Ravi Kumar (27606), Basavaraj (27607), GS Ranji (27608), GK Nanjundaswamy (27610), PK Mathai (27613), NS Setty (27615), KK Chaitanya (27617), A Ranjan (27619), A Mullick (27621), w.e.f.—16 Dec 2004

DV Nair (27422), w.e.f.—16 Jan 2005

S Ahmad (27409), w.e.f.—17 Dec 2004

AK Ghosh (27301), G Singh (27427), w.e.f.—17 Jan 2005

RR Sundaram (27433), w.e.f.—20 Jan 2005

D Kaura (27150), w.e.f.—21 Dec 2004.

SHORT SERVICE COMMISSION

Flt Lt to be substantive Sqn Ldr

ADMIN BRANCH

Bharti Misra (23644) wef, 16 Dec 2004

S. SRIVASTAV

Wg Cdr

JDPO-3(D)

(b) To be severely reprimanded.

—08 Jun 2005

IC-60109K Lt LB Mall, AOC.

(a) To forfeiture of six months service for the purpose of promotion

(b) To be severely reprimanded.

—04 Aug 2005

IC-52298K Lt Col Satyendra Narayan, Engrs.

(a) To forfeit two years past service for the purpose of pension

(b) To be severely reprimanded.

—10 Oct 2003

IC-47908F Lt Col Ran Singh Dudee, AOC.

(a) To be cashiered

(b) To suffer rigorous imprisonment for two & half years in civil prison

—24 Oct 2005

S. R. BAIRWA

Dy Dir

MS 8C

(ARMY BRANCH)

No. 621, dated 20th November 2006—The under mentioned officer is awarded the following punishment by SGCM.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

RC-0661A Capt Daljit Singh, Inf

To be dismissed from the service

—05 Aug 2003

The under mentioned officer is awarded the following punishment by GOI, MoD.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-37749F Capt SS Sandhu, Inf

Termination of Service under Army Act Sec 19 read with Army Rule 14 by GOI, Mod on 12 Aug 2004.

—12 Aug 2004

The under mentioned officers are awarded the following punishment by GCM.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

SL-03376N Major Gurnam Singh, Engrs

(a) To be Cashiered.

(b) To suffer RI for five years. AA Sec 52(F), AA Sec 57(A), Read with Sec 34.

—14 Mar 2005

IC-40200Y Lt Col Rajeev Sharma, Arty.

(a) To forfeit one years past service for the purpose of pension

(c) To be severely reprimanded.

—07 Apr 2005

IC-38436P Lt Col(TS) Jotinder Pal, Inf.

(a) To forfeit ten years past service for the purpose of pension

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDUM

No. 622, dated 20th November 2006—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 333 published on 08 Jul 2006 under the heading "Regular Army, Permanent Commission (SL)", and sub heading "Maj to be Lt Col" wef 16 Dec 2004 the following amendment is made:—

For : SL-3376 Gurnam Singh, SL/ASW

Read : Blank

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 495 published on 15 Oct 2005 under the heading "Regular Army, Permanent Commission and sub heading "Maj to be Lt Col" the following amendment is made:—

For : Permanent Commission (SL)

Read : Permanent Commission

SHIV RAM BAIRWA

Dy. Dir

MS 8C